



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 2, 2012 (फाल्गुन 6, 1933)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 2, 2012 (PHALGUNA 6, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV [PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as KAMAL KUMARI wife of Sh. SURESH BHARDWAJ, residing at WZ-629, Palam Village, New Delhi-110045, have changed my name and shall hereafter be known as KAMAL BHARDWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMAL KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MIDATHADA SURESH KUMAR son of Late MIDATHADA JOHN, Indian Christian, aged 33 years, residing at Door No. 34-13-33, 2nd Floor, Rossilian Street, Gnanapuram, Visakhapatnam-530004, Andhra Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as MIDATHADA MARC RICH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MIDATHADA SURESH KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIPIN KUMAR son of Sh. AMAR SINGH, employed as Engineer in the VMG Media India Pvt. Ltd., Residing at Flat No. 81-A, Railway Colony, Naya Bazar, Delhi-110006, have changed my name and shall hereafter be known as VIPIN CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIPIN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, AVINASH SHANKAR son of Sh. GAJ BADAN RAI, residing at A-62, Seema Apt., Plot No.-7, Sector-11, Dwarka, New Delhi-110075, have changed the name of my minor daughter ANANTA SHANKAR aged 15 years and she shall hereafter be known as ANAUNTTA SHANKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AVINASH SHANKAR
[Signature of Guardian]

I, CHANDRA SHEKHAR son of Sh. LAKSHMI NARAIN, residing at 301, Pkt-3, Janta Flats, Paschim Puri, New Delhi-110063, have changed the name of my minor son MOKSH aged 6 + years and he shall hereafter be known as MAULIK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHANDRA SHEKHAR
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as GEETA wife of Sh. AJAY YADAV, residing at 60 BN BSF Khajuwala (Rajasthan) and residing at Vill-Hazipur, Teh-Narnaul, Dist-Mahendergarh, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as GEETA YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GEETA RANI wife of Sh. JAGDISH LAL KHURANA, a Housewife, residing at A-724, D.D.A., Colony Khyala, New Delhi-110 018, have changed my name and shall hereafter be known as VEERA VALI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GEETARANI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SATYAPAL SINGH son of Sh. SHANKAR LAL, employed as Doctor, residing at C-813 (Type A) Jalvayu Towers, Sector 56, Gurgaon, have changed my name and shall hereafter be known as SATYA PAL SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATYAPAL SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GARIMA BHALLA wife of SH. KUNAL ARORA, residing at 347, Than Singh Nagar, Lane No. 1, Anand Parbat, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as GARIMA BHALLA ARORA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GARIMA BHALLA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NITIN VASANTRAO RAKTE son of Sh. VASANTRAO DEVAPPA RAKTE, employed as Service Post Driver (OG) in BARC, Chembur, Mumbai 400 085, residing at Room No. 3, Ram Nagina Tiwari Chawl, Jamblipada, Asalpha Village, Ghatkopar (W), Mumbai-400 084, have changed my name and shall hereafter be known as NITIN VASANTRAO SALUNKHE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NITIN VASANTRAO RAKTE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SITA RAM son of Late JAGAT SINGH, employed as an Advocate, residing at EK-9/41, Eklavya Vihar, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as RAJAN CHAUHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SITA RAM
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DEEPAK KUMAR son of Sh. RAJENDRA SINGH, Self Employed, residing at 227, Engineers Enclave, Ph-1, G.M.S. Road, Dehradun (U.K.), have changed my name and shall hereafter be known as ARTHIK KAPOOR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GUDIYA JOSHI daughter of Sh. R. D. JOSHI, residing at 306, Damuwadhunga Malli Bamori, Haldwani, Nainital, Uttarakhand-263139, have changed my name and shall hereafter be known as AASHE JOSHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GUDIYA JOSHI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAN SINGH son of Sh. HEM SINGH, employed as Major in the (name of office) Indian Army, residing at (present address) H. No. 10/2, DKS Colony, Military Station, Bikaner, have changed my name and shall hereafter be known as RAN SINGH RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAN SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIRMAL GANGULI son of Late HARIPADA GANGULY, employed as Sr. TOA (G) in the Bharat Sanchar Nigam Limited, residing at A/108, Purbayan, Road No. 4, P.O. Sodepur, Kolkata-700110, have changed my name and shall hereafter be known as NIRMAL GANGULY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIRMAL GANGULI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANTONY son of Sh. MICHEAL, employed as Labour in the C.M. Section, T. No. 114/11827 Vehicle Factory Jabalpur, residing at 3169, Type III, Vehicle Factory Estate, Jabalpur, M.P., do hereby solemnly affirm and declare that I have embraced and renounced as ANTONY XAVIER son of Sh. MICHEAL with effect from 23/11/2011.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANTONY
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRAKHAR AGRAWAL son of Sh. RANJAN AGRAWAL, residing at Khatiyon Mohalla, Dhampur (Distt. Bijnor, Uttar Pradesh), have changed my name and shall hereafter be known as PRAKHAR BINDAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAKHAR AGRAWAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NARINDER SINGH son of Sh. KULWINDER SINGH, a Student, residing at 57/200, Shastri Nagar Batala, Distt. Gurdaspur, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as NARINDER SINGH BHINDER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARINDER SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HITLER son of Sh. KUMAR PAL SINGH, residing at A-157, Ramesh Enclave, Near Rohini Sector-21, Kirari, Suleman Nagar, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as GAUTAM SAGAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HITLER
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANDEEP GANGULY son Sh. RAVI GANGULY, residing at D-526, Sector-1, Avantika, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as AKSHAY GANGULY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANDEEP GANGULY
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANAND SINGH son of Sh. RAI SINGH, residing at 234, Swayam Sidha Colony, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026, have changed my name and shall hereafter be known as AZAD SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANAND SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, RAJAN RAKHEJA son of Late MANOHAR LAL RAKHEJA, residing at M-37 Kalkaji, New Delhi-110019, have changed the name of my minor son AKASH REKHEJA aged 15 years and he shall hereafter be known as AKSHAY RAKHEJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJAN RAKHEJA
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as RAJU MISHRA son of Sh. CHHOTE LAL MISHRA, residing at D-40, Gupta Colony, Parlad Vihar-II, Delhi-110042, have changed my name and shall hereafter be known as RAKESH KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJU MISHRA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DIVYA RAJPUT daughter of Sh. VIJAY PAL RAJPUT, residing at G-7/2, 1st Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as DIVYA BHAARTI RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DIVYA RAJPUT
[Signature (in existing old name)]

I, VIJAY PAL RAJPUT son of Late GULZARI LAL, residing at G-7/2, 1st Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017, have changed the name of my minor daughter GAYATRI RAJPUT age about 14 years and she shall hereafter be known as GAYATRI DEVI RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY PAL RAJPUT
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as RAJ KANWAR son of Sh. MOTI RAM, employed as Driver in the Delhi Transport Corporation, residing at C-179, Gali No. 14, Khajoori Khas, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as RAJ KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJ KANWAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNNY son of Sh. SUKHDEV, employed as Commi Chef in the Hotel Crowne Plaza, Rohini, New Delhi-85, residing at B-9 House No. 373, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as SUNNY DHAMCHANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNNY
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANJEEV KUMAR GUPTA son of Sh. C. L. GUPTA, residing at 1086-K, Second Floor, Opp. G-45, Bali Nagar, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as SANJEEV MAHAJAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJEEV KUMAR GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VISWANATH SAJJALA son of Sh. PURNA CHANDRA RAOS, residing at Plot No. 31, 1st Lane Hastinapuri Colony, Sanikpuri Colony, Secunderabad-500 094, have changed my name and shall hereafter be known as VISWANATHA SARASWATHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISWANATH SAJJALA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANU (DOB 22.08.1992) son of Sh. AKHILESH KUMAR, a student of KIIT University, Bhubaneswar, Permanent address : 4D, Shivroop Kutir Apartment, Rd No. 08, S. K. Nagar, Patna-800001, Presently residing at Rm No. 2A95, King's Palace-7, KIIT Univ. Bhubaneswar, have changed my name and shall hereafter be known as MANU SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KURMANI DHYANI wife of Sh. BHAGWATI PRASAD DHYANI, residing at Block-2, H. No. 108, Dakshin Puri Extn. Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as KAVITA KURMANI DHYANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KURMANI DHYANI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JOHAR RUCHITA ASHOK KUMAR daughter of Sh. ASHOK KUMAR JOHAR, residing at H-101, Konark Indrayu Enclave at Phase-I, Kondwa, Pune, after my marriage with Sh. KUNAL ASHOK CHEEMA have changed my name and shall hereafter be known as RUCHITA KUNAL CHEEMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JOHAR RUCHITA ASHOK KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJBIR SINGH SHAREN son of Sh. GOPI SINGH, employed as Wing Commander in Indian Air Force, residing at 583, Air Force Naval Officers Enclave, Plot No. 11, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075, have changed my name and shall hereafter be known as RAJBIR SINGH SAHARAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJBIR SINGH SHAREN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIJAY BAHADUR son of Sh. RAM NARAIN, employed as Junior Executive (ATC), Airports Authority of India, residing at Agartala Airport, Agartala, Tripura (W), have changed my name and shall hereafter be known as VIJAY CHANDRAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIJAY BAHADUR
[Signature (in existing old name)]

I, SEEMA wife of Sh. AMIT BHOJGI, employed as Head Constable in Delhi Police, residing at 4743/3, Mata Mandir Chowk, Arya Pura, Roshanara Road, Delhi-110007, have changed the name of my minor son SAINANJAY, (D. O. B. 26th June, 2008) and he shall hereafter be known as DAIWIK BHOJGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SEEMA
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as NAMRATA daughter of Sh. R. L. SRIVASTAVA, residing at M-29, Lado Sarai, New Delhi-110030, have changed my name and shall hereafter be known as NAMRATA SRIVASTAVA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAMRATA
[Signature (in existing old name)]

I, SHYAM SUNDAR son of Late GOVIND RAM SHAMRA, employed as Lineman in BSES (Yamuna Power Limited), residing at C-46, Gali No. 2, Indrapuri, Loni, Ghaziabad, UP, have changed the name of my minor son namely HARSH and he shall hereafter be known as SUSHANT SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHYAM SUNDAR
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as TOSHIMA AHUJA wife of Sh. M. AHUJA, residing at 1850, Second Floor, Rani Bagh, New

Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as NANDITA AHUJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TOSHIMA AHUJA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SWATI DEVI daughter of Sh. SATENDRA SINGH SIDHU, employed as Research Affiliate in Nature Conservation Foundation, Mysore, residing at MWO S. S. SIDHU, SMQ-15/12, A. F. Stn. Vayusenabad, New Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as SWATI SIDHU.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SWATI DEVI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MAHTO GITADEVI wife of Sh. NARESHPRASAD, employed as Gr. D O/o GMTD, BSNL, Himatnagar, Distt. Sabarkantha (Gujarat), residing at Plot No. 7 B, Amarnath Society, B/H Vaibhav Society, Mahavirnagar, Himatnagar, Distt. Sabarkantha (Gujarat), have changed my name and shall hereafter be known as YADAV GITADEVI NARESHPRASAD.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHTO GITADEVI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIDHI BHASKAR wife of Sh. MAHESH B. CHHIBBER, residing at 33B, Pocket B. Sidhartha Extension, New Delhi-110014, have changed my name and shall hereafter be known as MAHESHWARI CHHIBBER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIDHI BHASKAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BASANTI BAJETHA wife of Sh. DHANUMJAYA PRAKASH, residing at A-205, New Ashok Nagar, Delhi-110096, have changed my name and shall hereafter be known as BHUVI PRAKASH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BASANTI BAJETHA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANU AGHI wife of Sh. PARAG DUA, employed as Dental Officer, Army Dental Corps, residing at D-65, Vikas Puri, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as ANU AGHI DUA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANU AGHI
[Signature (in existing old name)]

I, TEJ PARKASH SHARMA son of Late MOHAN LAL SHARMA, residing at G-4/40, Sector-11, Rohini, Delhi-110089, have changed the name of my minor daughter ARTI, aged 17.6 years and she shall hereafter be known as AARTI SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

TEJ PARKASH SHARMA
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as SRIMATHI SRINATH wife of Sh. N. SRINATH, employed as IT Administrator, Tata Services Limited, New Delhi, residing at 15-B, Pocket-B, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as RADHIKA SRINATH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SRIMATHI SRINATH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ATUL KUMAR son of Sh. AKSHYA KUMAR, residing at 48, Janta Quarter, Vivek Vihar, Phase-I, Delhi-110095, have changed my name and shall hereafter be known as ATUL KUMAR GOEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ATUL KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as JAI RAM son of Late RAMJI LAL, residing at A-284, Pocket-00, Sector-2, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as JAI RAM SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JAI RAM
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KHAJAN KUMARI wife of Sh. JAI RAM SINGH, residing at A-284, Pocket-00, Sector-2, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as SAROJ SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KHAJAN KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANKUR BEDI son of Sh. KARAN SINGH BEDI, residing at Y-13, IInd Floor, Naveen Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as ASHMEET SINGH BEDI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANKUR BEDI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BIR BAHADUR son of Sh. NATHNI MANJHI, employed as Beldar in the office of Executive Engineer, 'F' Division, CPWD, Krishi Bhawan, New Delhi, residing at 1130, Sector-I, R. K. Puram, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as BIR BAHADUR MANJHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIR BAHADUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PAMMI BALI/PAMMI CHHIBBER wife of Sh. PRADEEP CHHIBBER, residing at 346, Nimri Colony, Delhi-110052, have changed my name and shall hereafter be known as POONAM CHHIBBER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PAMMI BALI/PAMMI CHHIBBER
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRIYADARSHINI POOJA NAYAK daughter of Late MAHIPAL SINGH NAYAK, residing at H-346, Sarojini Nagar, New Delhi-110023, have changed my name and shall hereafter be known as POOJA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYADARSHINI POOJA NAYAK
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUBHA KAPOOR daughter of Late M. R. CHAWLA, residing at M-27, Ground Floor, Srinivaspuri, New Delhi-110065, have changed my name and shall hereafter be known as SUBHA CHAWLA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUBHA KAPOOR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SURESH SINGH son of Sh. ZILE SINGH, residing at 3-N, CPWD Colony, Vasant Vihar, New Delhi-110057, have changed my name and shall hereafter be known as SURESH KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURESH SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRADIPTA PYNE son of Mr. PRONOB RANJAN PYNE, employed as Senior Manager Accounts in Almal Industries Private Limited, residing at 4/2K/36, Ho Chi Min Sarani, Kolkata-700061, have changed my name and shall hereafter be known as PRADEEPTA PYNE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRADIPTA PYNE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ASHISH KUMAR PARASHAR son of Sh. NARENDER KUMAR PARASHAR, residing at B-254, Sector-1, Avantika, Rohini, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as DHANISH PARASHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHISH KUMAR PARASHAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAHIB KUMAR SETHI son of Mr. RAJ KUMAR SETHI, a Businessman, residing at C-36, Soami Nagar, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as SAHAB KUMAR SETHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAHIB KUMAR SETHI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BASANTI DUPAK daughter of Sh. TALOM DUPAK, residing at Talom Dupak, Extra Assistant Commissioner DC Office Yupia, PO Yupia, Distt. Papumpare, Arunachal Pradesh-791110, permanent address : Village Kebang, PO Pangin, PS Boleng, Distt. East Siang, Arunachal Pradesh-791102, have changed my name and shall hereafter be known as VIVIENNE BASANTI DUPAK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BASANTI DUPAK
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHETAN HARIYALE son of Sh. NARMADA PRASAD HARIYALE, employed as Software Engineer in YESpay IT Services (India) Pvt. Ltd., residing at 42, Sector-C, Slice-4, Scheme 78, Indore (MP) 452010, have changed my name and shall hereafter be known as CHETAN BHARGAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHETAN HARIYALE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BABAN CHENDU SONAVALA son of Sh. CHENDU PANDURANG SONAVALA, employed as Technician-G, in the Govt. of India, Deptt. of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai-85, residing at 11, Chidambaram, BARC Colony, Anushakti Nagar, Mumbai-400094, have changed my name and shall hereafter be known as BABAN CHANDU SONAWALE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABAN CHENDU SONAVALA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KUNTI RANI wife of Shri ASHOK KUMAR GAUTAM, residing at 381/5, Gali No. 1, Than Singh Nagar, Anand Parbat, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as USHA GAUTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KUNTI RANI
[Signature (in existing old name)]

PUBLIC NOTICE

It is general information that I, KAPOOR CHAND son of Shri JHAMAN LAL, residing at C-2/161, Nand Nagri, Delhi-110093, declare that my name has been wrongly written as KIRAN KAPOOR in the Educational documents of my minor son VIVEK KUMAR. The actual name of mine is KAPOOR CHAND, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAPOOR CHAND
[Signature]

It is for general information that I, SAGEER ALAM son of Shri ZAKIR ALI, residing at C-13/14, Gali No- 6 Chouhan Bangar, Delhi-110053, declare that my name has been wrongly written as SAGEER AHMED and name of my minor son as ZUHAIB in his educational documents. The actual name of mine is SAGEER ALAM and my minor son's name is ZUHAIB ALAM, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAGEER ALAM
[Signature]

It is for general information that I, RAVINDER KUMAR son of Shri TAKE CHAND, residing at 3/171, Dakshin Puri, New Delhi-110062, declare that name of mine has been wrongly written as RAVI KUMAR in my educational documents of my son VINAY KUMAR. The actual name of mine is RAVINDER KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAVINDER KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, SHABNAM daughter of Shri RIYAZUDDIN ANSARI, residing at Chuchella Kalan, J.P. Nagar, (U.P.), declare that the name of my father has been wrongly written as MOHD. RIYAZUDDIN in my educational documents. The actual name of my father is RIYAZUDDIN ANSARI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHABNAM
[Signature]

I, DINA NATH PANDEY son of Shri BISHAV NATH PANDEY, residing at 506, Pocket-2, Paschim Puri, New Delhi-110063, do hereby declare for general information that the name of my minor son has been wrongly written as ANOOP PANDEY in his educational documents and other documents. The actual name of my minor son is SHRIPATI NATH PANDEY, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DINA NATH PANDEY
[Signature]

It is for general information that I, YOGENDRA MEHTA son of Shri UMESH MEHTA, residing at 222, Bhangar Mohalla, Madanpur Khadar, New Delhi-110076, declare that my name has been wrongly written as RAMESH KUMAR in educational documents of my minor son SURAJ. The actual name of mine is YOGENDRA MEHTA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YOGENDRA MEHTA
[Signature]

सार्वजनिक सूचना

के वी के नीलाचल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर

लिखित रूप से अद्योहस्ताक्षरी के पास भेजें। विस्तृत विवरण एवं स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नोक्त के साथ संपर्क करें :--

पी. के. दास
कार्यकारी निदेशक

के वी के नीलाचल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, तीसरी मंजिल, नवभारत चेम्बर्स, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 में है, विद्युत लाईनों की प्रतिष्ठापन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राप्त सभी अधिकारों के आधार पर भारत सरकार के पास आवेदन करना चाहती है। के वी के नीलाचल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड निम्नांकित ट्रांसमिशन परियोजना के लिए सर्वेक्षण, टॉवर नीवों का निर्माण, टॉवरों की स्थापना, संरचना, कंडक्टरों एवं भूमिगत तारों की स्ट्रिंगिंग तथा अन्य कार्यों तदुपरांत निरीक्षण, चालूकरण, परिचालन, रखरखाव तथा अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी। ट्रांसमिशन परियोजना का नाम : कपूरसिंह में 400 केवी बारीपदा-मैंदासल लाइन से रहानगोल में केवीके नीलाचल 400 केवी जेनेरेटिंग स्टेशन तक 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन एलआईएलओ। परियोजना के अंतर्गत आने वाली 400 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन निम्नलिखित गाँवों, नगरों एवं शहरों से, के ऊपर से, के चारों ओर से एवं बीच से गुजरेगा :--

क्रमांक	गाँवों का नाम	तहसील	जिला
1.	कपूरसिंह	आठगढ़	कटक
2.	खमार नुआगाँव	आठगढ़	कटक
3.	बेलदा	आठगढ़	कटक
4.	पुरुषोत्तमपुर	आठगढ़	कटक
5.	राधाकिशोरपुर	आठगढ़	कटक
6.	राधादामोदरपुरम	आठगढ़	कटक
7.	मस्तछापुर	आठगढ़	कटक
8.	राहानगोल	आठगढ़	कटक

रूट आलाइमेंट की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। एतद्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के अंदर यानी दिनांक 21.03.2012 से पहले प्रस्तावित ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में अपने विचार/अभ्यावेदन

दि नियोगो इन्टरप्राइजेज (इंडिया) प्रा. लि.

नई दिल्ली-110019

स्वैच्छिक परिसमापन धारा अंतर्गत 485 (1) के संकल्प की सूचना
कम्पनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में और
दि नियोगो इन्टरप्राइजेज (इंडिया) प्रा. लि.

3 अगस्त 2010 को पंजीकृत

शुक्रवार तिथि 09 दिसम्बर, 2011 को इरोस होटल लॉबी, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 में आयोजित उपरोक्त अंकित कम्पनी की असाधारण सामान्य बैठक में निम्नलिखित संकल्प पत्र पारित किया गया था :--

कम्पनी की समाप्ति (वाईडिंग)

कम्पनी के अध्यक्ष सभी सदस्यों को सूचित करते हैं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 484(1)(बी) के अनुसरण में कम्पनी के मामलों की समाप्ति (वाईडिंग अप) हेतु प्रस्ताव कम्पनी के सदस्यों द्वारा पारित निम्नलिखित विशेष संकल्प पत्र के विचार में है, जिन्होंने निम्नलिखित संकल्प पारित किया था :

“संकल्पित है कि कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 484(1) (बी) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के अंश धारकों की स्वीकृति में तथा एतद्वारा कम्पनी की समाप्ति हेतु प्रदान है।

आगे संकल्पित है कि श्री प्रणय सरकार द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित समाप्ति (वाईडिंग अप) हेतु कम्पनी के समापक अनुसार नियुक्त किए गए हैं तथा कम्पनी की समाप्ति कार्य (वाईडिंग अप) के प्रयोजन हेतु रुपये 5000.00 पैसे (रुपये पांच हजार मात्र) का एक पारितोषिक पराश्रमिक चुकाया जायेगा। आगे संकल्पित है कि श्री प्रणय सरकार कम्पनी समापक होंगे तथा एतद्वारा कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 457 की उपधारा-2 के उपबंध (i) से (v) तक में प्रदान अनुसार समस्त शक्तियों के अभ्यास हेतु शक्ति समर्थ है।

वी. पी. गुलाटी
एलटी डायरेक्टर

नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड लिमिटेड
इन्दौर

अधिसूचना

नेशनल बोर्ड ऑफ ट्रेड लिमिटेड के उपविधि में निम्न संशोधन के लिए, वायदा बाजार आयोग के उप संचालक से वायदा अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 11(1) सह पठित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक S. O. 1162 दिनांक 4 मई, 1960 के अन्तर्गत अनुमोदन दिनांक 4 जनवरी, 2012 को प्राप्त कर लिया गया है, एवं उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

उपविधि के अनुसूची II में संशोधन

सरसों बीज के बाबत

अनुसूची	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
II.1 वितरण माह: (a) (i)	जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितम्बर, नवम्बर	जनवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर
II.2 टिक साईज (Tick Size)	2.50/- रु. प्रति मेट्रिक टन (MT)	1/- रु. प्रति विंटल
II.3 व्यापार के लिए मूल मात्रा	1 मेट्रिक टन (MT)	10 मेट्रिक टन (MT)
II.5 (a) वायदे के सौदे का आधार	तेल का अंश 42.0% +/- 0.50% नमी 5.0% एफ एफ ए (FFA) 1.5% (अधिकतम)	तेल का अंश 42.0% +/- 0.50% नमी 5.0% एफ एफ ए (FFA) 1.5% (अधिकतम) बाहरी तत्व : 0.25% (आधार)
II.6 (a) गुणवत्ता छूट	<p>तेल का अंश:- 42% - वितरण सममूल्य पर</p> <p>- 42% से कम, क्रेता को अनुपातिक छूट</p> <p>- 42% से अधिक, विक्रेता को अनुपातिक बढ़ोत्तरी</p> <p>नमी:- 5% तक स्वीकार्य,</p> <p>- 5% से अधिक, क्रेताओं को नमी की अधिक मात्रा पर आधारित गणित खली के मूल्य के बराबर छूट देय</p> <p>{खली का मूल्य X (नमी का वास्तविक % - 5%)}</p> <p>एफ एफ ए (FFA): -1.5% तक स्वीकार्य।</p> <p>- 1.5% से अधिक एवं 2% तक, एकल छूट</p> <p>{बीज मूल्य X (वास्तविक एफ एफ ए (FFA) - 1.5%) / 100}</p> <p>- 2.0% से अधिक एवं 2.5% तक, दुगुनी छूट</p> <p>{बीज मूल्य X (वास्तविक एफ एफ ए (FFA) - 2%) X 2}</p> <p>{ ----- + एकल छूट का मूल्य } 100</p> <p>- 2.5% से अधिक एवं 3.0% तक, तिगुनी छूट</p> <p>{बीज मूल्य X (वास्तविक एफ एफ ए (FFA) - 2.5%) X 3}</p> <p>{ ----- + एकल एवं दुगुनी छूट का मूल्य } 100</p> <p>- 3% से अधिक, क्रेता के विकल्प पर</p>	<p>तेल का अंश:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1:1 या उसके किसी भाग की कमी पर 42% से 37% स्वीकार्य 1:1 या उसके किसी भाग की बढ़ोत्तरी पर 42% से अधिक स्वीकार्य 37% से कम अस्वीकृत <p>नमी:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1:1 या उसके किसी भाग की कमी पर 5% से 6.5% स्वीकार्य 6.5% से अधिक अस्वीकृत <p>बाहरी तत्व:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1:1 या उसके किसी भाग की कमी पर 0.25% से 2% स्वीकार्य 2% से अधिक अस्वीकृत <p>एफ एफ ए (FFA)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.5% अधिकतम
II.8 भाव	रु. प्रति 20 किलो ग्राम	रु. प्रति विंटल
II.9 (a) वितरण केन्द्र	जयपुर (शहरी सीमा के 50 कि.मी. के दायरे में)	कोटा नगर निगम सीमा में
अतिरिक्त वितरण केन्द्र	इन्दौर, अलवर, श्रीगंगानगर, रेवाड़ी एवं मुरैना	जयपुर। बढ़ोत्तरी / कमी निपटान के समय कार्यकारिणी समिति तय करेगी।
II.10 (a) वितरण शर्तें एवं स्वीकार्य फेरबदल	25 मेट्रिक टन (MT) (+/- 2% स्वीकार्य मात्रा)	10 मेट्रिक टन (MT) (+/- 2% स्वीकार्य मात्रा)
II.13 आधार (सरसों बीज के बाबत)	कुछ नहीं	विक्रय कर/वेट (VAT) के अलावा कोटा भंडार गृह का

स्थान: इन्दौर

दिनांक: 16/01/2012

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड

एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लि. के उप-नियमों को इसके निदेशक मंडल की 30 अप्रैल, 2010 और 21 अगस्त, 2010 को आयोजित की गई बैठक में निम्नानुसार संशोधन किया गया। इन संशोधनों को सेबी द्वारा इसके पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/एमसीएक्स-एसएक्स/38398, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 द्वारा पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात अनुमोदित किया गया :

अध्याय -XIV - विवाचन

I एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय-XIV के उप-नियम 3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“विवाचन के दावे, मतभेद अथवा विवाद के संदर्भ के लिए सीमाबद्धता अवधि

(3) उपर्युक्त उप-नियम 1(क),(ख)(ग) और(घ) में उल्लिखित सभी दावे, मतभेद अथवा विवाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत विनिर्धारित अवधि के अंदर विवाचन को प्रस्तुत किए जाएंगे।”

II एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय-XIV के उप-नियम-13 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“(13) (क) विवाचक की नियुक्ति के लिए समय

जहां विवाचन आवेदन दिया जाता है, वहां विवाचक अथवा विवाचकों की नियुक्ति का पैनेल आवेदन के प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर पूरा किया जाएगा।

(ख) स्थगन

स्थगन, यदि कोई हो, विवाचक द्वारा केवल आपवादिक मामलों में उचित कारणों, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाएगा, से प्रदान किया जाएगा।

(ग) विवाचन को पूरा करने के लिए समय

विवाचक अपनी नियुक्ति की तारीख से पंचाट जारी करके चार महीने के अंदर विवाचन संदर्भ को समाप्त करेगा (करेंगे)।

(घ) समय बढ़ाने के लिए अनुरोध

पंचाट देने के लिए समय को किसी एक पक्ष अथवा विवाचक (विवाचकों) द्वारा आवेदन करने पर पर्याप्त कारण से, जो लिखित में दर्ज किया जाएगा, प्रबंध निदेशक अथवा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा, प्रबंध निदेशक अथवा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा दो महीने से अनधिक अवधि के लिए मामला-दर-मामला आधार पर बढ़ाया जा सकता है।”

III. एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय-XIV के उप-नियम 14 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“पंचाट का कार्यान्वयन

(14) उप-नियमों में कुछ भी होने के बावजूद, ऐसे मामलों जिनमें पंचाट अथवा अपीलीय पंचाट कारोबारी सदस्य और/अथवा इसके उप-ब्रोकर के विरुद्ध और संघटक के पक्ष में पारित किया जाता है तो स्टाक एक्सचेंज, स्टाक एक्सचेंज में पड़ी जमा राशियों अथवा अन्य धनराशियों से डेबिट करेगा, पंचाट प्राप्तकर्ता को देय पंचाट की राशि और ब्याज, यदि कोई हो, पंचाट, यदि कोई हो, के अंतर्गत कारोबारी सदस्य और/अथवा उसके उप-ब्रोकरों को प्रतिकूल दावे तय करने के पश्चात डेबिट की तारीख तक अनुमति है और उक्त राशि को एक अलग खाते में रखेगा जिसे उप-नियम 15 और 15 क में यथा उल्लिखित ढंग से निपटाया जाएगा।

बशर्ते कि, तथापि, जहां पंचाट प्रतिभूतियों की डिलीवरी के लिए हैं, स्टाक एक्सचेंज पंचाट की तारीख को स्टाक एक्सचेंज में ऐसी प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्य अथवा ऐसी अन्य कोई तारीख जिसे संबद्ध प्राधिकारी उपयुक्त निर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों और पंचाट राशि के मूल्य प्राप्त करने के कारण दिए गए हों, पर विचार कर सकता है।”

IV. एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय-XIV के उप-नियम 15 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“ग्राहकों को डेबिट की गई राशियों का भुगतान

15(क) पंचाट :-जिन मामलों में कारोबारी सदस्य/उप-ब्रोकर उप-नियम 21 के तहत अनुमत्य समय में अपील न दाखिल करने का चुनाव करता है, उनमें उप-नियम 14 के तहत डेबिट की गई राशि पंचाट प्राप्तकर्ता को उस पर अर्जित ब्याज के साथ अदा की जाएगी।

(ख) अपीलीय पंचाट :- जिन मामलों में कारोबारी सदस्य/उप-ब्रोकर द्वारा उप-नियम 21 के अंतर्गत अपील दाखिल की जाती है और अपीलीय पंचाट अधिकरण कारोबारी सदस्य/उप-ब्रोकर के विरुद्ध अपीलीय पंचाट करता है, उनमें एक्सचेंज उप-नियम 14 के अंतर्गत डेबिट की राशि को पंचाट प्राप्तकर्ता को अदा करेगा :-

- (i) जिन मामलों में विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत कारोबारी सदस्य/उप-ब्रोकर द्वारा सीमाबद्धता अवधि के अंदर ऐसे पंचाट को चुनौती देने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता उनमें ऐसी सीमाबंधन अवधि के समाप्त होने पर ;
- (ii) जिन मामलों में कारोबारी सदस्य/उप-ब्रोकर द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, और उसके द्वारा अपीलीय पंचाट की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के अंदर न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाता, उन मामलों में ऐसे तीन महीने पूरा होने पर ;
- (iii) अन्य किसी मामले में, न्यायालय द्वारा आवेदन को खारिज करने पर ।”

V. यथा प्रतिस्थापित उप-नियम 15 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः:-

“कतिपय मामलों में डेबिट को उलटना

(15क) जिन मामलों में कारोबारी सदस्य अथवा उप-ब्रोकर के विरुद्ध पंचाट अथवा अपीलीय पंचाट को निरस्त किया गया है अथवा पंचाट राशि की कटौती द्वारा संशोधित किया गया है और ऐसे निरस्त करने अथवा संशोधन ने अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है, उनमें स्टाक एक्सचेंज पूरा अथवा भाग में, जैसा भी मामला हो, डेबिट को उलट सकता है और पंचाट प्राप्तकर्ता को कम की गई राशि को अदा कर सकता है ।”

VI. एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय- XIV के उप-नियम 19 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“क्षेत्राधिकार

(19) इन उप-नियमों और विनियमनों के तहत विवाचन के संदर्भ के लिए सभी पक्षों और उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को क्षेत्रीय विवाचन केंद्र, जहां अपीलीय विवाचन कार्यवाही की गई थी, के निकटतम सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार को निवेदन किया गया माना जाएगा ।”

VII. एक्सचेंज के उप-नियमों के अध्याय-XIV के उप-नियम 20 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः -

“अपीलीय विवाचन

- (21) इन उप-नियमों के अंतर्गत दिए गए पंचाट द्वारा खिन्न किसी भी पक्ष को निम्नलिखित के अनुसार अपील करने का अधिकार होगा:-
- (क) पंचाट द्वारा खिन्न पक्ष ऐसे पंचाट के विरुद्ध पंचाट की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर स्टाक एक्सचेंज द्वारा गठित विवाचकों के अपीलीय पैनल को अपील कर सकता है ।
- (ख) उसके पश्चात संबद्ध प्राधिकारी तीन विवाचकों वाले अपीलीय पैनल, जो उन विवाचकों से भिन्न होंगे जिन्होंने अपील में पंचाट पारित किया है, गठित कर सकता है ।
- (ग) विवाचकों के ऐसे अपीलीय पैनल का गठन संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर पूरा किया जाएगा ।
- (घ) अपील को अपीलीय पंचाट जारी करने के माध्यम से मध्यस्थता के अपीलीय पैनल की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने के अंदर निपटाया जाएगा ।
- (ङ.) अपीलीय पंचाट करने के लिए समय को दोनों पक्षों में से किसी एक अथवा विवाचकों के अपीलीय पैनल द्वारा आवेदन, पर्याप्त कारण से जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा, पर प्रबंध निदेशक अथवा संबद्ध प्राधिकारी द्वारा दो महीने की अनधिक कुल अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।
- (च) अपीलीय पंचाट द्वारा खिन्न कोई विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अनुसार अपीलीय पंचाट को चुनौती देने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सकता है ।
- (छ) इस उप-नियम में जहां कहीं विशिष्ट उपबंध किया जाता है को छोड़कर, विनियमन के उप-नियमों (5) से (20) तक के उपबंध, जहां तक होगा, अपीलीय विवाचकों, अपीलीय विवाचन कार्यवाहियों और अपीलीय पंचाट के लिए लागू होंगे ।”

अध्याय XV : चूक

VIII. अध्याय-XV के उप-नियम 2 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“कतिपय मामलों में निष्कासन

- (2) पूर्वोक्त के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना यदि किसी कारोबारी सदस्य को किसी अन्य मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज जिसमें वह कारोबारी सदस्य हैं अथवा यदि सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है तो उक्त कारोबारी सदस्य को स्टाक एक्सचेंज से, ऐसे कारोबारी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, निष्कासित किया जा सकता है।
इस उप-नियम में विहित कुछ भी होने के बावजूद, कारोबारी सदस्य की कारोबारी सुविधा को, किसी अन्य स्टाक एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् तत्काल हटा लिया जाएगा।”

IX. उप-नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़े जाएंगे, नामतः -

“सभी खंडों में चूक की घोषणा

- (2क) जहां कारोबारी सदस्य को स्टाक एक्सचेंज के किसी कारोबारी खंड में चूककर्ता घोषित किया जाता है उसे स्टाक एक्सचेंज के अन्य सभी कारोबारी खंडों, जिनमें वह सदस्यता धारण करता हो, में तत्काल चूककर्ता घोषित किया जाएगा।

किसी अन्य स्टाक एक्सचेंज द्वारा चूक की घोषणा

- (2ख) कोई कारोबारी सदस्य स्टाक एक्सचेंज के सभी कारोबारी खंडों में तत्काल चूककर्ता घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह किसी अन्य मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के किसी कारोबारी खंड में उस स्टाक एक्सचेंज से सूचना प्राप्त होने पर, तत्काल चूककर्ता घोषित किया गया था।

चूक की घोषणा के मामले में सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई

- (2ग) किसी कारोबारी सदस्य के चूककर्ता होने की घोषणा पर संबद्ध प्राधिकारी ऐसे चूककर्ता सदस्य के सहयोगियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

‘सहयोगी’ की परिभाषा

- (2घ) उप-नियम 2 ग के प्रयोजनार्थ “सहयोगी” शब्द में निम्न व्यक्ति शामिल होगा :-
(क) जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयोग से सदस्य पर नियंत्रण का प्रयोग करते हों, चाहे वे वैयक्तिक, निकाय कारपोरेट अथवा फर्म अथवा ऐसे सदस्य की पूंजी में 15 प्रतिशत से न्यूनाधिक पर्याप्त शेयर धारित करते हों; अथवा
(ख) जिनके संबंध में सदस्य, वैयक्तिक अथवा निकाय कारपोरेट अथवा फर्म प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों के संयोग से नियंत्रण का प्रयोग करते हों; अथवा
(ग) जिसका निदेशक अथवा साझीदार भी सदस्य, निकाय कारपोरेट अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, का निदेशक अथवा साझीदार भी है।

स्पष्टीकरण : “नियंत्रण” अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जैसा सेबी (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 1997 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) की धारा (ग) में परिभाषित है।”

जोसफ मेस्सी

प्रबंध निदेशक और मु.का.अ.

टिप्पणी : हिंदी पाठ में अंतर की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लि. के नियमों को इसके निदेशक मंडल की 30 जून, 2011 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार संशोधन किया गया। इन संशोधनों को सेबी द्वारा इसके पत्र सं. एमआरडी/डीएसए/एमसीएक्स-एसएक्स/38424/2011, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 और एमआरडी/डीएसए/एमसीएक्स-एसएक्स/100/2012, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुमोदित किया गया :

(क) अध्याय-III – कारोबारी सदस्यता

(I) नियम 18(ग) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः -

“18(ग क) कोई कारोबारी सदस्य अपनी हैसियत या गठन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जब तक कि उसने एक्सचेंज में ऐस ढंग से और ऐसा शुल्क, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित किया जाता है, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन न दिया हो और ऐसा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण 1 : खण्ड (ग क) के प्रयोजन के लिए “हैसियत या गठन में परिवर्तन” अभिव्यक्ति में निम्न शामिल होगा :-

(I) किसी निकाय कारपोरेट के मामले में :

(क) सम्मेलन, अद्वितीय, समेकन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के कार्यक्षेत्र में आने वाली कारपोरेट पुनर्संरचना की कोई अन्य किस्म या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य कानून का तदनुसूची प्रावधान ;

(ख) प्रतिभूति सविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 8 के उप-नियम (4 क) के खण्ड (v) के अनुपालन में नियुक्त इसके प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या निदेशक में परिवर्तन; और

(ग) निकाय कारपोरेट पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;

(II) निम्नलिखित कानूनी फार्मों के बीच कोई परिवर्तन-वैयक्तिक, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाज्य परिवार, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, असीमित कंपनी या सांविधिक निगम और अन्य इसी प्रकार के परिवर्तन;

(III) साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारों में कोई परिवर्तन जिससे फर्म का विघटन न होता हो;

(IV) कारोबारी सदस्यों के संबंध में कोई अन्य परिवर्तन जिससे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा हैसियत अथवा गठन में परिवर्तन के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2: स्पष्टीकरण-I के पैरा (I) (ग) के तहत आने वाले मामले में या किसी अन्य मामले में जिनमें हैसियत या गठन में परिवर्तन के लिए सेबी या अन्य प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, उनमें कारोबारी सदस्य ऐसा परिवर्तन ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 3: कोई कारोबारी सदस्य स्पष्टीकरण 2 का अनुपालन करके, ऐसी प्रक्रिया, जैसाकि सेबी, अन्य प्राधिकारी या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है, पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।”

(ख) अध्याय IV : क्लियरिंग सदस्यता

(II) नियम 6(10)(ग) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः -

“6(10)(ग क) कोई क्लियरिंग सदस्य अपनी हैसियत या गठन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जब तक कि उसने एक्सचेंज में ऐसे ढंग से और ऐसे शुल्क के साथ, जैसाकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित किया जाता है, पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन न दिया हो और ऐसा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण 1 : खण्ड (ग क), “हैसियत या गठन में परिवर्तन” अभिव्यक्ति में निम्न शामिल होगा :-

- (I) किसी निकाय कारपोरेट के मामले में :
 - (क) सम्मेलन, अविलय, समेकन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के कार्यक्षेत्र में आने वाली कारपोरेट पुनर्संरचना की कोई अन्य किस्म या वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य कानून का तदनुरूपी प्रावधान ;
 - (ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 8 के उप-नियम (4 क) के खण्ड (v) के अनुपालन में नियुक्त इसके प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या निदेशक में परिवर्तन; और
 - (ग) निकाय कारपोरेट पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन ;
- (II) निम्नलिखित कानूनी फार्मों के बीच कोई परिवर्तन-वैयक्तिक, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाज्य परिवार, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, असीमित कंपनी या सांविधिक निगम और अन्य इसी प्रकार के परिवर्तन;
- (III) साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारों में कोई परिवर्तन जिससे फर्म का विघटन न होता हो;
- (IV) क्लियरिंग सदस्यों के संबंध में कोई अन्य परिवर्तन जिससे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा हैसियत अथवा गठन में परिवर्तन के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2: स्पष्टीकरण-1 के पैरा (I) (ग) के तहत आने वाले मामले में या किसी अन्य मामले में जिनमें हैसियत या गठन में परिवर्तन के लिए सेबी या अन्य प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, उनमें क्लियरिंग सदस्य ऐसा परिवर्तन ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 3: क्लियरिंग सदस्य ऐसी प्रक्रिया, जैसाकि सेबी, अन्य प्राधिकारी या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है, का अनुपालन करके, स्पष्टीकरण 2 के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा।”

(ग) अध्याय V : अनुशासनिक कार्यवाही, अर्थ दण्ड, निलंबन और निष्कासन

(III) नियम 17 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

पुनर्विचार/समीक्षा

“(17) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के प्रावधानों के अध्यक्षीन संबद्ध प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा संबंधित कारोबारी सदस्य द्वारा अपील पर सदस्य को संबद्ध प्राधिकारी के निर्णय के सम्प्रेषण की तारीख से

90 दिन के अंदर सभी अथवा सदस्यता अधिकारों में से किसी को वापस लेने अथवा किसी कारोबारी सदस्य पर जुर्माना, निंदा अथवा चेतावनी के अपने निर्णय का पुनर्विचार करके इसका विखंडन, प्रतिसंहरण अथवा संशोधन कर सकता है। इसी ढंग से संबद्ध प्राधिकारी उक्त अवधि के भीतर किसी कारोबारी सदस्य को निष्कासित अथवा निलंबित करने के अपने निर्णय का विखंडन, प्रतिसंहरण अथवा संशोधन कर सकता है।”

जोसफ मेस्सी

प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.

टिप्पणियां :

- 1) एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड के मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग- IV में दिनांक 27 सितम्बर, 2008 - 3 अक्टूबर, 2008, पृष्ठ 255 से अधिसूचित किए गए थे और महाराष्ट्र राज्य के राजपत्र में क्रम सं. 462, दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 में अधिसूचित किए गए थे।
- 2) एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड के नियमों में संशोधन भारत के राजपत्र के भाग-IV में दिनांक 1 अगस्त, 2009-7 अगस्त, 2009, को पृष्ठ 252 पर अधिसूचित किया गया और महाराष्ट्र राज्य के राजपत्र में क्रम सं. 123, दिनांक 30 जुलाई, 2009 - 5 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया।
- 3) एमसीएक्स स्टाक एक्सचेंज के नियमों और आगे संशोधन को भारत के राजपत्र में और महाराष्ट्र राज्य के राजपत्र में अधिसूचनाओं के लिए भेजा गया है और इनकी अधिसूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

टिप्पणी : हिंदी पाठ में अंतर की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

फार्म संख्या 151 [नियम 315 देखें] कम्पनी अधिनियम, 1956

सदस्य '(या लेनदारों)' का स्वैच्छिक समापन

अनुभाग 516 के अनुसार परिसमापक की नियुक्ति की सूचना

कम्पनी का नाम	: नियो वोग इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
व्यापार की प्रकृति	: ई-कॉमर्स
पंजीकृत कार्यालय का पता	: बी-257, सी. आर. पार्क, नई दिल्ली-110019
नाम और समापक का पता (ते)	: प्रणय सरकार, सी-71, लाजपत नगर, नई दिल्ली
नियुक्ति की तारीख	: 09.12.2011
किसके द्वारा नियुक्त	: कंपनी के सदस्य

वास्ते नियो वोग इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड

मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 1956

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी

का

संगम सापन

I. कंपनी का नाम मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड है।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित होगा।

III. उद्देश्य जिसके लिए कंपनी स्थापित की गई है :-

क. कंपनी के निगमन पर इसके द्वारा किए जाने वाले कंपनी के मुख्य उद्देश्य :

1. मुंबई और भारत में अन्यत्र और विदेश में सुविधाओं को स्थापित, प्रचालित, विनियमित, रखरखाव और प्रबंध करने के लिए एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों, उनके अधिकृत एजेंटों और संघटकों तथा अन्य भागीदारों को वस्तुओं, प्रतिभूतियों और अन्य लिखतों और उनके डेरीवेटिव और उनके नकद, हाजिर, , वायदा और फ्यूचर बाजारों सहित मुद्राओं में संविदाओं की विभिन्न किस्मों में स्टॉक एक्सचेंज में किए गए लेन-देन, समाशोधन और निपटान सौदों में समर्थ बनाना और भारत में और भारत से बाहर एक्सचेंज के विभिन्न ट्रेडिंग सदस्यों और उनके अधिकृत एजेंटों और संघटकों के बाजार के लिए पट्टा प्रदान करना और एक्सचेंज के संगम अनुच्छेदों, उप-विधियों, नियमों और विनियमनों के अनुसार उनसे संबंधित सभी सहायता सेवाएं प्रदान करना, शुरू करना, सुविधा देना और जिम्मा लेना।

ख. मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक उद्देश्य निम्न हैं :

2. समय-समय पर ऐसे बनाए जाने वाले एक्सचेंज के अनुच्छेदों, उप-विधियों, नियमों और विनियमनों के अनुसार वस्तुओं, प्रतिभूतियों और अन्य लिखतों और उनके डेरीवेटिवों की संविदाओं में लेन-देन के व्यवसाय में आयोजन, प्रबंध और सुविधा देने के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों अथवा अन्य किसी साधन के लिए एक एक्सचेंज अथवा मान्यता प्राप्त कमाडिटी एक्सचेंज के रूप में पहचान के लिए वायदा बाजार आयोग और/या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को आवेदन करना और प्राप्त करना।

3. अनुच्छेदों, उप-विधियों, नियमों और विनियमनों की परिभाषा को तैयार, संशोधित और लागू करने और निबंधन और शर्तों को विनियमित करने जिनके अधीन समय-समय पर इनमें यथा रेखांकित एक्सचेंज पर व्यवसाय किया जाएगा।

4. विवादों के समाधान के लिए उचित मध्यस्थता समझौते, सर्वेक्षण, प्रयोगशाला जांच और अन्य विधियों के माध्यम से एक तंत्र की व्यवस्था करना और एक्सचेंज का व्यवसाय करने के लिए ट्रेडिंग विधियों, प्रथाओं, व्यवहार, रीतियों अथवा शिष्टाचारों के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने और एक्सचेंज में ट्रेडिंग का निर्णय लेने अथवा ट्रेडिंग की अनुमति के लिए विभिन्न वस्तुओं, प्रतिभूतियों और साधनों और उनके डेरीवेटिवों, जिनका एक्सचेंज में कारोबार के लिए अनुमति अथवा कारोबार किए जाने का निर्णय लिया जाता है, में तुरंत, वायदा और फ्यूचर बाजारों में कारोबार के लिए संविदाओं के उपयुक्त रूप भी प्रदान करना।

5. कंपनी के हित में आनुषंगिक अथवा प्रासंगिक अथवा समीचीन कुछ कारोबार को करने के लिए अथवा कंपनी के प्रचालनों को करने के लिए अन्य कंपनियों अथवा कंपनियों अथवा सहायक कंपनियों बनाने के लिए और कंपनी की कुछ गतिविधियों को ऐसी अथवा अन्य कंपनियों को आउटसोर्स भी करना।

6. एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों और विनियमनों के अनुसार एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के पंजीकृत गैर सदस्यों से प्रतिभूति जमा, प्रवेश शुल्क, लेन-देन और समाशोधन शुल्क, निधि अंशदान, मार्जिन, अर्थदंड, टोल और लेवी तथा कोई अन्य शुल्क और/अथवा राशियों की उगाही, प्रभार, वसूली और प्राप्त करना।

7. एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा उनके संघटकों और अन्यों से ली जाने वाले कमीशन, दलाली और अन्य प्रभारों के पैमाने को विनियमित और तय करना।

8. मध्यस्थता, समझौते, विवाचन सहित विभिन्न उपायों द्वारा विवादों के समाधान में सुविधा देने, और ऐसी शर्तों और ऐसे मामलों में, जो समीचीन प्रतीत हों, मध्यस्थता, निर्णायकों और सर्वेक्षकों को नामित करना, और क्षेत्रीय अथवा स्थानीय विवाचन या सर्वेक्षण पैनल और अपील समिति गठित करना और एक्सचेंज के सदस्यों और व्यक्तियों, जो एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य नहीं हैं, के बीच और/अथवा परस्पर एक्सचेंज के सदस्यों के बीच विवादों के विवाचन सहित और एक्सचेंज पर किए गए लेन-देनों से संबंधित अथवा से उठने वाले अथवा के संबंध में अथवा से संबंधित लेन-देनों के संबंध में विवादों और दावों के नियमों और विधियों के लिए प्रावधान करना; और ऐसे मध्यस्थता, सर्वेक्षकों, क्षेत्रीय अथवा

विवाचन पैनल और अपील समिति/ सदस्य, यदि कोई हों, को पारिश्रमिक देना और ऐसी विवाचन और सर्वेक्षण कार्यवाही, मध्यस्थों की फीस, ऐसे विवाचन की लागत के संबंध में नियम, उप-विधियाँ और विनियमन बनाने, और संबंधित विषयों को परिभाषित और विनियमित करने और उसकी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और सभी पंचाट को लागू करना ।

9. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में सांख्यिकीय अथवा अन्य सूचना प्राप्त करना, एकत्रित, संरक्षित, प्रसारित करना, कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने अथवा ऐसी किसी अन्य कार्य के संबंध में पुस्तकालय का रखरखाव और मुद्रण, प्रकाशन, जिम्मा लेना, प्रबंध और किसी समाचार-पत्र, जर्नल, पत्रिका, पत्रक, सरकारी ईअर बुक को जारी रखना ।

10. व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त अथवा कंपनी प्रशासन का कार्य कर रहे व्यक्तियों अथवा लिए जाने वाले व्यक्तियों/और विशेष रूप से वस्तुओं, प्रतिभूतियों अथवा अन्य साधनों और डेरीवेटिवों अथवा उसके संबंध में संविदाओं का कार्य करने के लिए कंपनी के व्यवसाय में व्यक्तियों के लिए व्याख्यान देना, कक्षाएं लगाकर, पाठ्यक्रम, सेमिनार और इसी प्रकार के आयोजन करके और ऐसे व्यक्ति(यों) की परीक्षा अथवा अन्यथा द्वारा सक्षमता की जांच करना, और प्रमाणपत्र और डिप्लोमा देना और छात्रवृत्तियाँ, अनुदान और अन्य लाभों को शुरू करना और स्थापित करना और कोई तकनीकी अथवा अन्य शैक्षिक संस्था स्थापित अथवा बनाने और इसे चलाना, प्रबंध और प्रशासित करना ।

11. किसी अन्य संघ अथवा कंपनी का सदस्य बनने के लिए अंशदान देना अथवा इससे सहयोग करना, चाहे यह भारत अथवा विदेश में निगमित हो अथवा न हो, जिसका उद्देश्य कंपनी द्वारा प्रस्तुत हितों को बढ़ावा देना है ताकि सामान्य वाणिज्यिक और व्यापार हितों को बढ़ाया जा सके और ऐसे संघ अथवा कंपनी से सूचना प्राप्त और सम्प्रेषित की जाए जो कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा दे ।

12. एक्सचेंज के सदस्यों और कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, भारत और विदेश में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु एक्सचेंज या किसी अन्य एक्सचेंज में सदस्यता लेना ।

13. भारत अथवा विदेश में एक्सचेंजों की स्थापना करने और संगठित करने के लिए परामर्शदाताओं अथवा सलाहकारों के रूप में कार्य करने अथवा/और प्रबंध में भाग लेने, अथवा अनुसंधान, परीक्षण अथवा प्रशिक्षण प्रभाग स्थापित करने और कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए चाहे अंशदान द्वारा अथवा सहयोग के सिद्धांत पर भारत में अथवा विदेश में किसी अन्य एक्सचेंज के साथ सहयोग करना ।

14. कोई व्यवसाय जिसे कंपनी जारी रखने अथवा संचालित करने के लिए अधिकृत है अथवा जिससे कंपनी को कोई लाभ चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है अथवा होगा को जारी रखने अथवा संचालित करने में लगे अथवा दिलचस्पी रखने वाले अथवा कार्य करने वाले हैं अथवा दिलचस्पी वाले किसी व्यक्ति अथवा हस्ती से साझेदारी, सहयोग अथवा हित के स्वरूप में साझेदारी अथवा व्यवस्था करना ।

15. कंपनी के हितों के संरक्षण अथवा कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की ओर से धारण के लिए ट्रस्टी (ट्रस्टियों) को नियुक्त करना ।

16. इस कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन अथवा विलय, अथवा इस कंपनी के साथ किसी कंपनी के साथ समामेलन अथवा विलय की अनुमति देना ।

17. किसी उपक्रम अथवा किसी सम्पत्ति, चाहे चल अथवा अचल हो, इसके उद्देश्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने के लिए चाहे देनदारी के साथ हो अथवा बिना देनदारी के अधिग्रहण के प्रयोजन से सभी किस्म की कंपनियाँ बनाना, गठित करना, संवर्धन, प्रबंध, आर्थिक सहायता देना, संगठित करना अथवा बनाना, गठन, संवर्धन, आर्थिक सहायता देना, संगठित करने में सहायता देना और ऐसे किसी उपक्रम को अथवा में शेयर, ऋण पत्र और अन्य प्रतिभूतियों को लेना अथवा अन्यथा धारण और निपटान करना और ऐसी किसी कंपनी को आर्थिक सहायता देना अथवा अन्यथा सहायता अथवा प्रबंध अथवा स्वामी बनना ।

18. भारत अथवा विदेश में या तो प्रधान, एजेंट, ट्रस्टी, ठेकेदार अथवा अन्यथा अकेले अथवा अन्यो के साथ संयुक्त रूप से और कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या तो एजेंटों, ठेकेदारों, ट्रस्टियों अथवा अन्यथा के माध्यम से व्यवसाय करना ।

19. अपने व्यवसाय के लिए भारत में अथवा बाहर कार्यालय, शाखाएं और एजेंट रखना या स्थापित करना, मालिक बनना ।

20. कंपनी के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा सुविधा के लिए किसी भूमि, भवन, निर्माण अथवा कार्य के लिए निर्माण, विकास, अनुरक्षण और बदलना ।

21. अपनी कारपोरेट शक्तियाँ, अधिकार और विशेषाधिकारों में से सभी अथवा किसी एक का प्रयोग करने और भारत में और किसी बाहरी देश में किसी अथवा सभी राज्यों, क्षेत्रों, स्वामित्वों, कालोनियों और उसकी आश्रित कालोनियों में अपना व्यवसाय चलाना ।

22. किसी सामान्य अथवा लाभदायक उद्देश्य के लिए अभिदान, अंशदान, दान अथवा गारंटी धन देना और किसी संघ, निकाय अथवा आंदोलन के लिए सहायता देना, ऐसा करना कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन के अध्वधीन होगा ।

23. वस्तु उत्पादों में बाजारों सहित वस्तु, पूंजी और वित्तीय बाजारों में आमतौर से विशेष रूप से कंपनी के उद्देश्यों और प्रयोजनों को और आगे बढ़ाने के लिए किसी निधि, ट्रस्ट और परिकल्पित सुविधा को स्थापित और समर्थन अथवा स्थापना और समर्थन में सहायता करना ।

24. वर्तमान में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन और संगम अनुच्छेदों और नियमों, उप-विधियों और एक्सचेंज के विनियमनों के लिए अथवा कंपनी की अधिशेष राशियों को आवंटित करने के लिए कंपनी की निधियाँ अथवा अन्य चल परिसम्पत्तियों में से भुगतान और संवितरण करना और आहरण, स्वीकार, पृष्ठांकन, बट्टा, साधनों, वारंट, ऋणपत्रों अथवा अन्य परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय दस्तावेजों को निष्पन्न अथवा हस्तांतरित करना ।
25. ऋणपत्र, स्टॉक, और/अथवा अन्य प्रतिभूतियों को जारी करके, प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति के बिना, जैसाकि समय-समय पर निर्धारित किया जाता है और ऐसे ढंग और ऐसी शर्तों पर कंपनी के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अनुदान अथवा अग्रिम (चाहे ब्याजमुक्त हो अथवा न हो) प्राप्त करने के लिए इक्विटी ऋण अथवा कोई धनराशि जुटाने के लिए किसी रूप में उधार ऋण जुटाना, ऋण गस्तता का सृजन करना । किसी व्यक्ति के भुगतान का दावा, उधार ली गई अथवा जुटाई गई राशियों के संबंध में चाहे वह मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्यथा हो, वह कंपनी की राशियों, परिसम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों से ऐसे दावे का हकदार होगा, कंपनी उधार अथवा जुटायी गई राशियों के संबंध में सभी दावे और मांगों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी, और न कि निदेशकों के बोर्ड के सदस्य अथवा कंपनी के शेयरधारक अथवा उनके उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत निधियों, परिसम्पत्ति और अन्य आस्तियों से की जाएगी, जिन्हें किसी दावे अथवा मांग के लिए किसी व्यक्तिगत देनदारी अथवा स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा ।
26. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कंपनी अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कंपनी की धनराशियाँ जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है अथवा ऐसी प्रतिभूति रखकर और ब्याज सहित अथवा रहित और ऐसे अन्य निवेशों से निवेश, उधार और अग्रिम देना ।
27. कंपनी के व्यवसाय में सुधार करने की दृष्टि से अकेले अथवा अन्यो के साथ संयुक्त रूप से प्रयोग करने और किसी देश, राज्य अथवा स्थान में कंपनी के निगमन, पंजीकरण अथवा अन्य पहचान के प्रयोजन के लिए और कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजनार्थ एजेंसियाँ स्थापित और विनियमित करना ।
28. किसी व्यवसाय अथवा संचालित किए जाने योग्य लेन-देन में ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा इन्टिटी, चाहे भारतीय अथवा विदेशी हो, से कोई ऐसी व्यवस्था अथवा समझौता करना जिससे इस कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके ।
29. अन्य कंपनियों अथवा इंटिटियों की आस्तियों, व्यवसायों अथवा जिम्मेदारियों का अधिग्रहण, खरीद करना जिन्हें सुविधानजक ढंग से अथवा लाभप्रद ढंग से कंपनी के व्यवसाय के साथ मिलाया जा सके ।
30. कंपनी के किन्हीं शेयरों, ऋण पत्रों, ऋण-पत्र-स्टाक अथवा अन्य प्रतिभूतियों के अभिदान की गारंटी देने अथवा रखने में मदद देने के लिए अथवा किसी अन्य कारण के लिए जिसे कंपनी उचित समझती है, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा हस्ती द्वारा दी गई सेवाएं अथवा दी जाने वाली सेवाओं के लिए चाहे कंपनी की पूंजी, लाभ अथवा अन्यथा (नकद अथवा अन्य आस्तियों द्वारा अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शेयरों के आवंटन द्वारा अथवा इसके शेयरों, ऋण-पत्रों, ऋण-स्टाक अथवा प्रतिभूतियों अथवा अन्य कोई कंपनी अथवा किसी अन्य ढंग से) पारिश्रमिक देने के लिए ।
31. एक्सचेंज में निपटानों को सुनिश्चित करने अथवा गारंटी देने के लिए अग्रिमों, मार्जिन, क्रेडिट का भुगतान, एक्सचेंज में निपटान और अन्य वाणिज्यिक देनदारियाँ अथवा ऐसे विवरण की वचनबद्धताओं के साथ-साथ संविदाओं और अन्य ट्रेडिंग और ऐसे विवरण के वाणिज्यिक लेन-देनों को पूरा करना, और इसके विरुद्ध किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना जैसाकि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है ।
32. किसी ऋणपत्र, ऋण पत्र-स्टाक, बंधपत्र, बंधक प्रभार, प्रतिभूति, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों अथवा निगम अथवा किसी प्राधिकारी के संविदा अथवा दायित्व के संबंध में अथवा उसके तहत देय अथवा प्राप्त राशि के भुगतान की गारंटी देना ।
33. किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आदेश-पत्र, खोज, लाइसेंस रियायत और इसी प्रकार किसी गुप्त अथवा अन्य सूचना के प्रयोग के लिए अनन्य अथवा गैर-अनन्य अथवा सीमित अधिकार प्रदान करने के लिए खरीद अथवा अन्यथा के लिए आवेदन करने जिसे कंपनी के किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना सक्षम प्रतीत होता है, और उपरोक्त के संबंध में प्रयोग, कवायद, विकसित अथवा अनुदान लाइसेंस प्रदान करना ।
34. किसी बैंक के पास चालू खाते और/अथवा अन्य खाते खोलना और ऐसे खातों से धन जमा अथवा निकास करना ।
35. कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तकनीकी, अनुसंधान और प्रशासन कार्मिकों को पारिश्रमिक पर लेकर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित, मुहैया, अनुरक्षण और अनुसंधान करने के लिए अथवा अन्यथा आर्थिक-सहायता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाएं, प्रयोगात्मक स्टेशन, अनुसंधान के लिए कार्यशालाएं और पुस्तकालय, सभी किस्म के प्रयोग और परीक्षण और प्रोसेस के लिए नई और बेहतर तकनीकों और विधियों और उत्पादों की खोज और सुधार और किसी प्रोसेस, पेटेंट, कॉपीराइट में सुधार अथवा प्राप्त करना जिसका कंपनी अधिग्रहण अथवा सौदा करना चाहती है और या तो स्वतंत्र रूप से कंपनी द्वारा अथवा आर्थिक सहायता, विन्यास अथवा प्रयोगशालाओं, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों,

कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यान, बैठकों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों द्वारा अनुसंधान, सर्वेक्षणों और खोजों को बढ़ावा और अध्ययनों को प्रकाशित कर सकती है और वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक अथवा तकनीकी कर्मिकों अथवा अनुसंधान कामगारों और अन्वेषणकर्ताओं के पारिश्रमिक का प्रावधान करके, अथवा सामान्य रूप से किसी किस्म के अध्ययनों, अनुसंधानों, प्रयोगों, परीक्षणों और खोजों, जिन्हें कंपनी के किन्हीं उद्देश्यों के लिए सहायता देने वाला माना जाता है, को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और अध्ययनों के लिए पुरस्कार प्रदान करना ।

36. लोगों के सामाजिक कल्याण के संवर्धन के लिए किसी कार्यक्रम अथवा किसी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के उत्थान सहित ग्रामीण विकास का जिम्मा लेना और करने को संवर्धित और प्रायोजित करने के लिए और ग्रामीण विकास अथवा किसी कार्यक्रम पर व्यय करना और उसके संवर्धन अथवा निष्पादन में या तो सीधे ही अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अथवा अंशदान करके अथवा दान देकर अथवा किसी अन्य ढंग से सहायता देना ।

37. किसी देश के नियमों अथवा विनियमनों के तहत कंपनी के लिए पंजीकरण, निगमन अथवा मान्यता-प्राप्त करना ।

38. किसी व्यवसाय, फर्म और उपक्रम की स्थिति, प्रबंध की संभावनाएं, मूल्य के चरित्र और परिस्थितियों की छानबीन और जांच के लिए विशेषज्ञों को नियोजित करना ।

39. कर्मचारियों के लाभ के लिए किसी ट्रस्ट का जिम्मा लेना और निष्पन्न करना और कंपनी के ऋण पत्र-धारकों अथवा ऋणपत्र-स्टाक धारकों के लिए ट्रस्टियों के कार्यालय का जिम्मा लेना और कंपनी के हितों के संरक्षण के लिए और इसकी ओर से प्रतिभूतियां धारण करने के लिए ट्रस्टियों को नियुक्त करने ।

40. कंपनी को अपने उद्देश्यों को जारी रखने में समर्थ बनाने और कंपनी के गठन में कोई संशोधन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु सरकार को कोई अनंतिम आदेश अथवा अधिनियम प्राप्त करना ।

41. किसी सरकार अथवा प्राधिकारी के साथ व्यवस्था करने, और उनमें से किसी से अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें प्राप्त करना, जिसे कंपनी अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय समझती है ।

42. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अध्यधीन समापन की दशा में सोना-चांदी में शेयरधारकों के बीच कंपनी की किसी परिसम्पत्ति का वितरण करना ।

43. कंपनी के किसी प्रयोजन के लिए किसी प्रकाशन अथवा अन्यथा में अंतःस्थापित करने के लिए उपयुक्त सूचना के संबंध में प्रतिस्पर्धा स्थापित करना और ऐसी शर्तों, जैसा समीचीन प्रतीत हों, के इनाम, पुरस्कार, उपहार और प्रीमियम की पेशकश और प्रदान करना ।

44. कंपनी के सभी उद्देश्यों अथवा किसी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा कंपनी से अचल अथवा चल परिसम्पत्ति और भेंट अथवा स्वैच्छिक दान अथवा वसीयत और वसीयत-संपदा का कोई उपहार किसी विशेष शर्त के साथ अथवा शर्त के बिना कोई उपहार प्राप्त करना बशर्ते कि ऐसी प्राप्ति और संबद्ध शर्तें कंपनी के उद्देश्यों के साथ असंगत न हों । भूमि, भवन और अन्य अचल परिसम्पत्तियां सहित ऐसे सभी उपहार, दान, अनुदान, भेंट, वसीयतों और वसीयत संपदाओं को कंपनी की परिसम्पत्ति का भाग बनने के रूप में माना जाएगा और तदनुसार अनुपयुक्त करना ।

45. धन/पेंशन, भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतान द्वारा अथवा भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थाओं और ट्रस्टों के सृजन और समय-समय पर अभिदान अथवा अंशदान करना अथवा चिकित्सा अथवा अन्य सहायता के लिए अभिदान करना, जैसा कंपनी उचित समझे, और धर्मार्थ, हितकारी, राष्ट्रीय और/अथवा अन्य संस्थाओं अथवा उद्देश्यों से कर्मचारियों अथवा पूर्व-कर्मचारियों अथवा कंपनी के निदेशकों अथवा पूर्व-निदेशकों और पत्नियों, और परिवारों अथवा ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों के लिए प्रावधान करना ।

46. कंपनी के किसी प्रकाशन के किसी अभिदाता अथवा खरीददार अथवा प्रोसेसर अथवा कंपनी के प्रकाशन के साथ जारी किसी कूपन अथवा टिकट के लिए किसी सुविधा, फायदा, लाभ अथवा विशेष विशेषाधिकार, जो समीचीन प्रतीत हो, प्राप्त अथवा प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करना ।

47. कंपनी के संवर्धन, निगमन और स्थापना के बारे में सभी लागत, प्रभार और किए गए व्यय अथवा कंपनी जिसे निधियों से प्रारंभिक होना मानेगी, को अदा करना ।

48. किसी दावे, मांग, विवाद अथवा अन्य कोई प्रश्न द्वारा अथवा कंपनी के विरुद्ध अथवा जिसमें कंपनी दिलचस्पी रखती है अथवा संबंधित है, और चाहे यह कंपनी और शेयरधारकों अथवा शेयरधारकों अथवा इसके अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच है, अथवा कंपनी और तीसरे पक्षों के बीच है, विवाचन को भेजने अथवा भेजने के लिए सहमत होती है और एक्सचेंज के संगम अनुच्छेदों, नियमावली, उप-विधियों और विनियमनों के अध्यधीन प्रेक्षित और निष्पादन और अवाडों को लागू करने के लिए सभी कृत्यों, मामलों और विषयों को करना ।

49. किसी विधान, आदेश, विनियमन अथवा अन्य प्राधिकार अथवा अधिनियमन को प्राप्त और संवर्धन के लिए आवेदन करने के लिए जो कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ के लिए परिकलित किया प्रतीत होता है और किसी विधेयक, कार्यवाही अथवा आवेदकों का विरोध करना ।
50. कंपनी की व्यवसाय परिसम्पत्ति और उपक्रम अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रतिफल पर बेचने, निपटाने अथवा अंतरित करने के लिए जिसे कंपनी स्वीकार करने के लिए उचित समझती है ।
51. जानकारी प्राप्त करना ताकि इसका उपयोग किया जा सके अथवा इसे भारत और विदेश में प्रदान किया जा सके और ऐसी जानकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों पर प्रदान करना जो कंपनी के लिए लाभदायक हो, और स्थापना, अनुरक्षण, संचालन, प्रदान, प्राप्त करना अथवा सभी किस्म की सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसे कदम उठाना जो जांच, निरीक्षण के लिए आवश्यक हों, और किसी परियोजना के संबंध में बाजार अनुसंधान के प्रयोजन के लिए परीक्षण करना ।
52. किसी भूमि, भवन और सुविधा अथवा किसी अचल अथवा चल परिसम्पत्ति, पेटेंट, लाइसेंस, अधिकार और विशेषाधिकारों को खरीदना, पट्टे पर लेना अथवा विनियम में, किराए पर और अन्यथा अधिग्रहण और अनुरक्षण के लिए जिसे कंपनी अपने व्यवसाय के प्रयोजन हेतु आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझती है और इसके लिए या तो नकद अथवा शेयरों में अथवा प्रतिभूतियों में भुगतान करना और बेचने, किराए पर देने, पट्टे पर अथवा न्यून पट्टा अथवा अन्यथा निपटान करना अथवा किसी चल अथवा अचल परिसम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करना, कंपनी से संबंधित अधिकार और विशेषाधिकार देना ।
53. व्यवसाय अथवा किसी विशेष लेन-देन को ज्ञात करने के ऐसे साधन अपनाना जिसमें कंपनी दिलचस्पी रखती है, जैसा समीचीन प्रतीत हो, और विशेष रूप से प्रेस में विज्ञापन, परिपत्र द्वारा, दिलचस्पी के कार्यों की खरीद और प्रदर्शन, पुस्तकें और पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा और इनाम, पुरस्कार आदि द्वारा ज्ञात करवाना ।
54. किसी कंपनी के व्यवसाय के पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण अथवा प्रचालन में भाग लेने अथवा उसी अथवा उससे सम्बद्ध व्यवसाय शुरू करना ।
55. कंपनी का व्यवसाय जारी रखने और उससे प्रासंगिक सभी जोखिमों के संबंध में ऐसे सभी बीमा करना जो समीचीन प्रतीत हों और यदि उचित समझा जाता है तो किसी पारस्परिक बीमा कंपनी में शामिल अथवा सदस्य बनने अथवा कंपनी के व्यवसाय से संबंधित एक भाग अथवा पूरे के लिए बीमा जोखिम लेना ।
56. किसी व्यवसाय को करने के लिए इस कंपनी के कोई परिसम्पत्ति अधिकार और देनदारियां अथवा सभी का अधिग्रहण करने के प्रयोजनार्थ कोई कंपनी अथवा कंपनियों के संवर्धन के लिए जिसे यह कंपनी करने के लिए अधिकृत है अथवा कोई अन्य प्रयोजन जो इस कंपनी के लाभ के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिकलित प्रतीत होते हैं अथवा इस कंपनी के हित का संवर्धन अथवा बढ़ावा करना ।
57. डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग प्रणालियां, कम्प्यूटर प्रणालियां, प्रयोग और प्रणाली साफ्टवेयर, प्रोसेस नियंत्रण प्रणालियां, कम्प्यूटर और भारत और विदेश में भी सभी शाखाओं के सभी पहलुओं के संबंध में तकनीकी और प्रबंध परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करना और इनके अलावा प्रबंध विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में उपस्कर और सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना और प्रबंध सेवाओं और कम्प्यूटर विज्ञान के सभी पहलुओं से संबंधित खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात, किराया, पट्टा, संस्थापित, अनुरक्षण और उपस्कर और उप-साधन, जानकारी और सेवाएं, साफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रयोग करना ।
58. सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्थानीय क्षेत्र-व्यापक क्षेत्र, संयोजित और नेटवर्किंग, अपतट सूचना प्रौद्योगिक परियोजनाएं -परामर्शी, मूल्य वर्धित, पुनः बिक्रीकर्ता अथवा साफ्टवेयर प्रणालियां और साधन और परामर्शी प्रदान करके किसी उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी साधन की पूर्ति, तैयार करना, विकसित करना, खरीद और बिक्री करना, और साफ्टवेयर विकासकर्ता, खरीददार, विक्रेता, आयातक और निर्यातक के रूप में कार्य करना ।
59. किसी रूप में भंडारण के प्रयोजन से किसी अन्य कंपनी अथवा व्यक्ति अथवा विभाग अथवा प्राधिकारण के माध्यम से अथवा के सहयोग से अथवा स्वयं द्वारा सभी किस्म की भंडारण प्राप्तियों की डिपॉजिटरी अथवा अभिरक्षक के रूप में कार्य करना ।
60. कंपनी के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए एजेंटों की नियुक्ति अथवा व्यवस्था की स्थापना और अनुरक्षण अथवा समाशोधन गृह की स्थापना और अनुरक्षण अथवा होल्टिंग और क्लीयरिंग निगम, डिपॉजिटरी क्लीयरिंग गृह का अनुरक्षण अथवा उसके कार्यकरण और प्रशासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए डिवीजन की स्थापना और अनुरक्षण करना ।
61. किन्हीं गठित विलेखों अथवा कोई ऋणपत्र, अन्य प्रतिभूतियों के ऋणपत्र-स्टाक अथवा दायित्वों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने और किसी अन्य ट्रस्ट को प्राप्त करना निष्पन्न करने और जिम्मा लेने और कार्यालय का जिम्मा लेने अथवा निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, अभिरक्षक और ट्रस्ट निगम की शक्तियों का प्रयोग करना ।

62. किन्हीं शेयरों, स्टॉक प्रतिभूति प्रमाणपत्रों अथवा अन्य दस्तावेजों के आधार पर अथवा प्रतीक के रूप में तरजीही और अस्थगित अथवा अन्य किसी विशेष स्टॉक प्रतिभूति प्रमाण पत्रों अथवा अन्य दस्तावेजों को जारी करने की दृष्टि से किसी न्यास का गठन करना अथवा ऐसे किसी न्यास के प्रयोजन के लिए विनियोजित अन्य परिसम्पत्तियाँ और ऐसे तरजीही, अस्थगित अन्य विशेष स्टॉक, प्रतिभूतियों, प्रणामपत्रों अथवा दस्तावेजों को तय करना और विनियमित करना और यदि अपेक्षित हो, तो इनकी जिम्मेदारी लेना और निष्पादित करना।

63. किसी कम्पनी के वितरण संजाल और प्रणाली संरचना का स्वतंत्र रूप से अथवा एक्सचेंज के सदस्यों अथवा अन्य मध्यस्थों के सहयोग से प्रयोग करना और एजेंसियों तथा संस्थाओं को सहायता देना, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को शुल्क अथवा प्रभार लेकर अथवा अन्यथा देश के भीतर और देश के बाहर वितरित करना, कम्पनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देना और इसके निवेश, विस्तार और प्रभाव का अत्यधिक इष्टतम रूप से प्रयोग करना।

ग. अन्य उद्देश्य :

64. कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कम्प्यूटर के पुर्जों /संघटकों, उपकरणों, संरूपण, केबलिंग को खरीदना, बेचना इस संबंध में कार्रवाई करना, इसका निर्माण करना, वितरण करना और विपणन करना, सूचना प्रणाली की नेटवर्किंग, एकीकरण, समेकन, विकास उत्थान, प्रतिष्ठापन करना, सूचना प्रणालियों का सृजन करना, अभिव्यक्ति (वॉयस) मेल के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर प्रणालियाँ तैयार करना, आंकड़ों, अभिव्यक्ति (वॉयस) का इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल अंतरण और इस प्रकार कम्प्यूटरों ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस, ई-ट्रेड नेटवर्किंग, वेब आदि के संबंध में सूचना प्रणालियों का उन्नयन और अभिकल्प तैयार करना।

65. कम्पनी की संभाली गई सम्पत्ति और परिसम्पत्तियाँ अथवा उसके किसी भाग को इस प्रकार से ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे कम्पनी उचित मानती हो, किराए पर देना अथवा पट्टे पर देना अथवा विक्रय करना, अथवा निपटान करना और कम्पनी की सभी सम्पत्ति अथवा किसी भाग अथवा अधिकारों के प्रबन्धन में सुधार करना, विकास करना, विनियम करना, पट्टे पर देना, निपटान करना, लेखे में लेना या अन्यथा कार्रवाई करना।

66. किसी एजेंसी और अथवा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन कार्य का उत्तरदायित्व लेने और उसे चलाने और विशेष रूप से भारत में या विदेश में स्थापित किसी फर्म अथवा कम्पनी के प्रबन्धकों, अभिकर्ताओं, वितरकों और प्रतिनिधियों के रूप में, उनकी इस कम्पनी के उद्देश्यों के समनुरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की दृष्टि से कार्य करना।

67. विभिन्न क्षेत्रों- सामान्य, प्रशासनिक, सचिवालयीय, परामर्शी, वाणिज्यिक, वित्तीय, विधिक, आर्थिक, श्रम, औद्योगिक, जन सम्पर्क, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान और अन्य शुल्कों, सांख्यिकीय, लेखा कार्य, गुणवत्ता नियंत्रण और सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवा संगठन और व्यूरो के रूप में कार्य करना।

68. किसी धातु, बुलियन, सोना, चांदी, चांदी से बनी वस्तुओं, हीरे, रत्न, आभूषण और वस्तुओं तथा जेवरात और पेंटिंग्ज, सिक्कों और पांडुलिपियों और कलापूर्ण वस्तुओं को अर्जित करना, रखना, विक्रय करना, किराया-खरीद पर किराए पर देना, पट्टे पर देना, किराए पर देना और इसके लिए नकद रूप में अथवा अन्यथा अदायगी करना।

69. भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सम्बन्धन/मान्यता प्राप्त करना।

70. समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य साहित्यिक कार्यों और उपक्रमों के स्वामियों और प्रकाशकों के रूप में व्यवसाय करना।

71. माल के संबंध में परिवहन संविदाओं, भाण्डागार अभिकर्ताओं के रूप में नौपरिवहन, चार्टर, अग्रेषण अभिकर्ताओं तथा संविदाकारों और अभिकर्ताओं, कार्गो अधीक्षकों, पैकरों और दुलाईकर्ताओं के रूप में कार्य करना, बेड़ा (फ्लीट) स्वामियों के रूप में कोच और आटो किराए पर देने वालों और अन्य वाहन स्वामियों, गैराज स्वामियों, इंजीनियरों और इलेक्ट्रिशनों के रूप में कार्य करना और अभिकर्ताओं और संविदाकारों के रूप में कार्य करना और भंडारण का निर्माण करना, इन्हें सुसज्जित करना और सुविधाकर बनाना और सभी प्रकार सुविधा के लिए व्यवस्था करना, माल की दुलाई के लिए परिवहन हेतु वाहनों की खरीद करना और किराए पर देना और भूमि, समुद्र, अन्तःस्थलीय जलमार्गों पाइपलाइन और वायु के द्वारा परिवहन के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए सामान्य वाहकों और अग्रवर्ती वाहकों के रूप में कार्य करना, माल, वेयर्स के भण्डार के रूप में प्रत्येक प्रकार के और किसी भी विवरण की पण्य वस्तुओं का भण्डार करना और किसी भूमि, नौघाटों, नहरों, जलमार्गों, भाण्डागारों, जहाजघाटों, भवनों या मशीनरी की खरीद करना या अन्यथा अर्जित करना और ऐसी खरीद के लिए निर्माण करना और इसे सुसज्जित करना, किसी भी जहाजों, कर्षणावों, नौकाओं, मोटर ट्रकों, मोटर लारियों, मोटर कारों तथा ट्रैम्पों, मेटाडोरो, स्टेशन वैगनों सहित भारी वजन देने वाले वाहनों अथवा किसी भी आकार, किस्म और बनावट के किन्हीं अन्य वाहनों अथवा पोतों को किराए पर लेना तथा रेलवे का कार्य करने में सक्षम बनाना और अनुरक्षण करना और किसी एजेंसी तथा बुकिंग कार्यालय को स्थापित करना और चलाना और सीमा-शुल्क निकासी अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करना।

72. उपक्रम का व्यवसाय चलाना और टर्न की आधार पर परियोजनाओं को स्थापित करना।

73. उपर्युक्त क्षेत्रों में जानकारी प्रबन्धन प्रणालियों को विकसित करना, अर्जित करना, खरीदना, बेचना, देना या अन्यथा कार्रवाई करना और भारत अथवा विदेश में इन क्षेत्रों में शुल्क प्राप्त करने या रॉयल्टी प्राप्त करके अथवा किसी अन्य रूप में राशि प्राप्त करके, परामर्शदाताओं और सलाहकारों के रूप में कार्य करना।

74. किसी वस्तु के लिए शीतागार, भंडारण कक्ष, बर्फ -संयंत्र, गोदाम, टैंक, साइलो, तहखाने, डिपोजिटरी, मालगोदाम, रेफ्रिजरेटर, हिमीभवन और कक्ष शीतलकों का निर्माण, बनाना, सज्जित करना, मालिक बनना और अनुरक्षण करना तथा पालक के रूप में व्यवसाय करना।

75. भारत में कहीं भी या विदेश में माल के भाण्डागार, परिवहन और दुलाई के व्यवसाय में लगना या इसे चलाना तथा माल के भण्डारण, परीक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन तथा इसे कीटों, चींटियों, चूहों, नमी, वर्षा, आग और अन्य प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं से सुरक्षित रखने हेतु व्यवस्था करना।

76. सभी शाखाओं में अभिकर्ताओं, बिक्री आयोजकों, परामर्शदाताओं और सलाहकारों के रूप में कार्य करना और इस हैसियत में व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों, प्राधिकारणों अथवा सरकार को सलाह देना तथा सूचना देना और सेवाएं प्रदान करना, जो भी सेवाएं, सूचना और सलाह दी जाती है अथवा प्रदान की जाती हैं उसमें माल की बिक्री अथवा विपणन में वृद्धि होनी चाहिए और इसमें सहायक होनी चाहिए और सभी सेवाएं प्रदान करना चाहे आनुषंगिक हो या नहीं।

77. वे सभी कार्य और क्रियाएं करना जो कम्पनी के उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हो अथवा इनके प्रासंगिक हों या सदृश हों।

IV. कंपनी के सदस्यों को देनदारी सीमित है।

V. 'कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 700,000,000/-रुपए है (सत्तर करोड़ रुपए) जिसे ² 10/-रुपए (दस रुपए) प्रत्येक के 70,000,000(सत्तर करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और पूंजी को बढ़ाने और /अथवा कम करने की शक्ति है, पूंजी में इस समय शेयरों की बहुत सी श्रेणियों में विभाजित करने और उससे ऐसे तरजीही, आस्थगित, अर्हता अथवा विशेष अधिकार, विशेषाधिकार अथवा शर्तें ऐसे ढंग से जैसा कि कंपनी द्वारा अथवा इसके विनियमनों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और कंपनी के विनियमनों अथवा अधिनियम द्वारा यथा अनुमत्य ऐसे ढंग से ऐसे किन्हीं अधिकारों, विशेषाधिकारों अथवा शर्तों को परिवर्तित, संशोधित अथवा निराकरण किया जा सकता है और शेयरों को समेकित अथवा उपविभाजित और ऊंचे अथवा निम्न मूल्यवर्गों के शेयर जारी किए जा सकते हैं।

¹ 10रुपए प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयरों वाली 500,000 रुपए की प्राधिकृत पूंजी को निम्नानुसार बढ़ाया गया था :

- 17 मार्च, 2003 को हुई ईजीएम में शेयरधारकों के प्रस्ताव के अनुसरण में 110,000,000 रुपए तक।
- 27 फरवरी, 2004 को हुई ईजीएम में शेयरधारकों के प्रस्ताव के अनुसरण में 180,000,000 रुपए तक।
- 3 अप्रैल, 2004 को हुई ईजीएम में शेयरधारकों के प्रस्ताव के अनुसरण में 300,000,000 रुपए तक।
- 5 फरवरी, 2005 को हुई ईजीएम में शेयरधारकों के प्रस्ताव के अनुसरण में 500,000,000 रुपए तक।
- 10 रुपए प्रत्येक के 50,000,000 इक्विटी शेयरों वाली 500,000,000 रुपए की प्राधिकृत पूंजी को 1 सितम्बर, 2007 को आयोजित एजीएम में 5 रुपए प्रत्येक के 100,000,000 इक्विटी शेयर वाली 500,000,000 रुपए की प्राधिकृत पूंजी में उप-विभाजित किया गया था।
- 30 सितम्बर, 2010 को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों के प्रस्ताव के अनुसरण में 700,000,000 रुपए तक।

² 5 रुपए प्रत्येक के 140,000,000 इक्विटी शेयरों वाली 700,000,000 रुपए की प्राधिकृत पूंजी को 14 मार्च, 2011 में आयोजित ईजीएम में 10 रुपए प्रत्येक के 70,000,000 इक्विटी शेयरों वाली 700,000,000 रुपए की प्राधिकृत पूंजी में समेकित किया गया था।

हम बहुत से व्यक्ति जिनके नाम, विवरण और अंशदान निम्नानुसार हैं, इस संगम के जापन के अनुसरण में कंपनी बनाए जाने के इच्छुक होने पर और, हम क्रमशः हमारे संबंधित नामों के सामने दिए गए कंपनी की पूंजी में शेयरों की इस संख्या को लेने के लिए सहमत हैं :

प्रत्येक अभिदाता का नाम, पता, विवरण और व्यवसाय	प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिए गए शेयरों की संख्या	अभिदाता के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर और उसका नाम, पता, विवरण और व्यवसाय
2. श्री. हरीहरण वैद्यलिंगम सुपुत्र श्री वी वैद्यलिंगम शर्मा ए 3-62, महिन्द्रा गार्डन्स, पाटकर कालेज के समीप, एस वी रोड, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062 व्यवसाय-सेवा	5000 (पांच हजार)	हो	साक्षी के हस्ताक्षर और उसका नाम, पता, विवरण और व्यवसाय अभिदाता सं. 1 से 2 के साक्षी हो/ केतन एम. शाह सुपुत्र महेन्द्र कुमार एम. शाह 12, दामोदर निवास, 32/34, सीपी टैंक रोड, मुंबई-400004 चार्टर्ड लेखाकार
2. रिनसी अनसलाम सुपुत्र अथीपोझिल हेनरी एनसी अथीपोझिल हाउस, चेरटाला, अलापुझा, केरल- 688530 व्यवसाय -सेवा	5000 (पांच हजार)	हो	
	10,000 (दस हजार)		

दिनांक : अप्रैल, 2002 का 17वां दिन

स्थान : मुंबई

सूचना:- अंग्रेजी पाठ और हिंदी अनुवाद में किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 1956

शेयरों द्वारा सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड

के

संगम अनुच्छेद

तालिका क लागू नहीं होगी

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची की तालिका क में विहित विनियमन कंपनी पर लागू नहीं होंगे, सिवाए इसके जहां तक उनको निम्नलिखित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

व्याख्या खंड

व्याख्या

2. क. यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इन अनुच्छेदों में विहित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 में है अथवा उस तारीख को उनका कोई सांविधिक संशोधन जिस पर अनुच्छेद कंपनी पर बंधनकारी होते हैं।

मार्जिन नोट/उप-शीर्षक

- ख. इसके पश्चात जोड़े गए मार्जिन नोट/उप-शीर्षक सुविधा के लिए अतः स्थापित किए गए हैं और यह उसकी रचना को प्रभावित नहीं करेंगे।

परिभाषाएं

3. इन वर्तमान में यदि उनमें विषय अथवा संदर्भ के साथ कुछ असंगत हो :
 - क. 'अधिनियम' अथवा 'कंपनी अधिनियम' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 है और इसमें जहां संदर्भ ऐसी अनुमति देता है उनका कोई पुनः अधिनियम अथवा संशोधन जो इस समय लागू है।
 - ख. *'वार्षिक आम सभा' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 की प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई कंपनी के शेयरधारकों की आम सभा और इसकी स्थगित की गई सभा से है।
 - ग. 'अनुच्छेद' अथवा 'इन अनुच्छेदों' अथवा 'इन वर्तमानों' का तात्पर्य कंपनी के इन संगम अनुच्छेदों से है।
 - घ. 'लेखा परीक्षक' का तात्पर्य और इसमें शामिल वे व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी द्वारा इस समय 'लेखा परीक्षकों' के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - ङ. 'निदेशक बोर्ड' से तात्पर्य और इसमें 'निदेशक बोर्ड' अथवा 'प्रबंध परिषद' अथवा 'शासी बोर्ड' अथवा 'मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज का बोर्ड' अथवा 'बोर्ड' शामिल है, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, इसको प्रबंध और अधीक्षण की सामान्य शक्तियां सौंपी गई हैं और इसका स्टॉक एक्सचेंज के सभी ट्रेडिंग सदस्यों और इन अनुच्छेदों, नियमों, उप-विधियों और विनियमनों के तहत विभिन्न उपबंधों और स्टॉक एक्सचेंज के निदेशों/परिपत्रों और एक्सचेंज में कारोबार की जाने वाली सभी वस्तुओं या प्रतिभूतियों अथवा अन्य साधनों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार है।
 - च. 'निकाय कारपोरेट' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 12(7) द्वारा नियत किया गया है और इसमें भारत में निगमित कंपनी शामिल होगी। 'निकाय कारपोरेट' और 'कंपनी' शब्दों को वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाता है।
 - छ. 'पूंजी' से तात्पर्य कंपनी के प्रयोजनार्थ इस समय जुटायी गई अथवा जुटाए जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी है।
 - ज. 'अध्यक्ष' और 'दी अध्यक्ष' से तात्पर्य इस समय निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष से है।
 - झ. 'समाशोधन गृह' से तात्पर्य किसी वस्तु, जिसमें ऐसी संविदाओं प्रतिभूतियां अथवा साधन के डेरीवेटिव शामिल हैं, और कंपनी/एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं, में किन्हीं लेनदेनों/संविदा के समाशोधन और निपटान के लिए प्रचालन कर रहे किसी समाशोधन गृह से है।
 - ञ. 'कंपनी' अथवा 'दी कंपनी' अथवा 'यह कंपनी' अथवा 'एक्सचेंज' अथवा 'एम सी एक्स' से तात्पर्य मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड 'एमसीएक्स' से है।
 - ट. 'वस्तु' का तात्पर्य माल या वस्तु से है, जैसाकि वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (इसमें इसके पश्चात इसे एफ सी (आर) अधिनियम कहा जाएगा के द्वारा या उसके तहत परिभाषा की गई है, ऐसी वस्तु को निरूपित करने वाली प्रतिभूतियां या साधन शामिल हैं जिनकी एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने की अनुमति दी गई है।
 - ठ. 'संविदा' का तात्पर्य एक्सचेंज द्वारा यथा विनिर्धारित किसी वस्तु की खरीद और /अथवा बिक्री से संबंधित अथवा के लिए संविदा से है और इसमें सभी किस्म के वायदा फ्यूचर और अन्य डेरीवेटिव संविदा शामिल हैं, जैसाकि ट्रेडिंग के लिए एफएमसी द्वारा अनुमति दी जाती है।
 - ड. 'ऋणपत्र' में ऋणपत्र स्टॉक शामिल होता है।

- द. 'निदेशक' का तात्पर्य कंपनी के इस समय के निदेशक और कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य से है।
- ण. 'एक्सचेंज' का तात्पर्य वस्तुओं, प्रतिभूतियों या अन्य कोई साधन या उन पर डेरीवेटिव के लिए संविदाओं में कारोबार समाशोधन और निपटान में सुविधा देने के लिए कंपनी द्वारा स्वामित्व/प्रचालित एक्सचेंज से है।
- त. 'असाधारण आम बैठक' का तात्पर्य वार्षिक आम बैठक को छोड़कर कंपनी के शेयरधारकों की आम बैठक, जो यथोचित रूप से बुलाई गई और गठित की गई हो और उसकी कोई स्थगित बैठक से है।
- थ. 'आम बैठक' का तात्पर्य कंपनी के शेयरधारकों की बैठक से है।
- द. 'वायदा बाजार आयोग' या 'आयोग' या 'एफएमसी' का तात्पर्य वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित वायदा बाजार आयोग होगा।
- ध. 'लिखित' में अथवा 'लिखित' में लिखावट, टाइपराइटिंग, मुद्रण, लिथोग्राफी, फैक्स, कम्प्यूटरों से डाउनलोड करना, ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से प्रसारण, ई-मेल और/अथवा दृश्य रूप में शब्दों को निरूपित अथवा दोहराने की अन्य विधियां।
- न. 'एक्सचेंज का सदस्य' से तात्पर्य व्यक्ति, एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार कंपनी, सहकारी संस्था, एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, सांविधिक निगम, बैंक अथवा अन्य कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी हस्ती जिसे एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग, क्लीयरिंग अथवा एक्सचेंज में ट्रेड किए गए संविदा के निपटान की अनुमति दी गई हो।
- प.* 'सदस्य' से तात्पर्य कंपनी के सदस्य से होगा जो शेयर अथवा किसी वर्ग के शेयरों को धारण करता है और जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, और इसमें संस्था के जापन और इन अनुच्छेदों के अभिदाता/हस्ताक्षरी शामिल होंगे, और ऐसे कोई अन्य व्यक्ति, जैसाकि बोर्ड समय-समय पर कंपनी के सदस्यों के रूप में अनुमति देता है।
- स्पष्टीकरण : कंपनी का कोई सदस्य कंपनी में अपनी शेयरधारिता की वजह से स्वतः ही एक्सचेंज में कोई ट्रेडिंग अथवा क्लीयरिंग अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।
- फ. 'मास' का तात्पर्य अंग्रेजी कैलेण्डर माह है।
- ब. 'कार्यालय' से तात्पर्य कंपनी का इस समय पंजीकृत कार्यालय से है।
- म. 'साधारण प्रस्ताव' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 189 द्वारा दिया गया अर्थ होगा।
- य. 'चुक्ता पूंजी' में कंपनी की चुक्ता पूंजी के रूप में क्रेडिट की गई राशियां शामिल हैं।
- र. 'व्यक्ति' में कोई निगम अथवा कंपनी, वैयक्तिक, फर्म, निकाय कारपोरेट, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था, कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी हस्ती अथवा व्यक्तियों का कोई संघ शामिल है।
- क क. किसी बैठक में 'उपस्थिति' अथवा 'उपस्थित' का तात्पर्य उपस्थिति अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से है।
- क ख. 'संगत प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक बोर्ड अथवा ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- क ग. 'मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' का तात्पर्य, जिसे इस समय केंद्र सरकार और/अथवा एफसी(आर) अधिनियम, 1952 के तहत प्रावधानों के तहत एफएमसी से मान्यता-प्राप्त है।
- क घ. 'शेयरधारकों का रजिस्टर' अथवा 'दी शेयरधारकों का रजिस्टर' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 150 के अनुसरण में रखे गए सदस्यों के रजिस्टर से है।
- क ड.. 'रजिस्ट्रार' अथवा 'दी रजिस्ट्रार' से तात्पर्य कंपनी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले कंपनियों के रजिस्ट्रार से है।
- क च. 'विनियमन' अथवा 'दी विनियमन' का तात्पर्य इस समय लागू एक्सचेंज के विनियमन से है और इसमें व्यवसाय नियमावली, आचरण संहिता, परिपत्र, नोटिस और निदेशक बोर्ड अथवा एक्सचेंज के प्रचालनों के लिए समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित ऐसे अन्य विनियमन शामिल हैं।
- क छ. 'नियम' एक्सचेंज के गठन और प्रबंध के लिए सामान्य रूप से नियम और एक्सचेंज की ट्रेडिंग सदस्यता की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। नियमों में इसका जापन और संगम अनुच्छेद शामिल हैं। ये नियम एफसी (आर) अधिनियम, 1952 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अध्याधीन होंगे।
- क ज. 'मुहर' से तात्पर्य इस समय शासी बोर्ड द्वारा अपनायी गई कंपनी की आम मुहर से है।

1 दिनांक 10 जून, 2006 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित।

क झ. * 'सचिव' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी सचिव होगा।

क ज. 'प्रतिभूतियों में निम्न शामिल हैं :

1. किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कारपोरेट या अन्यथा में या के शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंधपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां या इसी स्वरूप के साधन जिनमें कानून के तहत अनुमत्य फ्यूचर, ऑप्शन और अन्य डेरीवेटिव शामिल हैं ;

- ii. सरकारी प्रतिभूतियाँ ;
- iii. ऐसे अन्य साधन जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया जाता है;
- iv. प्रतिभूतियों में अधिकार या हित; और
- v. अन्य कोई साधन जिन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या एफसी (आर) ए, 1952 में प्रतिभूतियों की परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है।

क ट. 'विशेष प्रस्ताव' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 189 द्वारा इसका दिया गया अर्थ होगा।

क ठ. * 'ट्रेडिंग प्रणाली' का तात्पर्य एक्सचेंज की ऑटोमेटिड ट्रेडिंग प्रणाली अथवा एक्सचेंज द्वारा मुहैया कोई अन्य प्रणाली से है, जो एक्सचेंज के सदस्यों को वस्तु अथवा किसी अन्य साधन में किसी भी विधि/प्रौद्योगिकी/संयोजकता, भावों को उपलब्ध कराती है और किए गए ट्रेड, परिमाण आदि और एक्सचेंज द्वारा उसमें रखी गई ऐसी अन्य अधिसूचनाओं का प्रसार करती है।

क ड. 'शब्दों' का अर्थ

क) एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होगा।

ख) पुल्लिंग लिंग में स्त्री लिंग अथवा नपुंसक लिंग, जैसा भी मामला हो, शामिल है।

क ण. 'वर्ष' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(17) द्वारा दिया गया अर्थ कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष से है।

उपर्युक्त में शामिल न की गई परिभाषाएं एक्सचेंज की व्याख्या अथवा प्रबंध के प्रयोजन से इन अनुच्छेदों, नियमों अथवा उप-विधियों से ली जाएंगी और किसी विसंगति के मामले में एक्सचेंज द्वारा ली गई व्याख्या अंतिम होगी और यह एक्सचेंज से सम्बद्ध सभी के लिए बंधनकारी होगी।

व्यवसाय

4. कंपनी उस व्यवसाय को करेगी जिसके लिए यह निगमित की गई थी और कोई अन्य व्यवसाय अथवा व्यवसाय की लाइन अथवा गतिविधि, जिसे कंपनी अपने संगम अनुच्छेद के तहत करने के लिए प्राधिकृत है।

5. प्राधिकृत पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी समय-समय पर कंपनी के संस्था जापन के खंड-V के अनुसार होगी और बोर्ड को कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाने अथवा घटाने और बहुत-सी श्रेणियों में वर्गीकृत और उसमें ऐसे क्रमशः तरजीही, अर्हता-प्राप्त अथवा विशेष अधिकार, विशेषाधिकार अथवा शर्तें जैसाकि कंपनी के अनुच्छेदों और ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों अथवा शर्तों को ऐसे ढंग से जैसा कि कंपनी के अनुच्छेदों और /अथवा अधिनियम के तहत इस समय प्रदान किया जा रहा है और इन शेयरों को समेकित अथवा उप-विभाजित करने और ऊंचे अथवा निम्न मूल्यवर्ग के शेयर जारी करने की शक्ति होगी।

6. आम सभा की ऐसे व्यक्तियों को शेयर देने की शक्ति जैसा कंपनी प्रस्ताव करती है
*कंपनी आम सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्धारित कर सकती है कि कोई शेयर (चाहे वे कंपनी की मूल पूंजी अथवा बढ़ी हुई पूंजी का भाग बनते हों) ऐसे व्यक्तियों को (चाहे वे कंपनी के शेयरधारक अथवा ऋणपत्र धारक हों अथवा न हों) जैसाकि कंपनी प्रस्ताव करती है।

7. पूंजी बढ़ाने की शक्ति

कंपनी समय-समय पर, विशेष प्रस्ताव द्वारा, शेयर पूंजी को ऐसी राशि तक बढ़ा सकती है, जिसे ऐसी राशि के शेयरों में विभाजित किया जाना है, जैसाकि प्रस्ताव में निर्दिष्ट है।

8. पूंजी का और निर्गम

क. चाहे कंपनी के गठन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात अथवा इसके गठन के पश्चात पहली बार कंपनी में किए गए शेयरों के आवंटन से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी समय, इनमें से जो भी कम हो, कंपनी की अभिदत्त पूंजी और शेयरों को या तो गैर-जारी पूंजी में से अथवा बढ़ी हुई पूंजी से आवंटन किया जाता है तब :

- i. ऐसे नए शेयर, चाहे इक्विटी अथवा तरजीही हों, ऐसे व्यक्तियों को पेश किए जाएंगे, जो पेशकश की तारीख को कंपनी की शेयर पूंजी में उस तारीख को उन शेयरों पर चुक्ता पूंजी के लिए अनुमत परिस्थितियों के लगभग अनुपात में धारक हों ;
- ii. उपरोक्त पेशकश, पेश किए गए शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस द्वारा की जाएगी और पेशकश की तारीख से पंद्रह (15) दिन से कम समय तक सीमित नहीं की जाएगी जिसके अंदर यदि पेशकश को स्वीकार नहीं किया जाता तो इसे नकारा गया समझा जाएगा ;
- iii. उपरोक्त पेशकश में व्यक्ति को पेश किए गए शेयरों अथवा उनमें से किसी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करने का संबंधित व्यक्तियों द्वारा अधिकार का प्रयोग शामिल होना माना जाएगा, और खंड (ii) में उल्लिखित नोटिस में इस अधिकार का विवरण विहित होगा; बशर्त कि निदेशक, किसी व्यक्ति को किन्हीं शेयरों को, जिसके पक्ष में किसी शेयर धारक द्वारा उसको पेश किए गए शेयरों का त्याग किया गया है, को किन्हीं शेयरों के आवंटन के लिए कोई कारण दिए बिना नकार सकते हैं।

²³⁰ सितम्बर, 2010 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

³¹³ जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

- iv. 'उपरोक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात अथवा व्यक्ति से पहले की अधिसूचना, जिसको ऐसा नोटिस दिया जाता है कि वह पेश किए गए शेयरों को स्वीकार करने से नकारता है, तो बोर्ड उनको ऐसे ढंग से निपटा सकता है जैसाकि यह कंपनी के लिए अत्यधिक लाभप्रद समझता है।
- ख. ⁵ उप-खंड (i) में कुछ भी विहित होने के बावजूद, उपरोक्त और शेयर ऐसे व्यक्ति को (चाहे वे व्यक्ति उप-खंड (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति हों या न हों) किसी भी ढंग से पेश किए जा सकते हैं।
- (क) यदि उस प्रभाव के लिए कंपनी की आम सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, अथवा
- (ख) जहां कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता, आम बैठक में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालकर (चाहे हाथ उठाकर अथवा मतदान से, जैसा भी मामला हो) जिसमें सदस्यों (अध्यक्ष का वोट, यदि कोई हो, शामिल है) के द्वारा, जो ऐसा करने के हकदार हैं, व्यक्तिगत रूप से मतदान अथवा जहां प्रतिपुरुष की अनुमति है, प्रतिपुरुष द्वारा, वोटों से बढ़ जाते हैं, यदि कोई हों, सदस्य इस प्रकार हकदार हैं और मतदान करते हैं, द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया जाता है और केंद्र सरकार संतुष्ट है। इस पक्ष में निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर कि प्रस्ताव कंपनी के लिए अत्यधिक लाभप्रद है।
- ग. ⁶(क) की उप-धारा (iii) में निम्न कुछ नहीं होगा :
- (क) उप समय सीमा को बढ़ाना जिसमें पेशकश स्वीकार की जानी है; अथवा
- (ख) किसी व्यक्ति को त्याग के अधिकार को दूसरी बार प्रयोग के लिए इस आधार पर प्राधिकृत न करना कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में पहला त्याग किया गया था ने त्याग में शामिल शेयरों को लेने से मना कर दिया है।
- घ. 'इस खंड में कुछ भी कंपनी द्वारा जारी ऋणपत्र अथवा जुटाए गए ऋणों से सम्बद्ध विकल्प के प्रयोग द्वारा कंपनी की अभिदत्त पूंजी की वृद्धि के लिए लागू होगा :
- i. ऐसे ऋणपत्रों अथवा ऋणों को कंपनी के शेयरों में बदलना, अथवा
- ii. कंपनी में शेयरों में अभिदान करने।
- बशर्त कि ऐसे ऋणपत्रों की शर्तें अथवा ऐसे ऋणों की शर्तों में यह शर्त शामिल हो जिसमें ऐसे विकल्प के प्रावधान की शर्तें शामिल हो, और यह कि ऐसी शर्तें को ऋणपत्रों को जारी करने अथवा ऋण जुटाने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो अथवा इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों, यदि कोई हों, के अनुरूप है और सरकार अथवा सरकार द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त ऋणों अथवा जारी ऋणों को छोड़कर ऋणपत्रों और ऋणों के मामले में ऋणपत्रों को जारी करने अथवा ऋणों को जुटाने से पहले कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा भी अनुमोदित किया गया हो।
- ड. धारा 79 क के प्रावधान और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अधीन कंपनी स्वीट इक्विटी जारी कर सकती है यदि ऐसे निर्गम को आम सभा में कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। यदि आम सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो कंपनी कर्मचारियों, जिसमें इसके निदेशक शामिल हैं, को स्टॉक विकल्प योजना अथवा किसी अन्य स्कीम, जिसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, के तहत बनाए गए नियमों और प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अधीन शेयर जारी कर सकती है।
9. इक्विटी शेयरधारकों के अधिकार
- इक्विटी शेयरों पर किसी तरजीही वापसी अदायगी के लिए निर्गम की शर्तों द्वारा हकदार किसी अन्य शेयर के धारकों के अधिकारों के अधीन, समापन की दशा में, तरजीही इक्विटी शेयरों के धारक चुकता अथवा ऐसे शेयरों पर चुकता के रूप में क्रेडिट की गई राशि को और लाभांश, यदि कोई हो, की राशि वापिस अदा किए जाने के हकदार होंगे और उसके पश्चात अधिशेष आस्तियां, समापन शुरू करने पर ऐसे इक्विटी शेयरों पर कमशः चुकता अथवा चुकता के रूप में क्रेडिट की गई राशि के अनुपात में इक्विटी शेयरों के धारकों की होगी।
10. विमोच्य तरजीही शेयर जारी करना
- कंपनी, अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों के अधीन, तरजीही शेयर जारी कर सकती है जो कंपनी के विकल्प पर विमोचित किए जाने हैं और ऐसे शेयरों को अधिनियम की धारा 80 के अधीन किसी ढंग से विमोचित कर सकती हैं और विमोचित अथवा विमोचित किए जाने वाले शेयरों की सांकेतिक राशि तक शेयर जारी कर सकती हैं, जैसाकि अधिनियम की उक्त धारा 80 की उपधारा 4 में प्रावधान किया गया है। जहां पर कंपनी ने विमोच्य तरजीही शेयर जारी किए हैं, वहां अधिनियम की धारा 80 का अनुपालन किया जाएगा। ऐसा ढंग जिसमें ऐसे शेयर विमोचित किए जाएंगे वही होगा जैसाकि वर्तमान में प्रावधान किया गया है जब तक कि निर्गम की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो।

⁴ 30 सितम्बर, 2010 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

⁵ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

⁶ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

⁷ 30 सितम्बर 2010 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

⁸ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

11. तरजीही शेयरों का विमोचन

क. जब भी कोई तरजीही शेयर जारी किए जाते हैं, जो कंपनी के विकल्प पर हैं, विमोचित किए जाने के अधीन हैं, निम्न प्रावधान प्रभावी होंगे :

- i. ऐसे किन्हीं शेयरों को कंपनी के लाभों जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होंगे, छोड़कर विमोचित नहीं किया जाएगा, अथवा विमोचन के प्रयोजन से किए गए शेयरों के नए निर्गम की आय से विमोचन किया जाएगा ।
- ii. ऐसे किसी शेयरों को तब तक विमोचित नहीं किया जाएगा जब तक की वे पूर्णतः चुकता न हों ।
- iii. विमोचन पर देय प्रीमियम, यदि कोई हो, का प्रावधान कंपनी के लाभों अथवा शेयरों को विमोचित करने से पहले कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते से किया जाना चाहिए ।
- iv. जहां ऐसे किन्हीं शेयरों को नए निर्गम की आय से अन्यथा विमोचित किया जाता है, वे लाभों से होंगे अन्यथा जो लाभांश के लिए उपलब्ध होता, को "पूँजी विमोचन प्रारक्षित खाता" कहे जाने वाली प्रारक्षित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए, विमोचित शेयरों के सांकेतिक मूल्य के बराबर राशि और कंपनी की शेयर पूँजी की कटौती से संबंधित अधिनियम के प्रावधान, अधिनियम की धारा 80 के तहत किए गए प्रावधान को छोड़कर लागू होंगे, मानो कि पूँजी विमोचन प्रारक्षित खाता कंपनी की चुकता शेयर पूँजी थी ।
- v. जब भी कंपनी विमोचन योग्य तरजीही शेयरों को विमोचित करती है तो अधिनियम की धारा 95 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।
- ख. अधिनियम की धारा 80 और इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अध्यक्षीन, आगे चलकर तरजीही शेयरों का विमोचन उनके निर्गम की शर्तों और निबंधनों अनुसार अथवा ऐसी शर्तों और निबंधन के अभाव में ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जैसाकि निदेशक उचित समझते हैं ।
- ग. जहां कंपनी ने कोई तरजीही शेयर विमोचित किए हैं अथवा विमोचित करने वाली है, तो इसके पास विमोचित शेयरों अथवा विमोचित किए जाने वाले शेयरों के सांकेतिक मूल्य तक शेयर जारी करने की शक्ति होगी मानो कि ये शेयर कभी जारी नहीं किए गए थे और तदनुसार, कंपनी की शेयर पूँजी अधिनियम की धारा 611 के तहत देय फीस परिकलित करने के प्रयोजन से इस खंड के अनुसरण में शेयरों के निर्गम द्वारा बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी, बशर्त कि नए शेयर, जहां तक स्टाम्प शुल्क का संबंध है, इस खंड के अनुसरण में जारी किए माने जाएंगे यदि पुराने शेयर नए शेयरों के निर्गम के पश्चात एक महीने में पुराने शेयर विमोचित नहीं किए जाते हैं ।
- घ. पूर्ण रूप से प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के शेयरधारकों को जारी किए जाने वाले जारी न किए गए शेयरों की अदायगी में कंपनी द्वारा पूँजी विमोचन प्रारक्षित खाते, इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, का प्रयोग किया जा सकता है ।

12. अधिकारों का परिवर्तन

शेयरों की किसी श्रेणी से सम्बद्ध अधिकारी (जब तक कि उस श्रेणी के शेयरों के निर्गम की शर्तों द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो), अधिनियम की धारा 106 और 107 के प्रावधानों के अध्यक्षीन उस श्रेणी के जारी शेयरों के तीन-चौथाई के अनधिक धारकों द्वारा लिखित में सहमति अथवा उस श्रेणी के जारी शेयरों के धारकों की एक अलग बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति से परिवर्तित किया जा सकता है और आम बैठक से संबंधित इन अनुच्छेदों के प्रावधान आवश्यक कोरम उस श्रेणी के जारी शेयरों का कम से कम एक-दहाई पर 2 (दो) व्यक्ति होगा ।

13. और समरूप शेयरों को जारी करना

तरजीह अथवा अन्य अधिकार से किसी अन्य वर्ग से जारी शेयरों के शेयरधारकों को प्रदान किए गए अधिकार, जब तक कि निर्गम की शर्तों द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, समरूप रैंकिंग के और शेयरों के सृजन द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे ।

14. कमीशन और दलाली

कंपनी अधिनियम की धारा 76 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कमीशन और /अथवा दलाली अदा कर सकती है ।

15. पूँजी से ब्याज का भुगतान

जहां कोई शेयर किसी कार्य अथवा भवन के निर्माण अथवा संयंत्र के प्रावधान के व्ययों को चुकाने के लिए धनराशि जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, जो किसी लंबी अवधि के लिए लाभप्रद नहीं बनाए जा सकते तो कंपनी उस शेयर पूँजी के जितना ब्याज अदा कर सकती है जैसाकि उस दर पर उस अवधि के लिए इस समय अदा किया जा रहा है और यह अधिनियम की धारा 208 द्वारा लगायी गई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा और इसे निर्माण अथवा भवन के निर्माण अथवा संयंत्र के प्रावधान के भाग के रूप में पूँजी पर भारित कर सकती है; लाभांशों से संबंधित अनुच्छेद, जहां संदर्भ अनुमति देता है, इस अनुच्छेद के तहत अदा किए गए ब्याज पर लागू होंगे ।

16. पूँजी की अदला-बदली

पूँजी की अदला-बदली और समेकन, विभाजन और रद्दकरण

कंपनी समय-समय विशेष प्रस्ताव द्वारा निम्नानुसार अपने जापन की शर्तों को बदल सकती है :

- क. शेयर पूँजी को ऐसी राशि तक बढ़ाना जैसा कि यह नए शेयर जारी करके समीचीन समझती है;
- ख. अपनी शेयर पूँजी के सभी अथवा किसी को इसके मौजूदा शेयरों की तुलना में बड़ी राशि के शेयरों ने समेकित अथवा विभाजित करके;
- ग. अपने पूर्णतः प्रदत्त सभी शेयरों को अथवा किसी को स्टॉक में बदल सकती है और उस स्टॉक को पुनः किसी मूल्यवर्ग के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में बदल सकती है;

- घ. अपने शेयरों अथवा उनमें से किसी को जापन द्वारा निश्चित राशि की तुलना में छोटी राशि के शेयरों में उप-विभाजित कर सकती है, तथापि इस प्रकार के उप-विभाजन में, चुकता राशि और राशि, यदि कोई हो, प्रत्येक पर अदत्त के बीच अनुपात वही रहेगा जैसाकि यह शेयरों के मामले में जिससे कम किया गया शेयर प्राप्त किया गया था और उसे ऐसे उप-विभाजन से प्राप्त एक अथवा अधिक शेयरों के बीच यह निर्धारित करेगी कि उनको लाभान्ना, पूंजी की आय अथवा अन्यों की तुलना में अथवा पर अन्यथा के संबंध में कुछ तरजीह अथवा विशेष लाभ मिलता है।
- ड. शेयरों को रद्द करना, जिन्हें इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने की तारीख को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया गया है अथवा लेने की सहमति नहीं दी गई है तब अपनी शेयर पूंजी की राशि को इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि तक कम करेगी।

17. पूंजी की कटौती

कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के पश्चात, किसी ढंग से और कानून द्वारा अपेक्षित किसी प्राधिकृत आपात और सहमति के अधीन, निम्न को कम करेगी :

- क. अपनी शेयर पूंजी;
ख. किसी पूंजी विमोचन प्रारक्षित खाते; अथवा
ग. किसी शेयर प्रीमियम खाते।

18. अपने स्वयं के शेयरों प्रतिक्रय

कंपनी अपने स्वयं के शेयरों की कंपनी अधिनियम, 1956 से प्रावधानों के अनुसार प्रतिक्रय कर सकती है।

18क. निदेशक के निपटान पर शेयर

अधिनियम की धारा 81 और इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन कंपनी की पूंजी में शेयर इस समय निदेशकों के नियंत्रण में रहेंगे, जो उन्हें अथवा उनमें से किसी को ऐसे व्यक्तियों, ऐसे अनुपात में और ऐसी शर्तों और निबंधनों और या तो प्रीमियम पर अथवा समूह्य पर अथवा (अधिनियम की धारा 79 के प्रावधान के अनुपालन के अधीन) बट्टे पर ऐसे समय पर जैसाकि वे समय-समय पर उचित समझते हैं जारी, आवंटित अथवा अन्यथा निपटान कर सकते हैं और कंपनी की पूंजी में पूर्ण भुगतान अथवा बेची गई किसी परिसम्पत्ति की मात्रा और इसके व्यवसाय को चलाने में कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए शेयर जारी और आवंटित कर सकते हैं और कोई शेयर जो ऐसे जारी किए जाते हैं पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में जारी कर सकते हैं और यदि इस प्रकार शेयर जारी किए जाते हैं उन्हें पूर्णतः प्रदत्त माना जाएगा बशर्ते कि शेयरों की काल के लिए आप्शन अथवा अधिकार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को आम बैठक में कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं दिया जाएगा।

19. शेयर और शेयरधारक

शेयरों के संयुक्तधारकों की देनदारी

शेयर अथवा शेयरों के संयुक्त धारक ऐसे शेयर अथवा शेयरों के संबंध में सभी किस्तों, कॉल, ब्याज, व्यय और अन्य देय राशियों के भुगतान के लिए अलग-अलग और संयुक्त रूप से देनदार होंगे।

पंजीकृत शेयरधारक स्वामी होंगे

सिवाए इसके कि इन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा प्रावधान किया गया हो, कंपनी को किसी शेयरों के पंजीकृत धारकों को उनके सम्पूर्ण स्वामी मानने का हक होगा और तदनुसार कंपनी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा यथा अपेक्षित विधान को छोड़कर, कंपनी पंजीकृत धारक में उसके समूचे को परम अधिकार को छोड़कर किसी शेयर में किसी अन्य अधिकार अथवा किसी शेयर में (केवल इन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर) किसी न्यायसंगत, आकस्मिक, भविष्य अथवा आंशिक ब्याज, ग्रहणाधिकार, गिरवी अथवा प्रभार द्वारा बद्ध अथवा मान्यता देगी।

नकद को छोड़कर शेयर जारी करना

- क. बोर्ड किसी परिसम्पत्ति, वस्तुओं, मशीनरी, उपकरणों, ट्रेड मार्क, सौदा मार्क, पेटेंटों, पेटेंट अधिकार, लाइसेंस, विशेषाधिकार, प्रोसेसों और गुप्त अथवा खरीदे गए व्यापार-में-स्टाक अथवा कम्पनी बनाने अथवा संवर्धन में कम्पनी को दी गई सेवाएं अथवा दी जाने वाली सेवाओं अथवा अधिग्रहण और/अथवा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए भुगतान अथवा आंशिक भुगतान के रूप में कम्पनी की पूंजी में शेयर जारी और आवंटित किए जाते हैं तो पूर्णतः प्रदत्त माने जाएंगे, और यदि ऐसे आवंटित किए जाते हैं तो पूर्णतः प्रदत्त किए गए शेयर माने जाएंगे।

- ख. समय-समय किए गए सभी आबंटनों के संबंध में बोर्ड अधिनियम की धारा 75 का यथोचित रूप से अनुपालन करेगा।

शेयरों की स्वीकृति

कंपनी में शेयर के लिए किसी आवेदक द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया आवेदन तथा उसमें किसी शेयर का आबंटन इन अनुच्छेदों के अर्थ के अंदर शेयर की स्वीकृति होगी; तथा ऐसा हर व्यक्ति जो इस प्रकार या अन्यथा कोई शेयर स्वीकार करता है तथा जिसका नाम रजिस्टर में है, इन अनुच्छेदों के प्रयोजनार्थ कंपनी का सदस्य होगा।

⁹ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा जोड़ा गया

प्रमाणपत्र का अधिकार

- क. ¹⁰प्रत्येक सदस्य बिना भुगतान के एक या अधिक शेयर प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) का पात्र होगा जो उसके नाम में पंजीकृत मूल्यवर्ग की प्रत्येक श्रेणी के सभी शेयरों, चाहे इक्विटी या तरजीही, के लिए विक्रय लाट में जारी किए जाएंगे, या यदि निदेशक अनेक प्रमाणपत्रों के लिए (ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है। ऐसे शेयरों के अथवा अधिक के प्रत्येक के लिए इस प्रकार अनुमोदित करते हैं, और जहां प्रमाणपत्र मार्केट लाट को छोड़कर लाट में जारी किए जाते हैं, मार्केट लाट में शेयर प्रमाण पत्रों का उप-विभाजन या समेकन मुफ्त किया जाएगा।
- ख. ¹¹कंपनी आवंटन की तारीख से तीन (3) माह के अंदर, जब तक कि उसके निर्गम की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, और/या किसी शेयर या ऋणपत्र के हस्तांतरण, पारिषण, उप-विभाजन, समेकन या नवीकरण, जैसा भी मामला हो, के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक (1) माह के अंदर, जब तक कि उसके निर्गम की शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, इस प्रकार आवंटित एवं हस्तांतरित या पारिषित सभी शेयरों और ऋणपत्रों का प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।
- ग. ¹²प्रत्येक प्रमाणपत्र में उन शेयरों की संख्या एवं विशिष्ट संख्याएं विनिर्दिष्ट होंगी जिनके संबंध में यह जारी किया जाता है तथा उस पर राशि का भुगतान किया जाता है और यह ऐसे रूप में होगा जैसा निदेशक निर्धारित या अनुमोदित करें।
- घ. उपर्युक्त खंड (ख) एवं (ग) के प्रावधान आबंटित या हस्तांतरित डिबेंचरों एवं डिबेंचर स्टॉक पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- ड. विद्यमान शेयर प्रमाणपत्रों के उप विभाजन के लिए और/या जिन शेयर प्रमाणपत्रों के पीछे किसी प्रोबेट, प्रशासन पत्र, उत्तराधिकार पत्र के स्थानांतरण या पंजीकरण या किसी पॉवर आफ अटॉर्नी, साझेदारी विलेख, कंपनी के ज़ापन एवं अनुच्छेदों या समान दस्तावेजों के पंजीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान नहीं बचा है उनके बदले में अनेक शेयर प्रमाणपत्रों के समेकन के लिए एक नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

संयुक्त धारकों के लिए एक प्रमाणपत्र

- ¹³ किसी शेयर के कोई दो या अधिक संयुक्त आवंटियों को, इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, एक एकल सदस्य माना जाएगा, और किसी शेयर का प्रमाणपत्र, जो संयुक्त स्वामित्व के अधीन हो सकता है उन सभी की ओर से ऐसे संयुक्त स्वामियों में से किसी एक को सुपुर्द किया जाएगा।

प्रमाणपत्र का प्रतिस्थापन एवं नवीकरण

- क. यदि कोई प्रमाणपत्र कट-फट जाता है, विकृत हो जाता है या यदि पृष्ठांकन या हस्तांतरण के लिए उसके पृष्ठ भाग पर जगह नहीं रह जाती है, तो अर्पणित होने पर उसे मुफ्त में एक नए प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नया प्रमाणपत्र केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब कटे-फटे या विकृत हो गए या इस्तेमाल हो चुके प्रमाणपत्र को निरसन के प्रयोजनार्थ वापस किया जाएगा।
- ख. यदि कोई प्रमाणपत्र गुम हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो कंपनी ऐसी गुमशुदगी या विध्वंश के ऐसे साक्ष्य एवं प्रमाण पर क्षतिपूर्ति या अन्यथा के संबंध में ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिनकी बोर्ड अपेक्षा कर सकता है और एक रूप के शुल्क या ऐसी छोटी राशि के भुगतान पर जिसे बोर्ड निर्धारित कर सकता है, एक नया प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
- ग. किसी नवीकृत प्रमाणपत्र को इस रूप में चिह्नित किया जाएगा। बशर्त कि ऊपर जो भी कहा गया है उसके वाबजूद, निदेशक किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे नियमों या विनियमों या अपेक्षाओं अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या इस संबंध में लागू नियमों का पालन करेंगे। इस अनुच्छेद के प्रावधान कंपनी के डिबेंचरों पर आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे।

शेयर प्रमाणपत्रों का विखंडन एवं समेकन

ऐसा कोई भी व्यक्ति (शेयरों का पंजीकृत धारक हो या न हो) जिसके कब्जे में उस समय कोई शेयर प्रमाणपत्र कानूनी तौर पर है, कंपनी को शेयर प्रमाणपत्र प्रत्यर्पित कर सकता है तथा इस प्रकार एक प्रमाणपत्र में प्रत्यर्पित प्रमाणपत्र के बदले में निरसन से उक्त प्रमाणपत्र में शामिल उन्हीं विशिष्ट नंबरों वाले उन्हीं शेयरों से युक्त तथा अपनी इच्छा के अनुसार अलग लॉट में दो या इससे अधिक नए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन कर सकता है तथा निदेशक अपने विवेक के अनुसार इस प्रकार प्रत्यर्पित प्रमाणपत्र के बदले में निरसन में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में यथास्थिति एक या अधिक ऐसे शेयर प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं जिसके नाम में मूल प्रमाणपत्र होगा तथा इस प्रकार जारी किया नया प्रमाणपत्र उस व्यक्ति को या उसके आर्डर को सुपुर्द किया जाएगा जिसने मूल प्रमाणपत्र प्रत्यर्पित किया है। ऐसे नए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

¹⁰ 30 सितम्बर, 2010 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित, इससे पूर्व यह 13 जनवरी, 2006 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

¹¹ 30 सितम्बर, 2010 को आयोजित एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित, इससे पूर्व यह 13 जनवरी, 2006 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

¹² 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

¹³ 30 सितम्बर 2006 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

प्रमाणपत्र जारी करना

प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र कंपनी की सामान्य मोहर से तथा कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र का निर्गम) नियमावली, 1960 के प्रावधानों या उस समय प्रभावी उसमें किसी संशोधन के अनुसरण में जारी किया जाएगा।

प्रतिभूतियों का डिमैटोरियाइजेशन:**20. ग्रहणाधिकार (लियन)****शेयरों पर कंपनी का ग्रहणाधिकार**

¹⁴ कंपनी को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से किसी सदस्य के नाम में पंजीकृत पूर्णतः संदत्त शेयरों से भिन्न सभी शेयरों पर, तथा ऐसे शेयरों/डिबेंचरों के संबंध में नियत समय पर मांगे गए या संदेय (इस समय संदेय हो या न हो) तथा कंपनी/एक्सचेंज/नामोदिष्ट क्लीयरिंग हाउस को या उसके साथ अकेले या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से सभी ऋणों, देयताओं, भागीदारियों एवं दायित्वों के लिए उसकी बिक्री से आय पर कंपनी को पहला एवं सर्वोपरि ग्रहणाधिकार होगा तथा किसी शेयर में किसी साम्यपूर्ण ब्याज का सृजन नहीं होगा,

केवल इस आधार एवं शर्त को छोड़कर कि इस अनुच्छेद का पूर्ण प्रभाव होगा, तथा ऐसा ग्रहणाधिकार ऐसे शेयरों/डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों एवं बोनस पर भी ऐसा ग्रहणाधिकार लागू होगा। जब तक अन्यथा सहमति न हो, शेयरों/डिबेंचरों के हस्तांतरण का पंजीकरण ऐसे शेयरों या डिबेंचरों पर कंपनी के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, की छूट के रूप में प्रचालन करेगा तथा ऐसा ग्रहणाधिकार ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों पर लागू होगा।

परंतु बोर्ड किसी भी समय घोषित कर सकता है कि किसी शेयर को इस अनुच्छेद के प्रावधानों से पूर्णतः या अंशतः छूट प्राप्त है।

बिक्री द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन

ऐसे ग्रहणाधिकार के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ, बोर्ड ऐसे ढंग से शेयर बेच सकता है जो उसकी राय में उपयुक्त हो परंतु लिखित में नोटिस के बाद चौदह (14) दिन बीते बगैर कोई बिक्री नहीं की जाएगी। नोटिस में ऐसी राशि के भुगतान का उल्लेख एवं मांग होगा जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार मौजूद है। यह नोटिस उस समय शेयरों के पंजीकृत धारक को या मृत्यु अथवा दिवालियापन के कारण शेयरों के हकदार व्यक्ति को दिया जाता है।

ग्रहणाधिकार के प्रयोग पर तथा जब्ती के बाद बिक्री की वैधता

यहां आगे दिए गए अधिकारों का आशयित प्रयोग करते हुए जब्ती के बाद या ग्रहणाधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी बिक्री पर, बेचे गए शेयरों के हस्तांतरण का कोई लिखित निष्पादन करने एवं बेचे गए शेयरों के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में क्रेता का नाम डलवाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है तथा क्रेता क्रय धन के प्रयोग को देखने के लिए बाध्य नहीं होगा, तथा ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो जाने के बाद, किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री की वैधता को चुनौती नहीं दी जाएगी, तथा बिक्री से व्ययित किसी व्यक्ति का निदान केवल क्षति में तथा अनन्य रूप से कंपनी के विरुद्ध होगा।

बिक्री की आय का अनुप्रयोग

किसी ऐसी बिक्री की निवल आय का अनुप्रयोग उक्त धन की संतुष्टि में या इस प्रयोजनार्थ किया जाएगा तथा अधिशेष, यदि कोई हो, कंपनी के पास किसी शर्त के बिना पड़ा रहेगा।

21. शेयरों पर आह्वान**आह्वान**

- क. कंपनी अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड समय-समय पर क्रमशः सदस्यों द्वारा धारित उसके आबंटन की शर्तों के अंतर्गत नियत समय पर संदेय न बनाए गए शेयरों पर असंदत्त सभी धन के संबंध में (चाहे शेयरों के मामूली मूल्य के कारण या प्रीमियम के रूप में) तथा कंपनी के सदस्यों पर ऐसे आह्वान कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।
- ख. आह्वान को किस्ती में संदेय बनाया जा सकता है।
- ग. प्रत्येक सदस्य बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति को तथा समय एवं स्थान पर उस पर किए गए प्रत्येक आह्वान की राशि का भुगतान करेगा।
- घ. बोर्ड के विवेक से किसी आह्वान को निरस्त या स्थगित किया जा सकता है।
- ड. ¹⁵ शेयर का आह्वान करने का विकल्प या अधिकार (सामान्य बैठक में जारीकर्ता की संस्वीकृति को छोड़कर) किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

जब समझा जाएगा कि मांग की गई है

संकल्प द्वारा मांग करते समय बोर्ड वह तिथि निर्धारित कर सकता है जिसको ऐसी मांग को किया गया समझा जाएगा जो ऐसी मांग करने वाले संकल्प की तिथि से पूर्व की तिथि नहीं होगी तथा इसके बाद इस प्रकार निर्धारित तिथि को मांग को किया गया समझा जाएगा तथा यदि पूर्वोक्तानुसार कोई तिथि नियत नहीं होगी, तो ऐसी तिथि को मांग को किया गया समझा जाएगा जिसको बोर्ड का मांग करने वाला संकल्प पारित होता है।

¹⁴ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

¹⁵ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

मांग के नोटिस की अवधि

भुगतान के समय एवं स्थान तथा जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उसे विनिर्दिष्ट करते हुए किसी मांग के लिए कम से कम चौदह (14) दिन का नोटिस दिया जाएगा, परंतु बोर्ड कंपनी के सदस्यों को लिखित में नोटिस के माध्यम से इसके भुगतान की अवधि बढ़ा सकता है।

डीमड मांग के लिए नियत समय पर संदेय देय

यदि किसी शेयर के निर्गम की शर्तों या अन्यथा द्वारा आबंटन पर किसी नियत समय पर किस्तों के माध्यम से शेयरों के मामूली मूल्य के कारण या प्रीमियम के रूप में कोई राशि संदेय बनाई जाती है, तो प्रत्येक ऐसी राशि या किस्त इस तरह संदेय होगी जैसे कि यह बोर्ड द्वारा की गई विधिवत मांग हो तथा जिसका उचित नोटिस दिया गया है, तथा मांग के संबंध में इसमें निहित सभी प्रावधान तदनुसार प्रत्येक ऐसी राशि या किस्त से संबंधित होंगे तथा उस पर लागू होंगे।

जब मांगों पर ब्याज देय हो

यदि शेयरों के संबंध में मांगी गई राशि उसके भुगतान के लिए निर्धारित दिन पर अथवा उससे पूर्व भुगतान नहीं किया गया तो राशि के लिए दातव्य व्यक्ति उस राशि पर भुगतान के लिए निर्धारित दिन से बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो पन्द्रह प्रतिशत (15%) प्रति वर्ष से अनधिक होगा, किन्तु बोर्ड उस ब्याज को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से माफ करने के लिए स्वतंत्र होगा।

नियत समय पर देय भुगतान को मांगों के रूप में मानना

इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में ब्याज का भुगतान करना लागू होगा जो शेयरों के जारी करने के शर्तों के अनुसार या तो शेयरों की राशि में अथवा प्रीमियम के द्वारा आबंटन अथवा नियत समय पर देय हो जाता है माना वह विधिवत किए गए और अधिसूचित मांग की निष्पत्ति द्वारा देय हों।

¹⁶ मांगों का अग्रिम में भुगतान

यदि बोर्ड उचित समझे और अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अधीन धन अथवा धन के मूल्य में उसे अग्रिम देने के इच्छुक किसी सदस्य से उसके द्वारा धारित शेयरों पर गैर मांग तथा अदत्त धन का पूर्व अथवा कोई अंश प्राप्त कर सकता है और ऐसे अग्रिम धन का पूर्ण अथवा कोई अंश (जब तक कि ऐसा अग्रिम वर्तमान में देय होगा) आम बैठक में कंपनी की स्वीकृति के बिना बारह प्रतिशत (12%) प्रतिवर्ष से अनधिक ब्याज दर पर अग्रिम में राशि का भुगतान करने वाले शेयरधारक तथा बोर्ड के मध्य सहमति के अनुसार भुगतान कर सकता है किन्तु यह लाभांश अथवा लाभ में भागीदारी का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। ऐसा अग्रिम भुगतान करने वाले सदस्य ऐसे अग्रिम के संबंध में मताधिकार के हकदार नहीं होंगे जब तक ऐसा भुगतान वर्तमान के लिए देय हों।

इन अनुच्छेदों के प्रावधान कंपनी के ऋणपत्रों पर मांगों के लिए यथा परिवर्तित रूप में लागू होंगे।

आंशिक भुगतान जब्ती में व्यवधान नहीं डालेगा

किसी शेयर के संबंध में मांगों अथवा देय अन्य धनों के लिए कंपनी के पक्ष में न तो किसी फैसले न ही किसी निर्णय न ही उसमें कोई आंशिक भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति न ही मूलधन अथवा ब्याज के रूप में किसी शेयर के संबंध में सदस्यों से समय-समय पर देय किसी धन के भाग की कंपनी द्वारा प्राप्ति न ही ऐसे धन के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा प्रदान किया गया कोई अदायगी स्थगन इसके आगे प्रदत्त के अनुसार ऐसे शेयरों की जब्ती लागू करने हेतु तदनुसार प्रक्रिया से कंपनी को प्रतिबाधित करेगा।

22. शेयरों का हस्तांतरण तथा संप्रेषण**हस्तांतरण का लिखत**

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, उससे निर्धारित नियमों तथा इन अनुच्छेदों के अधीन कंपनी में शेयरों को निर्धारित प्रपत्र में लिखित एक लिखत तथा विधिवत स्टांप लगाकर हस्तांतरित किया जाएगा।

हस्तांतरण

- क. कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण का लिखत हस्तांतरक और हस्तांतरिती दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा हस्तांतरक को शेयरों का धारक माना जाएगा जब तक कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में इस संबंध में हस्तांतरिती का नाम दर्ज नहीं किया जाता।
- ख. बोर्ड शेयरों का कोई हस्तांतरण पंजीकृत नहीं करेगा जब तक कि शेयर प्रमाणपत्र अथवा आबंटन पत्र, जैसा भी मामला हो, तथा ऐसे अन्य साक्ष्य जो हस्तांतरक के हक अथवा शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रमाणित करने हेतु कंपनी के लिए आवश्यक है, के साथ हस्तांतरक एवं हस्तांतरिती द्वारा निष्पादित तथा विधिवत प्रमाणित हस्तांतरण का एक उचित लिखत कंपनी को सुपुर्द नहीं किया जाता। परन्तु यदि बोर्ड की संतुष्टि की सीमा तक यह प्रमाणित हो जाता है कि हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती द्वारा हस्ताक्षरित हस्तांतरण लिखत गुम हो गया है तो कंपनी, यदि बोर्ड उचित समझे, हस्तांतरण के लिखत के लिए अपेक्षित स्टांप सहित हस्तांतरिती द्वारा लिखित आवेदन पर हस्तांतरण, क्षतिपूर्ति की ऐसी शर्तों पर पंजीकृत कर सकता है जिसे बोर्ड उचित महसूस करता है।
- ग. किसी शेयर के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन हस्तांतरक अथवा हस्तांतरिती द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि, जहां ऐसा आवेदन हस्तांतरक द्वारा किया जाता है तो आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के किसी मामले में कोई पंजीकरण प्रभावित नहीं होगा जब तक कि कंपनी हस्तांतरिती को आवेदन का नोटिस नहीं देती है और हस्तांतरिती नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर अनापत्ति नहीं देता है।

¹⁶ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

- घ. उप-खंड (ग) के प्रयोजनार्थ हस्तांतरिती को नोटिस दिया गया माना जाएगा यदि हस्तांतरिती को हस्तांतरण के लिखत में दिए गए पते पर पूर्वदत्त डाक द्वारा भेजा गया हो तथा डाक के सामान्य समय में सुपुर्दगी के लिए लगने वाले समय पर सुपुर्द माना जाएगा।
- ड. उप-खंड (घ) में कुछ भी, किसी व्यक्ति, जिसे कानून के प्रचालन द्वारा किसी शेयर का अधिकार दिया गया है, को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत करने हेतु बोर्ड के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- च. इस अनुच्छेद में कुछ भी, अधिनियम के प्रावधानों अथवा इन अनुच्छेदों के अंतर्गत किसी हस्तांतरिती, चाहे सदस्य हो अथवा नहीं, को किसी शेयर के हस्तांतरण के पंजीकरण हेतु नकारने के बोर्ड के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

¹⁷बोर्ड का हस्तांतरण को नकारने का अधिकार

अधिनियम की धारा 111 तथा प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 22क के प्रावधानों के अधीन निदेशक अपनी स्वयं की परम एवं अनियंत्रित विवेक से तथा कारण बताने द्वारा शेयरों के किसी हस्तांतरण को पंजीकृत अथवा स्वीकार करने से इंकार कर सकते हैं, चाहे उनका पूर्ण भ्रुगतान किया गया हो अथवा नहीं, और अस्वीकार का अधिकार उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा कि प्रस्तावित हस्तांतरिती कंपनी का पहले से ही एक शेयर धारक है, किन्तु ऐसे मामलों में, निदेशक, कंपनी में हस्तांतरण के लिखत को जमा करने की तारीख से एक माह के भीतर हस्तांतरिती तथा हस्तांतरक को ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण का अस्वीकरण नोटिस भेजेंगे, बशर्त कि, जहां शेयरों में कंपनी का ग्रहणाधिकार है, उसे छोड़कर हस्तांतरण का पंजीकरण इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि हस्तांतरक अकेले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह से कंपनी का ऋणी है। शेयर/ऋणपत्र, चाहे किसी भी लॉट में हो, उनका हस्तांतरण अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण नकारने का निदेशक मंडल का अतिरिक्त अधिकार

बोर्ड हस्तांतरण के किसी लिखत को मान्यता देने से भी इंकार कर सकता है जब:

- क. हस्तांतरण का लिखत, शेयरों के प्रमाणपत्र, जिससे यह संबंधित है, के साथ संलग्न न हो तथा ऐसे अन्य साक्ष्य जो हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरक के अधिकार को दर्शाने हेतु बोर्ड के लिए यथोचित रूप से अपेक्षित हैं; तथा
- ख. हस्तांतरण का लिखत शेयरों की केवल एक श्रेणी के लिए न हो।

हस्तांतरणों में अनुमोदन तथा प्रमाणपत्र जारी करना

हस्तांतरिती के पक्ष में किसी शेयर पर प्रत्येक अनुमोदन पर बोर्ड की ओर से अस्थाई तौर पर विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। यदि कोई शेयर हस्तांतरिती, पुराने अथवा विद्यमान प्रमाणपत्र के बदले में नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है तो वह, उसके द्वारा पुराने या विद्यमान प्रमाणपत्र जिसे नए प्रमाणपत्र द्वारा बदला जाना है, की सुपुर्दगी पर नया प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।

हस्तांतरण शुल्क

इन प्रावधानों में शामिल किसी बात के होते हुए किसी अन्य प्रावधानों के प्रतिकूल निम्नलिखित में से किसी के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं होगा:

- क. शेयरों अथवा ऋणपत्रों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए, या शेयरों अथवा ऋणपत्रों के संप्रेषण के लिए;
- ख. शेयर और ऋणपत्र प्रमाणपत्रों तथा आबंटन पत्रों के उप-विभाजन तथा समेकन के लिए, व्यापार की मार्केट इकाइयों के अनुरूप मूल्यवर्गों में विभाजन, समेकन तथा नवीकरण के लिए;
- ग. परित्याग योग्य अधिकार पत्र के उप-विभाजन के लिए;
- घ. पुराने, क्षीण अथवा कटे फटे हुए अथवा जहां हस्तांतरण रिकार्ड करने के लिए पृष्ठों का पिछला भाग पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है, उन प्रमाणपत्रों के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए; तथा
- ड. किसी मुख्तारनामे, प्रशासन पत्र अथवा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु।

सदस्यों का रजिस्टर

कंपनी एक बुक रखेगा जिसे "सदस्यों का रजिस्टर" कहा जाएगा और उसमें सभी शेयरों के प्रत्येक हस्तांतरण अथवा संप्रेषण का ब्यौरा अंकित किया जाएगा और कंपनी अधिनियम में यथा अपेक्षित शेयरों का विवरण ऐसे रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।

सदस्यों के रजिस्टर को बंद करना

बोर्ड कंपनी अधिनियम में यथा अपेक्षित विज्ञापन द्वारा सात (7) दिनों का पूर्व नोटिस देने के पश्चात सदस्यों का रजिस्टर अथवा प्रत्येक वर्ष में औसतन पैंतालीस (45) दिनों से अनधिक किन्तु किसी एक समय में तीस (30) दिनों से अनधिक किसी अवधि के लिए ऋणपत्र धारकों का रजिस्टर बंद रखेगा।

शेयरधारकों की मृत्यु होने पर शेयरों का अधिकार

- क. किसी शेयरधारक की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी अथवा शेयरधारक के संयुक्त-धारक होने की स्थिति में उत्तरजीवियों, तथा उसके कानूनी प्रतिनिधि, जहां वह अकेला धारक है, शेयरों में उसके हित के लिए हकदार के रूप में कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त व्यक्ति होगा।
- ख. उप-खंड (क) में कुछ भी, किसी शेयरों के संबंध में किसी दायित्व से किसी मृतक संयुक्त-धारक की सम्पदा जारी नहीं करेगा जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित था।

¹⁷ 13 जनवरी, 2006 को ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

कानूनी प्रतिनिधि के अधिकार एवं दायित्व

- क. सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालियापन के परिणामस्वरूप शेयर का हकदार होने वाला कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर और इसके आगे प्रदत्त के अनुसार किसी एक का चयन करेगा:
- स्वयं को शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत करना; अथवा
 - शेयरों का इस प्रकार हस्तांतरण करना जैसा कि मृतक अथवा दिवालिया व्यक्ति कर सकता था।
- ख. बोर्ड को दोनों मामलों में पंजीकरण अस्वीकार या निलंबित करने का वही अधिकार है, जो मृतक अथवा दिवालिया सदस्य द्वारा उसकी मृत्यु अथवा दिवालियापन से पूर्व शेयर हस्तांतरित करने पर होता।
- ग. यदि हकदार व्यक्ति स्वयं को शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत करने का चुनाव करता है, वह कंपनी को अपने चुनाव के बारे में लिखित नोटिस देगा।
- घ. यदि पूर्वोक्त व्यक्ति शेयरों के हस्तांतरण का चुनाव करता है, वह शेयरों के हस्तांतरण का निष्पादन करके अपने चुनाव को प्रमाणित करेगा।
- ड. शेयरों के हस्तांतरण का अधिकार तथा हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन विनियमनों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध तथा प्रावधान पूर्वोक्त के अनुसार किसी ऐसे नोटिस अथवा हस्तांतरण पर लागू होगा, मानों सदस्य की मृत्यु नहीं हुई है अथवा वह दिवालिया नहीं हुआ हो और हस्तांतरण का नोटिस एक हस्तांतरण हो जो सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो।

23. अधिकारों का हस्तांतरण**शेयर धारक की मृत्यु होने पर हस्तांतरण**

कोई व्यक्ति शेयर धारक की मृत्यु अथवा दिवालियापन के कारण शेयर का हकदार होने पर, वह शेयर के संबंध में सदस्य के रूप में पंजीकृत होने से पूर्व कंपनी की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग के संबंध में हक को छोड़कर उसी लाभांशों तथा अन्य लाभों का हकदार होगा जिसका वह शेयर का पंजीकृत धारक होने पर हकदार होता;

बशर्ते कि, बोर्ड किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को स्वयं को पंजीकृत करने अथवा शेयर के हस्तांतरण के चुनाव के लिए नोटिस दे सकता है और यदि नोटिस का अनुपालन नब्बे (90) दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, बोर्ड उसके पश्चात नोटिस में की गई अपेक्षाओं के अनुपालन होने तक सभी लाभांश, बोनस तथा शेयरों के संबंध में देय अन्य धन के भुगतान पर रोक लगा सकता है।

कंपनी का एक प्रत्यक्ष कानूनी स्वामी को हस्तांतरण का अधिकार

किसी प्रत्यक्ष कानूनी स्वामी (शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्शाए अथवा प्रतीत होने के अनुसार) द्वारा किए गए अथवा किए जाने के उद्देश्य से इसके पंजीकरण अथवा शेयरों के किसी हस्तांतरण को लागू करने के मामलों में उसमें अथवा उन्हीं शेयरों में न्यायसंगत अधिकार, हक अथवा हित वाले या दावा करने वाले व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप न तो कंपनी न ही निदेशकों का कोई दायित्व अथवा उत्तरदायित्व होगा।

इसके बावजूद कि कंपनी या निदेशक ऐसे न्यायसंगत अधिकार, हक अथवा हित से अवगत हो और ऐसे हस्तांतरण का पंजीकरण निषेध किया गया हो तथा उसमें उल्लिखित नोटिस को कंपनी की किसी बुक में अंकित किया गया हो, कंपनी या निदेशक किसी न्यायसंगत अधिकार, हक अथवा हित के लिए इसे दिए गए किसी नोटिस को स्वीकार करने अथवा मानने या ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होंगे अथवा अस्वीकार या उपेक्षा के लिए किसी दायित्व के अधीन नहीं होंगे, यद्यपि यह कंपनी में अंकित या उल्लिखित हो सकता है, किन्तु यदि बोर्ड उपयुक्त समझता है तो कंपनी फिर भी उसको मानने, ध्यान देने या लागू करने के लिए स्वतंत्र होगी।

शेयरधारकों के लिए नामांकन सुविधा

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों को व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार होगा जिनमें शेयरों के धारकों/सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु होने पर शेयरधारक के सभी अधिकार न्यायगत होंगे।

24. शेयरों की जब्ती**यदि मांग अथवा किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो नोटिस दिया जाना**

यदि कोई सदस्य किसी मांग या मांग की किस्त अथवा उस पर ब्याज, उसके भुगतान के लिए नियत दिन अथवा उससे पूर्व भुगतान करने में असफल रहता है, बोर्ड उसके बाद किसी भी समय, उस समय के दौरान जब मांग या किस्त अथवा ब्याज अदत्त रहता है, ऐसे सदस्य को एक नोटिस भेजता है जिसमें उससे पन्द्रह प्रतिशत (15%) प्रतिवर्ष की दर पर अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य दरों पर ब्याज और इस प्रकार की गैर अदायगी के कारण कंपनी द्वारा वहन किए गए सभी खर्चों सहित उसके भुगतान की अपेक्षा की जाती है।

नोटिस का प्रकार

पूर्वोक्त नोटिस एक अगला दिन नियुक्त करेगा जो नोटिस भेजने की तारीख से चौदह (14) दिनों की समाप्ति से पूर्व नहीं होगा, नोटिस द्वारा अपेक्षित भुगतान के दिन अथवा उससे पूर्व, और व्यक्त करेगा कि नियत समय पर अथवा उससे पूर्व गैर अदायगी की स्थिति में, शेयर जिसके संबंध में उक्त देय है, जब्ती के लिए संभावनीय होगा।

नोटिस के अनुपालन में असफल होने पर जब्ती

यदि ऐसे किसी पूर्व उल्लिखित नोटिस की मांगों का अनुपालन नहीं किया जाता, उसके बाद किसी समय नोटिस द्वारा किए गए भुगतान की मांग से पूर्व इस अभिप्राय के लिए बोर्ड के एक प्रस्ताव द्वारा कोई शेयर जिसके संबंध में नोटिस दिया गया है, जब्त किया जा सकता है और इस प्रकार की जब्ती में जब्त किए शेयरों के संबंध में घोषित और वास्तविक रूप से जब्ती से पूर्व भुगतान नहीं किए गए सभी लाभांश शामिल हैं।

जब्त किए गए शेयरों के निपटान अथवा निरसन के लिए बोर्ड का अधिकार

किसी जब्त अथवा अभ्यर्पित शेयर को कंपनी की सम्पत्ति माना जाएगा और उसे बोर्ड के मतानुसार उपयुक्त शर्तों के अनुसार बेचा अथवा निपटाया जा सकता है, किन्तु विक्रय अथवा व्यवस्था से पूर्व किसी भी समय जब्ती को बोर्ड की शर्तों के अनुरूप निरस्त किया जा सकता है।

जब्ती के पश्चात दायित्व

कोई व्यक्ति, जिसका शेयर जब्त किया गया है, जब्त किए गए शेयरों के संबंध में सदस्य नहीं होगा किन्तु ऐसी जब्ती के बावजूद भुगतान के लिए उत्तदायी रहेगा और पन्द्रह प्रतिशत (15%) प्रति वर्ष के ब्याज सहित शेयरों के संबंध में जब्ती की तारीख को कंपनी को देय सभी धन तत्काल कंपनी को भुगतान करेगा, चाहे ऐसा दावा जब्ती की तारीख को किसी सीमा द्वारा प्रतिबंधित हो अथवा नहीं; किन्तु उसका दायित्व तब समाप्त हो जाएगा जैसे ही कंपनी समस्त देय धन का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लेता है। बोर्ड उचित समझे तो ऐसे ब्याज अथवा उसके किसी अंश के भुगतान को माफ कर सकता है।

जब्ती की घोषणा

लिखित में एक विधिवत सत्यापित घोषणा कि घोषणाकर्त्ता कंपनी का एक निदेशक है और घोषणा में उल्लिखित तारीख को कंपनी में कोई शेयर विधिवत रूप से जब्त किया गया है, शेयर का हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ उसमें उल्लिखित तथ्यों का निर्णायक साक्ष्य होगा तथा क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी की घोषणा तथा प्राप्ति, जो शेयरों के विक्रय अथवा निपटान के लिए दिया गया है, यदि कोई हो, शेयर के लिए एक अच्छी छवि पेश करेगा और जिस व्यक्ति को शेयर बेचा अथवा निपटाया जाएगा, को तदनन्तर शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा खरीद धन यदि कोई हो, के आवेदन को देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा, न ही शेयर की जब्ती, विक्रय या निपटान के संदर्भ में प्रक्रिया में किसी अनियमितता अथवा अमान्यता द्वारा शेयरों पर उसका हक प्रभावित होगा।

तय समय पर देय भुगतान की गैर- अदायगी

इन विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार किसी धनराशि की गैर अदायगी के मामले में जब्ती लागू होगी, जो किसी शेयर को जारी करने की शर्तों के अनुसार तय समय पर देय होगा चाहे शेयर की राशि के लिए अथवा प्रीमियम के लिए या दूसरे प्रकार से यदि वह विधिवत तथा अधिसूचित किसी मांग की निष्पत्ति द्वारा देय हो।

25. शेयरधारक को देय धन को प्रवृत्त करना

किसी शेयरधारक को कंपनी की ओर से देय किसी धन को शेयरधारक की सहमति के बिना मांगों अथवा अन्य बातों के संबंध में उसके द्वारा अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय किसी धन के भुगतान के लिए कंपनी द्वारा विनियोजित किया जा सकता है।

26. शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन

शेयरों का स्टॉक में परिवर्तन तथा पुनः परिवर्तन

कंपनी किसी सामान्य प्रस्ताव से निम्नलिखित कर सकती है:

क. किसी प्रदत्त शेयर को स्टॉक में बदलना; तथा

ख. किसी स्टॉक को किसी भी मूल्य के प्रदत्त शेयरों में पुनः परिवर्तन।

स्टॉक का हस्तांतरण

स्टॉक के धारक स्टॉक अथवा उसके किसी अंश अथवा परिस्थितियों के अनुसार उसके निकटतम भाग जिसके अंतर्गत शेयर से स्टॉक अस्तित्व में आया है, को उसी तरीके से तथा उसी विनियमन के अधीन हस्तांतरित कर सकता है जैसे परिवर्तन से पूर्व हस्तांतरित किया जा सकता था किन्तु बोर्ड समय-समय पर हस्तांतरण योग्य स्टॉक की न्यूनतम राशि तय कर सकता है और स्टॉक के हिस्से के हस्तांतरण को सीमित या निषिद्ध कर सकता है अथवा ऐसी न्यूनतम राशि, उस शेयर जिससे स्टॉक उत्पन्न हुआ है, की सामान्य राशि से अधिक नहीं होगा।

स्टॉकधारकों के अधिकार

स्टॉक के धारक, उनके द्वारा धारित स्टॉक की राशि के अनुसार, को वही अधिकार, सुविधाएं तथा लाभ प्राप्त हैं जो कि अधिनियम की धारा 96 द्वारा प्रदत्त हैं।

स्टॉक धारकों के विनियमन की अनुप्रयोज्यता

इन प्रस्तुतियों में शामिल विनियमन, शेयर समाश्वासन से संबंधित विनियमनों को छोड़कर, जो कि प्रदत्त शेयरों पर लागू हैं स्टॉक पर भी लागू होंगे और इन प्रस्तुतियों में 'शेयर' तथा 'शेयरधारक' शब्दों में क्रमशः 'स्टॉक' और 'स्टॉकधारक' शामिल होंगे।

27. आम बैठकें

वार्षिक आम बैठक

किसी अन्य बैठकों के अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 166(1) में निर्धारित समयांतराल के भीतर तथा कंपनी अधिनियम की धारा 166(2) के प्रावधानों के अधीन बोर्ड द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान में कंपनी की वार्षिक आय बैठक आयोजित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक आम बैठक को 'वार्षिक आम बैठक' कहा जाएगा और बैठक के आयोजन की सूचना में ऐसा उल्लेख किया जाएगा।

असाधारण आम बैठक

असाधारण आम बैठक या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन बोर्ड के मतानुसार उपयुक्त सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जा सकती है।

असाधारण आम बैठक बुलाने का अधिकार

बोर्ड जब भी चाहे और कंपनी अधिनियम की धारा 169 की अनुरूपता में सदस्यों की मांग पर एक असाधारण आम बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अधियाचक, बोर्ड द्वारा बैठक के आयोजन में कर्तव्य की उपेक्षा करने पर कंपनी अधिनियम की धारा 169 द्वारा यथा प्रदत्त असाधारण आम बैठक का आयोजन कर सकते हैं। बशर्ते कि, जब तक बोर्ड पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठक के आयोजन के लिए अधियाचकों को अनुमति के लिए लिखित में अस्वीकार नहीं करता है, इसका आयोजन पंजीकृत कार्यालय में ही किया जाएगा।

मांग द्वारा असाधारण आम बैठक

कंपनी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का नोटिस देकर और सदस्यों की मांग पर विवरण परिचालित करके अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

आम बैठक के लिए नोटिस

कंपनी की एक आम बैठक लिखित में इक्कीस (21) दिनों का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है, किंतु, कोई आम बैठक कम समय का नोटिस देकर भी बुलाई जा सकती है, यदि उसमें मतदान के लिए हकदार सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक के मामले में अपनी सहमति दें तथा अन्य बैठकों के मामले में कंपनी के सदस्यों द्वारा, जो प्रदत्त शेयर पूंजी के उस भाग का पिचानबे प्रतिशत (95%) से अधिक धारण करते हैं जो बैठक में विचार किए जाने वाले मामलों पर मतदान का अधिकार रखते हैं।

बशर्ते कि, जहां कंपनी का कोई सदस्य जो बैठक में रखे जाने वाले कुछ प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार रखता है किन्तु अन्य में नहीं, उन सदस्यों को पूर्व प्रस्ताव अथवा प्रस्तावों के संबंध में इस धारा के प्रयोजन हेतु गणना में लिया जाएगा, और बाद के संबंध में नहीं।

नोटिस देने में आकस्मिक त्रुटि से बैठक अमान्य नहीं होगी

किसी बैठक के नोटिस देने में आकस्मिक त्रुटि से अथवा किसी सदस्य को ऐसा नोटिस प्राप्त न होने पर बैठक की कार्यवाई या ऐसी बैठकों में पारित कोई प्रस्ताव अमान्य नहीं होगा।

विशेष कारोबार तथा विवरण

- क. लाभार्थ की घोषणा, लेखा, तुलन पत्र तथा निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार, सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों के स्थान पर रोटेशन द्वारा निदेशकों का चुनाव तथा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक तय करने के अतिरिक्त असाधारण आम बैठक में संव्यवहारित तथा वार्षिक आम बैठक में भी संव्यवहारित सभी कारोबार विशेष माने जाएंगे।
- ख. किसी वार्षिक आम बैठक में कारोबार के किसी भी मद का संव्यवहार किया जा सकता है, चाहे वह सामान्य हो अथवा विशेष।
- ग. पूर्वोक्त के अनुसार, जहां बैठक में संव्यवहार की जाने वाली कारोबार की कोई मद विशेष मानी जाएगी, वहां बैठक की नोटिस में अनुबंध के रूप में संलग्न किया जाएगा और विशेषकर प्रत्येक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक के उसमें सरोकार या हित की प्रकृति, यदि कोई हो, सहित कारोबार के प्रत्येक ऐसे मद के संबंध में वास्तविक तथ्यों को उजागर करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाएगा और यदि कारोबार के किसी मद में बैठक द्वारा किसी दस्तावेज के अनुमोदन मंजूरी शामिल है तो पूर्वोक्त विवरण में समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा जहां उस दस्तावेज की जांच की जा सकती है।
बशर्ते कि, जहां पूर्वोक्त के अनुसार कंपनी की बैठक में विशेष कारोबार के किसी मद का संव्यवहार किया जाना है, कंपनी के प्रत्येक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक के उस अन्य कंपनी में शेयर धारण हित की सीमा को भी विवरण में प्रदर्शित किया जाएगा यदि ऐसे शेयर धारण हित की सीमा अन्य कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत (2%) से कम नहीं है।

28. आम बैठक में कार्यवाइयां**गणपूर्ति**

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच (5) सदस्य आम बैठक के लिए गणपूर्ति होगा और किसी आम बैठक में किसी कारोबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कारोबार के लिए बैठक की कार्यवाई के समय अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित नहीं होता है।

यदि गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, कब बैठक बर्खास्त किया जाए और कब बर्खास्त नहीं किया जाए

यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो बैठक, यदि सदस्यों की मांग पर बुलाई गई है, बर्खास्त की जाएगी; किसी अन्य मामले में यह अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान अथवा बोर्ड द्वारा निर्धारण के अनुसार ऐसे अन्य दिन तथा अन्य समय व स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा यदि स्थगित बैठक में बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर एक गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य ही गणपूर्ति होंगे।

आम सभा का अध्यक्ष

बोर्ड का अध्यक्ष, यदि कोई हो, कंपनी की प्रत्येक आम बैठक में अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा।

जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, अन्य अध्यक्ष का चयन

यदि ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं है अथवा किसी बैठक में बैठक के आयोजन के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर वह उपस्थित नहीं होता है या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है, बोर्ड का उपाध्यक्ष, यदि कोई हो, अध्यक्षता करेगा जिसके न होने पर बोर्ड के उपस्थित सदस्य दूसरे निदेशक को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे और यदि कोई निदेशक उपस्थित न हो या सभी निदेशक अध्यक्षता करने से इंकार करते हैं तो उपस्थित सदस्य उनमें से एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

बैठक का स्थगन

अध्यक्ष किसी बैठक, जहां गणपूर्ति उपस्थित है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अधिसंख्य सदस्यों की सहमति से (और यदि अधिसंख्य द्वारा निदेश दिया जाता है) बैठक समय-समय तथा स्थान-स्थान पर स्थगित कर सकता है किन्तु स्थगन के समय बैठक में अधूरे छोड़े गए कारोबारों के अलावा किसी स्थगित बैठक में किसी कारोबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा। जब कोई बैठक तीस (30) दिन या उससे अधिक दिनों के लिए स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की सूचना वास्तविक बैठक के मामले में दी जाने वाली सूचना के अनुसार ही दी जाएगी। पूर्वोक्त के अतिरिक्त, किसी स्थगित बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले कारोबार के स्थगन की कोई सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

आम बैठक में प्रश्न कि कैसे निर्णय लिया जाए

किसी आम बैठक में, बैठक में मतदान के लिए रखे गए प्रस्ताव पर हाथ उठाकर मतदान से निर्णय लिया जाएगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों के अनुसार मतदान की मांग न की जाए (हाथ उठाकर मतदान के परिणाम की घोषणा पर अथवा उससे पूर्व)। जब तक एक मतदान की मांग न की जाए, अध्यक्ष द्वारा घोषणा कि कोई प्रस्ताव हाथ उठाकर मतदान द्वारा सर्वसम्मति अथवा एक विशेष अधिसंख्य द्वारा स्वीकृत हो चुका है अथवा हार चुका है और कंपनी की कार्यवाही के बुक में उस परिणाम का अंकित होना प्रस्ताव के पक्ष में अथवा उसके खिलाफ रिकार्ड किए गए मतों की संख्या अथवा अनुपात के सबूत के बिना इस तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा।

निर्णायक मत

मतों के समान होने के मामले में अध्यक्ष के पास हाथ उठाकर मतदान तथा किसी मतदान दोनों में, सदस्य के रूप में हकदार मत अथवा मतों के अलावा एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।

मतदान का संपादन

यदि कंपनी अधिनियम की धारा 179 के प्रावधानों के अनुसरण में मतदान की विधिवत मांग की जाती है, इसे अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा कंपनी अधिनियम की धारा 183 तथा 185 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और मतदान के परिणाम को मतदान किए गए प्रस्ताव पर बैठक का निर्णय माना जाएगा। अध्यक्ष, कंपनी अधिनियम की धारा 184 द्वारा अपेक्षित तरीके से दो (2) संवीक्षकों की नियुक्ति करेगा।

स्थगन के बिना मतदान किया जाना

अध्यक्ष के चुनाव पर अथवा स्थगन के प्रश्न पर किए गए मतदान की मांग को तत्काल किया जाएगा। किसी अन्य प्रश्न पर मांग किया गया मतदान मांग के समय से अड़तालीस (48) घंटे के समय में अथवा अध्यक्ष के निदेशानुसार किया जाएगा।

29. बैठकों में मत**मताधिकार**

कंपनी का प्रत्येक सदस्य, जो मताधिकार वाले इक्विटी शेयर को धारण करता है, को कंपनी के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव पर ऐसे शेयर के संबंध में मत देने का अधिकार होगा। हाथ उठाकर मतदान में ऐसे प्रत्येक शेयरधारक, जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद है, का एक मत होगा। मतदान में, ऐसे शेयरों के संबंध में उसका मताधिकार कंपनी के प्रदत्त इक्विटी पूंजी के उसके हिस्से के अनुपात में होगा।

मताधिकार में सीमाएं

यदि कंपनी ने किसी विशेष सुविधा के साथ अधिमान शेयर जारी किया है, अधिमान शेयर अथवा विशेष श्रेणी के शेयरों के धारक को उनके अधिमान शेयर अथवा विशेष श्रेणी के शेयर के धारण की निष्पत्ति द्वारा किसी आम बैठक में उपस्थित होने अथवा व्यक्तिगत रूप में मतदान का अधिकार नहीं होगा, जब तक:

- क. कंपनी के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जो उनके अधिमान शेयरों अथवा विशेष श्रेणी के शेयरों के साथ संबद्ध अधिकारों को सीधे तौर पर प्रभावित न करे; अथवा
- ख. ऐसे अधिमान शेयरों अथवा विशेष श्रेणी के शेयरों पर लाभांश या ऐसे लाभांश का कोई भाग बैठक शुरू होने की तारीख से पूर्व दो (2) वर्षों से कम औसत अवधि के लिए अदत्त न रहा हो।

बोर्ड कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार अंतराश्रयी मताधिकार वाले शेयर जारी कर सकता है और ऐसे मामलों में मताधिकार ऐसे शेयरों के जारी करने की शर्तों के अनुसार होगा।

मतदान के बावजूद कारोबार जारी रहेगा

मतदान के लिए कोई मांग, मतदान की मांग किए गए कारोबार के अलावा बैठक की निरंतरता अथवा किसी कारोबार के संव्यवहार पर रोक नहीं लगाता है। मतदान की कोई मांग किसी भी समय उस व्यक्ति द्वारा वापस लिया जा सकती है जिसने मांग रखा है।

संयुक्त धारकों का मत

शेयरों के सदस्य के मामले में ऐसे संयुक्त धारकों में से पहला नामित व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से मत देता है, का मत अन्य संयुक्त धारकों के मतों के अपवर्जन में स्वीकृत किया गया हो।

मत नहीं यदि मांग अदत्त है

कोई सदस्य किसी आम बैठक में मत का हकदार नहीं होगा जब तक कंपनी में शेयरों के संबंध में उसके द्वारा सभी मांगों अथवा वर्तमान में देय अन्य धन का भुगतान नहीं किया गया हो।

प्रतिनिधित्व द्वारा मत

किसी मतदान में मत व्यक्तिगत रूप से ही दिया जाएगा।

कंपनी का प्रतिनिधित्व अथवा निकाय निगम

जहां कोई कंपनी अथवा निकाय निगम (इसके आगे "सदस्य कंपनी" कहा जाएगा) कंपनी का एक सदस्य है, अधिनियम की धारा 187 के प्रावधानों के अनुसार सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति कंपनी की बैठक अथवा कंपनी के सदस्यों की श्रेणी की किसी बैठक में ऐसी सदस्य कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसी नियुक्ति के कारणों द्वारा एक परोक्षी नहीं माना जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति उस सदस्य कंपनी को किसी निदेशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसके द्वारा प्रस्ताव की सही प्रति होने के सत्यापन के पश्चात कंपनी के कार्यालय में भेजने अथवा बैठक में प्रस्तुत करने को कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति की वैधता के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा; ऐसा व्यक्ति सदस्य कंपनी की ओर से मत के अधिकार सहित वही अधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग के लिए हकदार होगा मानों वह व्यक्तिगत सदस्य हो।

मत की वैधता

बैठक या स्थगित बैठक अथवा मतदान जिसमें ऐसा मत डाला गया है, के अलावा किसी मत की वैधता के लिए कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और प्रत्येक मत, चाहे व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो तथा ऐसी बैठक अथवा मतदान में नामंजूर नहीं किया गया हो, ऐसी बैठक अथवा मतदान के सभी प्रयोजनों के लिए वैध माना जाएगा।

अध्यक्ष वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा

बैठक का अध्यक्ष ऐसे बैठकों में दिए गए प्रत्येक मत की वैधता के लिए एकमात्र निर्णायक होगा और मतदान में उपस्थित अध्यक्ष ऐसे मतदान में दिए गए प्रत्येक मत की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा।

पोस्टल मत-पत्र द्वारा मत डालना

कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पोस्टल मत-पत्र द्वारा निर्णय लिए जाने वाले कारोबार की निर्दिष्ट मर्दों का निर्णय उसी प्रकार किया जाएगा और कंपनी अनुप्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

30. निदेशक मंडल

¹⁸बोर्ड में 18 (अठारह) निदेशकों से अधिक निदेशक नहीं होंगे, जिसमें भारत सरकार/एफएमसी नामिती और लोक हित में स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं जैसाकि एफएमसी द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट/निर्देशित किया गया है।

बशर्त कि निदेशकों की संख्या में 18 से परे की कोई वृद्धि केंद्र सरकार के अनुमोदन से की जाएगी।

सेवानिवृत्ति न होने वाले निदेशक

¹⁹ श्री जिगनेश शाह कंपनी के स्थायी निदेशक होंगे और वे ऐसा कार्यालय धारण करेंगे जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होगा।

शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करेंगे

²⁰अधिनियम की धारा 255 के प्रावधानों के अधीन सेवानिवृत्ति न होने वाले निदेशकों के अलावा (जिनकी संख्या निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी) अन्य निदेशक तथा नामित निदेशक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा नियुक्त होंगे तथा चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्ति होने के लिए संभावनीय होंगे, जैसा कि इसके आगे प्रदत्त है।

शेयर योग्यता

किसी निदेशक द्वारा कोई शेयर योग्यता धारण करना अपेक्षित नहीं है।

अपर निदेशक

बोर्ड के पास किसी भी समय तथा समय-समय पर बोर्ड में एक योजन के रूप में किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है किन्तु इससे किसी समय निदेशकों की कुल संख्या इन अनुच्छेदों द्वारा तय अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी। ऐसा नियुक्त कोई निदेशक केवल कंपनी की अगले वार्षिक आम बैठक तक कार्यालय में रहेगा किन्तु अगली बैठक में चयन के लिए पात्र होगा।

31. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष**निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष**

निदेशक मंडल उनमें से किसी एक को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तथा एक को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। अध्यक्ष के पास कार्यकारी अधिकार अथवा कर्तव्य नहीं होगा और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका शेयर बाजार में व्यापार हित है। इस तरह नियुक्त अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

¹⁸ कंपनी के निदेशकों की अधिकतम संख्या को बारह से बढ़ाकर अठारह (12 से 18) दिनांक 24 सितम्बर, 2004 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार के अनुमोदन आदेश सं. 3/91204'सीएल VII, दिनांक 1 अप्रैल, 2005 जिसे दिनांक 9 अगस्त, 2011 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया गया है, के द्वारा किया गया है।

¹⁹ 5 जुलाई, 2008 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित

²⁰ दिनांक 24 सितम्बर, 2014 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

32. **प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक**
 बोर्ड समय-समय पर ऐसे नियमों तथा शर्तों पर, जिसे बोर्ड उपयुक्त माने तथा एक नियत अवधि अथवा उसके ऐसे कार्यालय के धारण के लिए अवधि की किसी सीमा के बिना एक या अधिक निदेशकों को कंपनी का प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर सकता है, तथा समय-समय पर (उसके तथा कंपनी के बीच किसी करार के प्रावधानों के अधीन) उसे कार्यालय से हटा सकता है अथवा बर्खास्त कर सकता है और उसके स्थान पर दूसरे को नियुक्त कर सकता है। बोर्ड इसी प्रकार से कंपनी के एक अथवा अधिक उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है।
 प्रबंध निदेशक शेयर बाजार के मुख्य कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा तथा कंपनी की दैन-दैनिकी कार्यों के संबंध में सभी अधिकार उसमें न्यायगत होगा। इसके अलावा बोर्ड समय-समय पर उसे, जिसे वह उपयुक्त समझे, अन्य अधिकार और जिम्मेदारियां प्रत्यायोजित कर सकता है। प्रबंध निदेशक को ऐसा अधिकार तथा कार्य, जैसे वह वांछित समझे, अन्य अधिकारियों अथवा समितियों अथवा सलाहकार बोर्ड को प्रत्यायोजित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
33. **निदेशकों को हटाना**
 कंपनी, अधिनियम की धारा 284 के प्रावधानों के अनुसार किसी निदेशक को उसके कार्यालय की अवधि समाप्त होने से पूर्व हटा सकती है और अधिनियम की धारा 262 एवं 274 के प्रावधानों तथा इन अनुच्छेदों के अनुसार उसकी जगह किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। किंतु एफएमसी द्वारा नियुक्त निदेशकों को कंपनी नहीं हटा सकती है।
34. **बोर्ड आकस्मिक रिक्तियों को भर सकता है**
 यदि आम बैठक में कंपनी द्वारा नियुक्त कोई निदेशक सामान्य प्रक्रिया में अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना कार्यालय छोड़ता है, इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड एक बैठक द्वारा भर सकता है; किन्तु इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में केवल तब तक रहेगा जब तक हटने वाला निदेशक रहता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती, बशर्त कि उक्त रिक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति से नहीं भरी जाएगी जिसे इन अनुच्छेदों के अंतर्गत निदेशक के कार्यालय से हटाया गया है।
35. **निदेशकों का पारिश्रमिक**
 क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई प्रबंध निदेशक अथवा कोई निदेशक जो कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी है, को पारिश्रमिक का भुगतान या तो मासिक भुगतान के रूप में अथवा कंपनी के निवल लाभों का कोई विशेष प्रतिशत अथवा अंशतः एक प्रकार से और अंशतः दूसरे रूप में अथवा दूसरे प्रकार से अधिनियम द्वारा सुस्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं किए गए किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है।
 ख. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी निदेशक, जो न तो प्रबंध निदेशक है न ही कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी, को पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है:
 i. सरकार के अनुमोदन से मासिक, तिमाही अथवा वार्षिक भुगतान द्वारा; अथवा
 ii. कमीशन द्वारा, यदि कंपनी ऐसे भुगतान को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत करती है।
 ग. बोर्ड अथवा समिति के किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी निदेशक (प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को देय शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि होगी जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत भुगतान के लिए स्वीकार्य अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी।
 घ. यदि किसी निदेशक को अतिरिक्त सेवा अथवा विशेष पारिश्रम अथवा प्रयास करने के लिए बुलाया जाता है (जिस अभिव्यक्ति में निदेशकों द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में निदेशक द्वारा किया गया कार्य शामिल है), बोर्ड ऐसे निदेशक को ऐसी अतिरिक्त सेवाओं अथवा विशेष पारिश्रम अथवा प्रयास के लिए विशेष पारिश्रमिक का भुगतान या तो एक तय राशि अथवा बोर्ड द्वारा अन्य प्रकार से निर्धारित के अनुसार करेगा और ऐसा पारिश्रमिक या तो उसको उपरोक्त प्रदत्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त होगा अथवा स्थानापन्नता के रूप में होगा।
 ङ. कोई निदेशक जो उस स्थान का वास्तविक निवासी नहीं है जहां निदेशकों अथवा किसी समिति की बैठकें सामान्यतया आयोजित की जाती हैं और जो उस स्थान पर जाएगा अथवा बोर्ड या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा एवं अन्य खर्च उठाता है, उसे निदेशक स्वीकार करेंगे और ऐसी राशि का भुगतान करेंगे जिसे ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए, उसके शुल्क के अतिरिक्त, बोर्ड अथवा किसी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु उसकी यात्रा एवं अन्य खर्चों के लिए उचित क्षतिपूर्ति मानते हैं।
36. **निदेशक के कार्यालय का रिक्तीकरण**
 किसी निदेशक का कार्यालय तथा ऐसे निदेशक के पद की निष्पत्ति द्वारा धारित कोई अन्य कार्यालय तत्काल रिक्त होगा, यदि किसी भी समय अधिनियम की धारा 283 में निर्धारित शर्त पूरी हो जाती है तथा/अथवा यदि सेवानिवृत्त न होने वाले निदेशक सहित किसी निदेशक को शेयर बाजार द्वारा निलंबित, निष्कासित अथवा चूककर्ता के रूप में घोषित किया जाता है।
37. **वैकल्पिक निदेशक**

- क. बोर्ड किसी निदेशक (इसके आगे वास्तविक निदेशक कहा जाएगा) के लिए वास्तविक निदेशक की अनुपस्थिति के दौरान तीन (3) माह की अवधि के लिए, बोर्ड की बैठकें सामान्यतया आयोजित होने वाले राज्य से किसी वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति कर सकता है।
- ख. इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त कोई वैकल्पिक निदेशक, वास्तविक निदेशक, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, को अनुमेय अवधि से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा तथा कार्यालय छोड़ेगा यदि और जब वास्तविक निदेशक उस राज्य में वापस आएगा जहां बोर्ड की बैठक सामान्यतया आयोजित की जाती है।
- ग. कोई वैकल्पिक निदेशक जब कार्यालय धारण करता है तो वह निदेशकों की बैठकों की सूचना और बैठक में भाग लेने तथा उसके अनुरूप वहां पर मत डालने का हकदार होगा।
- घ. यदि वास्तविक निदेशक का कार्यकाल उसके उस राज्य में वापस आने, जिसमें बोर्ड की बैठकें सामान्यतया आयोजित होती हैं, से पूर्व निर्धारित किया जाता है, दूसरी नियुक्ति के व्यतिक्रम में सेवा निवृत्त होने वाले निदेशक के लिए स्वतः पुनः नियुक्ति के लिए इन अनुच्छेदों अथवा अधिनियम में कोई प्रावधान वास्तविक निदेशक पर लागू होगा, तथा वैकल्पिक निदेशक पर नहीं।
38. निदेशक कंपनी के साथ करार कर सकते हैं
- क. अधिनियम की धारा 314 के प्रावधानों के अधधीन किसी निदेशक को, कंपनी के अंतर्गत अथवा किसी अन्य कंपनी जिसमें यह कंपनी एक शेयर धारक है अथवा अन्य तरीके से हित रखता है या जो इस कंपनी का शेयर धारक है, में कोई कार्यालय या लाभ का स्थान धारण अथवा कंपनी के साथ या तो विक्रेता, क्रेता अथवा अन्य तरीके से करार करने के लिए, उसके कार्यालय से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, न ही ऐसा कोई करार या उसके द्वारा अथवा कंपनी जिसमें कोई निदेशक किसी भी रूप में हित रखता है, की ओर से किया गया कोई करार अथवा व्यवस्था को टाला जाएगा, न ही कोई निदेशक किसी ऐसे कार्यालय अथवा लाभ के स्थान या केवल उस निदेशक के उस कार्यालय को धारण करने अथवा उसके फलस्वरूप स्थापित संबंधों से ऐसे करार या व्यवस्था से जारी होने वाले किसी लाभ के लिए कंपनी को सफाई देने हेतु उत्तरदायी होंगे, किन्तु यह घोषित किया जाता है कि उसके हित की प्रकृति उसके द्वारा निदेशकों की बैठक में प्रकट किया गया है जिसमें उसके हित अभिग्रहण के पश्चात् निदेशकों की प्रथम बैठक में यदि उसका हित विद्यमान रहता है अथवा किसी अन्य मामले में करार या व्यवस्था को निर्धारित किया जाता है।
- ख. कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अधधीन कोई निदेशक, निदेशक के रूप में पूर्वोक्त के अनुसार अपनी अभिरुचि के किसी करार/व्यवस्था के संबंध में मत नहीं डालेगा और यदि वह मत देता है तो उसका मत नहीं गिना जाएगा। ऐसा निषेध निदेशकों अथवा उनमें से किसी को अग्रिम अथवा क्षतिपूर्ति द्वारा कोई सुरक्षा देने के लिए कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किए गए किसी करार पर लागू नहीं होगा।
- ग. निर्धारित फार्म में एक सामान्य सूचना कि कोई निदेशक किसी उल्लिखित फर्म अथवा कंपनी का सदस्य है और उसे उस फर्म अथवा कंपनी के साथ सभी संव्यवहारों में अभिरुचि रखने वाला माना जाए, ऐसे निदेशक तथा ऐसे संव्यवहारों के संबंध में इस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्याप्त प्रकटीकरण होगा और ऐसी सामान्य सूचना के बाद उस फर्म अथवा कंपनी के साथ किसी विशेष संव्यवहार के लिए कोई विशेष सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
39. निदेशकों का रोटेशन और सेवानिवृत्ति
- क. ²¹ निदेशकों का रोटेशन और सेवानिवृत्ति:
 "प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में एक तिहाई निदेशक कुछ समय के लिए रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए संभावनीय होंगे अथवा यदि उनकी संख्या तीन या तीन का गुणक नहीं है तो एक तिहाई की निकटतम संख्या कार्यालय से सेवानिवृत्त होगी। ऐसे मामले में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो अपनी पिछली नियुक्ति से सबसे अधिक समय के लिए कार्यालय में हैं, किन्तु उन व्यक्तियों में से जो एक ही दिन निदेशक बने हैं, उनका निर्धारण लाटरी द्वारा किया जाएगा (जब तक कि वे आपस में समझौता नहीं कर लेते)।
 किंतु एफएमसी द्वारा नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक, तथा पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए संभावनीय नहीं होंगे तथा रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त के लिए संभावनीय निदेशकों की संख्या के निर्धारण के प्रयोजन हेतु उनकी गिनती नहीं की जाएगी।"
- ख. कोई सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक पुनः चयन के लिए पात्र होगा। कंपनी आम बैठक, जिसमें पूर्वोक्त तरीके से निदेशक सेवानिवृत्त होता है, में उसका अथवा उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का चयन करके खाली कार्यालय को भर सकता है।

²¹ 01 सितम्बर, 2007 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधित

- ग. अधिनियम की धारा 256 के अध्याधीन यदि किसी बैठक, जिसमें निदेशकों का चयन होना है, में निदेशक के रिक्त स्थान को नहीं भरा जाता है और बैठक में रिक्ति को भरने के लिए सुस्पष्ट संकल्प नहीं लिया जाता है तो बैठक को अगले सप्ताह उसी दिन तक या यदि उस दिन सरकारी अवकाश है तो उसी समय तथा स्थान में अगले उत्तरवर्ती दिन तक जो एक सरकारी अवकाश नहीं है, के लिए स्थगित माना जाएगा और यदि स्थगन बैठक में रिक्त निदेशक के पद को नहीं भरा जाता है तथा वह बैठक भी रिक्ति को भरने के लिए सुस्पष्ट तौर पर संकल्प नहीं लेती है तो हटने वाला निदेशक अथवा उनमें से ऐसे निदेशक, जिनका स्थान नहीं भरा गया है, को स्थगन बैठक में पुनः नियुक्त माना जाएगा।
- घ. फाइनेंशियल टेक्नॉलाजी (इंडिया) लि. (एफ टी आई एल), को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 4% से अधिक शेयरों के धारक होने तक ऐसे नियमों व शर्तों, जिसे यह उपयुक्त समझे, पर कंपनी के निदेशक मंडल में अपने मनोनीत व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मनोनीत व्यक्ति को कोई योग्यता शेर धारण करना अपेक्षित नहीं होगा और अन्य बातों उसी अधिकार एवं सुविधाओं का हकदार और उसी कर्तव्य के अधीन होगा जैसे कि कंपनी के अन्य निदेशक हैं। ऐसा मनोनीत व्यक्ति कंपनी की सभी बोर्ड तथा आम बैठकों की सूचना प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा मनोनीत व्यक्ति रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होगा। एफ टी आई एल को अपने मनोनीत निदेशक को किसी भी समय और समय-समय पर बदलने/वापस बुलाने/हटाने का अधिकार होगा। एफ टी आई एल को बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति में अपने मनोनीत व्यक्ति को नामित करने का भी अधिकार होगा।
40. निदेशकों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के लिए आम बैठक
अधिनियम की धारा 252, 255 तथा 259 एवं इन अनुच्छेदों में शामिल प्रावधानों के अध्याधीन कंपनी आम बैठक में निदेशकों की संख्या बढ़ा अथवा घटा सकती है।
किंतु सार्वजनिक/गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या हमेशा बोर्ड का एक तिहाई रहेगी।
41. सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के अलावा अन्य व्यक्तियों का निदेशक के पद के लिए खड़े होने का अधिकार
कोई व्यक्ति, जो सेवानिवृत्त होने वाला निदेशक नहीं है, किसी भी आम बैठक में निदेशक के पद की नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि वह अथवा कोई अन्य सदस्य जो उसे निदेशक के रूप में प्रस्तावित करना चाहता है, कंपनी के कार्यालय में बैठक से चौदह (14) दिनों पूर्व निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी सूचित करने हेतु अपने हाथ से लिखा हुआ एक नोटिस अथवा पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में उसे प्रस्तावित करने वाले सदस्य अपनी इच्छा, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में भेजता है, बशर्ते कि, ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 257 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन तथा ऐसी राशि जमा करने के साथ, यदि नियुक्त होता है तो ऐसे निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में एक सहमति पर हस्ताक्षर किया है और कंपनी में दाखिल किया है।
त्रुटिपूर्ण नियुक्ति के बावजूद बोर्ड द्वारा किया गया कार्य वैध होगा
बोर्ड अथवा निदेशक के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, बाद में पता चलने के बावजूद कि ऐसे किसी एक अथवा अधिक निदेशकों अथवा पूर्वोक्त के अनुसार कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि थी अथवा वे या उनमें से कोई अयोग्य था, जैसा भी मामला हो, वैध होगा मानों ऐसे प्रत्येक निदेशक तथा व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो और वे निदेशक बनने के लिए योग्य थे।
निदेशक मंडल का कार्य विवरण
42. बोर्ड की बैठक
- क. बोर्ड कारोबार के निपटान, स्थगन तथा अन्यथा अपनी बैठकों को जैसे चाहे व्यवस्थित करने के लिए बैठक कर सकता है; बशर्ते कि बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन (3) कैलेण्डर माह में कम से कम एक बार आयोजित हो और प्रत्येक वर्ष ऐसी कम से कम चार (4) बैठकें आयोजित होंगी।
- ख. ²² अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक तथा सचिव दो अथवा उससे अधिक निदेशकों के अनुरोध पर बोर्ड की बैठक बुलाएगा। कंपनी के बोर्ड की बैठक कम से कम सात (7) दिनों की सूचना अथवा ऐसे छोटे नोटिस पर जिससे निदेशक सहमत हों, के अनुरूप आयोजित होगी। बोर्ड की बैठक की सूचना प्रत्येक निदेशक, चाहे अनुपस्थित हो अथवा वैकल्पिक, को उससे सामान्य पते, चाहे भारत में हो या विदेश में, पर भेजा जाएगा।
- ग. जब किसी ऐसे निदेशक को बैठक की सूचना दिया जाना अपेक्षित है जो भारत में नहीं है तो सूचना टेलेक्स अथवा फैंसीमाइल (फैक्स) अथवा ई-मेल संप्रेषण के माध्यम से निदेशक द्वारा प्रदत्त टेलेक्स या फैक्स नम्बर अथवा ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। टेलेक्स अथवा फैक्स या ई-मेल भेजने के दिन के अगले कार्य दिवस को सूचना की सुपुर्दगी समपन्न मानी जाएगी।
- घ. बोर्ड की किसी बैठक के आयोजन के प्रत्येक नोटिस के साथ पूर्ण एवं पर्याप्त व्यौरों के साथ वहां पर संव्यवहारित होने वाले कारोबार की कार्यसूची भेजी जाएगी। कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा अस्थाई रूप से अन्यथा सहमत न होने पर ऐसी बैठक में कारोबार की कोई मद संव्यवहारिता नहीं होगी जिसे बैठक के आयोजन के उक्त नोटिस में पूर्ण एवं पर्याप्त विवरण के साथ वर्णित नहीं किया गया है।

²² 13 जनवरी, 2006 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

43. गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक की प्रक्रिया

- क. यदि बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति की कोई बैठक अथवा किसी स्थगन का अथवा उससे स्थगन बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो पाती हैं तो ऐसी प्रत्येक वास्तविक अथवा स्थगित बैठक समय-समय पर ऐसे दिन, समय तथा स्थान तक स्थगित मानी जाएगी जिसे ऐसी बैठक में उपस्थित निदेशक अथवा निदेशकों द्वारा तय की जाएगी।
- ख. बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए बारंबारता तथा समयावधि से संबंधित प्रावधानों का केवल इन तथ्य के आधार पर उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि उस अनुच्छेद के शर्तों के अनुपालन में बुलाई गई बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकी।

44. परिचालन द्वारा प्रस्ताव

अधिनियम में सुस्पष्ट रूप से प्रदत्त अन्य बातों के अतिरिक्त, एक प्रस्ताव वैसे ही वैध तथा प्रभावी होगा जैसे कि इसे बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से बुलाई गयी तथा गठित किसी समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारित किया गया है यदि आवश्यक कागजातों, यदि कोई हों, के साथ लिखित रूप में उसके मसौदे को सभी निदेशकों अथवा समिति के सभी सदस्यों को उनके भारत में अथवा विदेश में सामान्य पतों पर (अनुपस्थित निदेशकों अथवा सदस्यों सहित), जैसा भी मामला हो, भेजा गया है, तथा प्रस्ताव पर मत के हकदार उनमें से अधिसंख्यक द्वारा लिखित में इसे अनुमोदित किया गया है।

45. प्रश्न कैसे निर्धारित किए जाएंगे

- क. अधिनियम तथा इन अनुच्छेदों में सुस्पष्ट रूप से प्रदत्त अन्य बातों के अलावा निदेशकों की कोई बैठक जिसमें गणपूर्ति उपस्थित है, सामान्यतया निदेशकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अथवा उनमें अस्थायी तौर पर न्यागत कम्पनी के विनियमनों के द्वारा अथवा कंपनी के अंतर्गत अथवा किसी प्राधिकारों, अधिकारों अथवा विवेक से सभी के प्रयोग के लिए सक्षम होंगे।
- ख. बोर्ड के बैठक में उठने वाले सभी प्रश्नों को अधिसंख्य मतों द्वारा निर्णीत किया जाएगा।
- ग. मतों के बराबर होने के मामले में अध्यक्ष के पास एक निदेशक के रूप में अपने मत के अतिरिक्त एक दूसरा अथवा निर्णायक मत होगा।
- घ. इसमें शामिल किसी बात के होते हुए कोई अथवा सभी प्रस्ताव जो कि नीचे दिये गए हैं वे अधिसंख्यक मतों द्वारा बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति के बैठक में ही पारित किए जाएंगे ;
- शेयर बाजार की सदस्यता का प्रवेश;
 - शेयर बाजार के किसी व्यापार सदस्य को निष्कासित अथवा निलंबित करना;
 - बाजार में अपने जोखिम प्रबंधन तथा सामान्य प्रचालनों के साथ संचालन करने वाले सदस्यों के अलावा शेयर बाजार सदस्यों की सदस्यता के किसी अधिकार को वापस लेना जो शेयर बाजार के संगत प्राधिकरण द्वारा संभाला जाएगा जैसा कि उपनियमों, नियमों तथा विनियमनों में निर्दिष्ट है;
 - शेयर बाजार के किसी भी व्यापार सदस्य पर निलंबन अथवा निष्कासन के दंड के बदले में जुर्माना लगाना;
 - किसी शेयर बाजार के व्यापार सदस्य को निष्कासित अथवा निलंबित करने के अपने प्रस्ताव को कम, वापस, रद्द अथवा रोकना अथवा परिवर्तन करना अथवा शेयर बाजार के किसी सदस्य की सदस्यता अधिकार को वापस लेना;
 - पृथक-पृथक योजनाएं एवं परियोजनाएं जिनके लिए खर्च प्रकृति में पूंजीगत है और जिनके लिए राशि दस लाख रुपये (10,00,000 रुपये) से अधिक है;
 - उधारों, ऋणों, ऋण पत्रों तथा अन्य वित्तीय उत्त्पादिकार जारी करना जो तथा उपखंड (xi) में उल्लेखित बजट में स्वीकृत सीमा के भीतर के अलावा है;
 - कारोबार के सामान्य मामलों में गारंटी जारी करने की सीमा स्थापित करना;
 - उक्त के लिए बैंक खाता तथा अधिकृत हस्ताक्षरी स्थापित करना अथवा उक्त के लिए निदेशकों की किसी समिति को ऐसे बैंक खाते तथा अधिकृत हस्ताक्षरी के लिए अधिकार प्रदान करना ;
 - नए शेयर जारी करना;
 - कंपनी के वार्षिक बजट का अनुमोदन;
 - अन्य कंपनियों में निवेश;
 - पूंजीगत शेयर को बढ़ाना अथवा घटाना;
 - स्टॉक लाभांशों अथवा नकद की घोषणा की सिफारिश तथा वितरण;
 - दूसरे अधिकार क्षेत्र व्यक्ति के कारोबार के किसी भाग में मिलना अथवा अभिग्रहण;

²³ 13 जनवरी, 2006 को एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिस्थापित

- xvi. विघटन अथवा स्वैच्छिक दिवालियापन;
- xvii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा सलाहकारों अथवा किसी पूर्णकालिक निदेशक, सचिव अथवा महाप्रबंधक तथा सभी कार्यकारी प्रमुखों का रोजगार, नियुक्ति अथवा हटाने सहित प्रबंधन अथवा संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करना;
- xviii. वेतन, पेंशन, लाभ का हिस्सा तथा कोई अन्य कर्मचारी लाभों, जिससे वर्तमान दर से बीस प्रतिशत (20%) से अधिक की भिन्नता होता है;
- xix. बाहरी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अथवा निष्कासन;
- xx. समितियों का गठन तथा इन प्रस्तुतियों तथा शेयर बाजार के उपनियमों, नियमों तथा विनियमनों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी समितियों को अधिकार प्रत्यायोजित करना; तथा
- xxi. दस लाख रुपये (10,00,000 रुपये) से अधिक सभी सम्पत्तियों का संव्यवहार।

46. गणपूर्ति

बोर्ड की किसी बैठक के लिए इसकी कुल संख्या का एक तिहाई, (उस एक तिहाई में शामिल कोई भाग को एक के रूप में पूर्णकित किया जाएगा) अथवा तीन (3) निदेशक, जो भी अधिक हो, गणपूर्ति होगा बशर्त कि जहां किसी समय हित धारक निदेशकों की संख्या कुल संख्या के बराबर अथवा अधिक हो तो हित धारक निदेशकों की संख्या जो बैठक में उपस्थित हैं और जिनकी संख्या तीन (3) से कम नहीं है, ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होगी। बोर्ड की कुल संख्या का अर्थ प्रस्ताव अथवा बैठक की तारीख को निदेशक के रूप में वास्तविक रूप से कार्यालय धारण करने वाले निदेशकों की संख्या है, अर्थात् उस समय रिक्त निदेशकों की संख्या, यदि कोई हो, से कम करने के पश्चात् बोर्ड की कुल संख्या।

47. बैठकों का अध्यक्ष

यदि अध्यक्ष के कार्यालय में कोई रिक्ति है अथवा यदि किसी बैठक के आयोजन के लिए नियत समय के पश्चात् आधे घंटे के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तो निदेशक उनमें से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

48. अधिकारों का प्रत्यायोजन

- क. अधिनियम की धारा 292 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इन अनुच्छेदों के अधीन बोर्ड अपने किन्हीं अधिकारों को किसी समिति अथवा संगत प्राधिकरण जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझता है।
- ख. इस प्रकार गठित कोई समिति अथवा संगत प्राधिकरण ऐसे प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा इस पर लगाए गये किसी विनियमनों की अनुरूपता में होगा। ऐसी प्रत्येक समिति अथवा संगत प्राधिकरण ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसे विनियमनों के अधीन होगा जो शेयर बाजार के उपनियमों, नियमों तथा विनियमनों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्मित अथवा बनाए गये हैं। बोर्ड उनकी बैठकों में भाग लेने तथा कोई अन्य कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए विभिन्न समितियों अथवा संगत प्राधिकरणों के व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक अथवा शुल्क या कोई अन्य राशि का निर्धारण करेगा तथा समितियों अथवा संगत प्राधिकरणों के प्रभावी संचालन के लिए किए गए आवश्यक खर्चों की स्वीकृति भी देगा।

निदेशक मंडल के अधिकार

49. बोर्ड में निहित शेयर बाजार के सामान्य अधिकार

इन अनुच्छेदों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के इन प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता के लिए पूर्वाग्रह के बिना बोर्ड शेयर बाजार के कारोबारों, शेयर बाजार के सदस्य के कारोबारों तथा संव्यवहारों, शेयर बाजार के सदस्यों तथा व्यक्ति जो शेयर बाजार का सदस्य नहीं हैं, के आचरण से संबंधित किसी अथवा सभी मामलों तथा ऐसे शेयर बाजार संव्यवहारों के नियंत्रण निर्धारण तथा विनियमन के लिए समय-समय पर उप-नियमों, नियमों तथा विनियमनों को बनाने तथा विशेषकर निम्नलिखित मामलों सहित शेयर बाजार की गतिविधियों से संबंधित मामलों के लिए उप-नियम, नियम तथा विनियम बनाने के लिए अधिकार प्राप्त है:

- क. अन्य बाजार मध्यस्थों के साथ-साथ शेयर बाजार के सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों के प्रवेश तथा शेयर बाजार के सदस्यों को विशिष्ट श्रेणी अथवा विशेष मामलों में, जैसा यह उपयुक्त माने, शेयर बाजार के हित तथा व्यापार की तरक्की के लिए कतिपय शर्तों की छूट के अधिकार सहित उनका प्रवेश शुल्क, प्रतिभूति जमा, नित्य मूल्य की अनुप्रयोज्यता तथा अन्य मानक नियत करना;
- ख. शेयर बाजार के कारोबार के आचरण के लिए;
- ग. शेयर बाजार के व्यापार सदस्य का शेयर बाजार के अन्य सदस्य अथवा व्यक्ति जो शेयर बाजार का सदस्य नहीं हैं; के साथ कारोबार का आचरण तथा शेयर बाजार के व्यापार सदस्य तथा किसी व्यक्ति, जो शेयर बाजार का सदस्य नहीं है, के मध्य विक्रय, क्रय, निकासी, पंजीकरण, निष्प्रभावण तथा किस्म की वस्तुओं के सभी संविदाओं और सभी संविदा जो उप-नियमों,

नियमों तथा विनियमों के अधीन अथवा शेयर बाजार अथवा कंपनी के उपयोग के लिए बनाए गए हैं, से संबंधित सभी मामलों को संचालित करने हेतु;

- घ. अनावरण प्रमाण पत्र अथवा निर्यात/आयात वचनबद्धता अथवा अन्य बातों के आधार पर छूट अनुमति के अधिकार सहित परिमाणात्मक अथवा प्रतिशतता मूल्यों में विभिन्न वस्तुओं अथवा शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले विभिन्न संविदाओं लिए स्वीकार्य अधिकतम उन्मुक्त स्थिति निर्धारित करना;
 - ङ. शेयर बाजार के किसी सदस्य के निलंबन या निष्कासन अथवा चूककर्ता के रूप में घोषणा पर परिणाम, प्रभाव तथा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित तथा परिभाषित करना,
 - च. यह निर्धारित तथा व्यवस्था करना कि शेयर बाजार के किसी व्यापार सदस्य के निलंबन, निष्कासन अथवा चूककर्ता घोषित होने पर शेयर बाजार के ऐसे व्यापार सदस्य तथा शेयर बाजार के मध्य सभी लंबित करार जिसे शेयर बाजार के व्यापार सदस्य द्वारा चुका दिया गया है, तो समाप्त न हुए उक्त करारों को प्रदर्शन की अवधि अथवा परिपक्वता अथवा समाप्ति पर विचार किए बिना समायोजित तथा बंद किया जाएगा।
 - छ. बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति अथवा समिति सदस्यों को व्यवस्था विनियमित तथा अधिकार प्रदान करने के लिए अथवा शेयर बाजार के अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे करारों को समायोजित तथा बंद किये जाने वाले मूल्य तथा दर निर्धारित करने के लिए, तथा
 - ज. करारों के समायोजन तथा बंद होने पर देय होने वाला तथा उत्पन्न होने वाली सभी धनराशि शेयर बाजार को देय होगा तथा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली "गारंटी निधि" में भुगतान किया जाएगा अथवा ऐसी किसी अन्य निधि में जैसा भी निर्णय हो, और यह कि ऐसी गारंटी निधि अथवा अन्य निधि, जैसा भी मामला हो, को प्रभारित माना जाएगा और सभी बाहरी ऋण दाताओं की प्राथमिकता में शेयर बाजार अथवा कंपनी अथवा अन्य शेयर बाजार सदस्यों को ऐसे चूककर्ता, निष्कासित तथा निलंबित शेयर बाजार सदस्य के सभी ऋणों, दावों तथा देय की भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा।
50. उपनियमों, नियमों तथा विनियमों को संशोधित करने के लिए बोर्ड का अधिकार
- अधिनियम के प्रावधानों तथा इन प्रस्तुतियों के अधीन तथा एफएमसी की स्वीकृति के अधीन भी बोर्ड को समय-समय पर इन अनुच्छेदों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किसी अधिकारों के प्रयोग से उपनियमों, नियमों तथा विनियमों को बनाने, परिवर्तित, संशोधित अथवा वापस लेने अथवा संयोजन का अधिकार होगा और ऐसे सभी उपनियम, नियम तथा विनियम, यदि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा अपेक्षित उसे पारित करने पर तुरंत प्राप्त कर लिया जाता है तथा अन्य बातों में ऐसे स्वीकृति प्राप्त होने पर तत्काल सरकार की स्वीकृति से लागू होंगे।
51. निदेशक मंडल के विशेषाधिकार तथा कर्तव्य
- इन प्रस्तुतियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता के लिए पूर्वाग्रह के बिना बोर्ड एक अथवा एक से अधिक प्रबंध निदेशकों/ उप प्रबंध निदेशक, अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से कंपनी/शेयर बाजार के कारोबार, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीके से प्रबंध कर सकता है। बोर्ड आयोग की स्वीकृति के अधीन उनमें से एक को शेयर बाजार के मुख्य कार्यवाहक होने के लिए पहचान करेगा जो शेयर बाजार की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा। उसकी नियुक्ति तथा निष्कासन आयोग की सहमति से पूर्वानुमति से होगा। एतद्वारा यह सुस्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि बोर्ड को इन प्रस्तुतियों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित अधिकार होंगे:
- क. शेयर बाजार/कंपनी द्वारा अथवा इसके खिलाफ किसी दावे अथवा मांगों को मध्यस्थता के लिए भेजना तथा/अथवा निर्णय की जांच तथा परीक्षण करना;
 - ख. शेयर बाजार के सदस्य के दिवालियापन ऋणशोधनाक्षम से संबंधित मामले में शेयर बाजार की ओर से कार्रवाई करना;
 - ग. किसी व्यक्ति को उपयुक्त समझे गए अधिकारों एवं शर्तों पर शेयर बाजार के वकील अथवा एजेंट के रूप नियुक्त करना;
 - घ. किसी वकील अथवा अधिवक्ता को नियमित परामर्शदाता अथवा विशेष रूप से किसी केस अथवा मामले के लिए नियुक्त करना और उसे उपयुक्त पारिश्रमिक का भुगतान करना;
 - ङ. शेयर बाजार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति, कारोबार आचरण तथा संचालन की जांच तथा अन्वेषण करना ;
 - च. समय-समय पर लागू इन प्रस्तुतियों, उपनियमों, नियम तथा विनियमनों की अनुरूपता में मध्यस्थता द्वारा समझौते सहित इन प्रस्तुतियों, उपनियमों, नियमों तथा विनियमनों तथा शेयर बाजार की प्रथा के अधीन किए गए किसी संव्यवहार अथवा करारों के संबंध में शेयर बाजार के सदस्यों तथा व्यक्तियों जो शेयर बाजार के सदस्य नहीं हैं, के मध्य तथा उसके साथ-साथ शेयर बाजार के सदस्यों के मध्य परस्पर होने वाले विवादों, शिकायतों, दावों का निपटान करना ;
 - छ. कंपनी के संगम जापन के खंड III में विनिर्दिष्ट कई प्रकार के कारोबार को चलाना तथा संव्यवहार करना;
 - ज. अपने उद्देश्यों को पूरा करने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी के किसी निदेशक सहित किसी व्यक्ति से ऐसे मूल्य अथवा प्रतिफल तथा सामान्यतया ऐसे नियमों एवं शर्तों पर तथा ऐसे नाम से जिसे वे उपर्युक्त समझौते हैं अथवा विश्वास करते हैं अथवा पर्याप्त रूप से संतोषजनक होने का परामर्श दिये गए अनुसार भारत में भवन के साथ अथवा बिना भवन के किसी भूमि

- (चाहे फ्री-होल्ड, लीज-होल्ड अथवा अन्यथा), संरचना अथवा यंत्र (नियत अथवा खुला) तथा कोई अचल संपत्ति, अधिकार, सुविधाओं की खरीद, पट्टे अथवा लाइसेंस पर लेना अथवा अन्यथा अधिग्रहण करना;
- झ. किसी खोज के लिए कोई एकस्य अथवा तकनीकी जानकारी किसी व्यक्ति से खरीदना अथवा दूसरे रूप में अधिग्रहण करना अथवा लाइसेंस बेचना अथवा आदान-प्रदान करना तथा कंपनी के लिए कोई अन्य संपत्ति, सिद्धांत, रियायत, अधिकार तथा सुविधा खरीदना अथवा अन्य प्रकार से अधिग्रहण करना जिसके लिए कंपनी, ऐसे मूल्य अथवा प्रतिफल तथा सामान्यतया ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जिसे वे उपयुक्त समझते हैं, पर अधिग्रहण हेतु अधिकृत है;
- ज. कंपनी की ओर से कंपनी द्वारा दिए गए किसी लीज अथवा लाइसेंस द्वारा शामिल अथवा आरक्षित सभी प्रसंविदा, शर्तों तथा समझौते के प्रदर्शन तथा सभी किरायों अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान लेना तथा लीज के अंतर्गत अस्थायी रूप से धारित अथवा किसी फ्री-होल्ड परिसंपत्ति से कम कोई संपत्ति अथवा कंपनी की सभी अथवा किसी भूमि के लिए फ्री-होल्ड हक खरीदना अथवा अन्य प्रकार से अधिग्रहण करना;
- ट. कंपनी की ओर से शेयर बाजार के सभी बिलों, वचन पत्रों, चेक, ड्राफ्ट, रेलवे प्राप्त, गोदी अधिपत्र, गोदाम प्राप्त, सुपुर्गो आदेश, सरकारी वचन पत्रों, अन्य सरकारी प्रपत्रों, बंधपत्रों, ऋण पत्रों अथवा निगमों, स्थानीय निकायों, पोर्ट ट्रस्ट, सुधार न्यासों अथवा अन्य निगम निकायों के बंधपत्रों को आहरित, स्वीकार तथा पृष्ठांकन, छूट, सौदा तथा मुक्त करना और कंपनी के किसी कारोबार अथवा किसी उद्देश्य के संबंध में सरकार तथा अन्य स्थानीय अथवा निगम निकायों के स्टॉक, शेयर अथवा स्टॉक प्रमाणपत्रों के अंतरणों के लिए अंतरण पत्रों को निष्पादित करना;
- ठ. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत किसी परिसंपत्ति, अधिकार अथवा सुविधाओं अथवा कंपनी को दिए गए सेवाओं के लिए अपने विवेक से या तो पूर्णतः अथवा अंशतः नकद अथवा शेयरों, बंधपत्रों, ऋणपत्रों अथवा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों द्वारा भुगतान करना और ऐसा कोई शेयर या तो पूर्णतः प्रदत्त अथवा सहमति के अनुसार उस पर प्रदत्त के रूप में धन राशि क्रेडिट के साथ जारी किया जा सकता है तथा ऐसा कोई बंधपत्र, ऋणपत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियां या तो कंपनी की पूरी अथवा किसी परिसंपत्ति पर प्रभारित अथवा गैर प्रभारित हो सकता है;
- ड. ऐसे नियमों एवं शर्तों, जिसे यह उपयुक्त समझता है, पर यथा आवश्यक के अनुसार अपने विवेक पर, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, प्रत्येक किस्म के व्यावसायिकों, कर्मचारियों को रखना, हटाना, बदलना, निलंबित करना, निष्कासित करना तथा/अथवा पारिश्रमिक देना;
- ढ. किसी व्यापार सदस्य से किसी सहमत नियमों एवं शर्तों पर उसके कंपनी के शेयरों अथवा स्टॉक अथवा उसके किसी अंश अथवा शेयर बाजार की व्यापार सदस्यता के समर्पण को स्वीकार करना;
- ण. कंपनी द्वारा किए गए किसी संविदा अथवा करार को गिरवी अथवा कंपनी की सभी या किसी संपत्ति की कीमत अथवा इसके द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी अन्य तरीके से पूरा करके सुनिश्चित करना;
- त. कंपनी द्वारा अथवा इसके खिलाफ अथवा इसके अधिकारियों अथवा कंपनी की गतिविधियों से अन्यथा संबंधित किसी कार्यवाई, मुकदमें तथा कानूनी कार्यवाई को विधिसार, संचालन, बचाव प्रशमन अथवा परित्याग करना तथा उसी कार्यवाई, मुकदमें तथा कानूनी कार्यवाई को प्रशमन अथवा राजीनामा अथवा विवाचन के लिए प्रस्तुत करना;
- थ. कंपनी को देय धन तथा कंपनी के दावों एवं मांगों को प्रस्तुत करना तथा प्राप्त, जारी व अन्य उन्मुक्ति देना;
- द. यह निर्धारित करना कि कंपनी की ओर से शेयर बाजार के बिलों, वचन पत्रों, लाभांशों समाशवासनों, चेक तथा अन्य परक्राम्य अभिलेखों, प्राप्तियों, स्वीकरणों, पृष्ठांकनों, नियुक्तियों, करारों, विलेखों तथा ऐसे अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन हकदार होगा;
- ध. समय-समय पर इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले तरीके से विदेश में कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन तथा विशेष रूप से अनु-प्रत्यायोजित शक्ति सहित ऐसी शक्तियों के साथ तथा उपयुक्त मानी गई शर्तों पर या तो विदेश अथवा भारत में कंपनी के वकील अथवा एजेंट बनने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति की व्यवस्था करना;
- न. कंपनी का कोई धन जो उस प्रयोजन के लिए तत्काल अपेक्षित है, को इसके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले प्रतिभूतियों में निवेश तथा संचालित करना;
- प. किसी निदेशक अथवा अन्य व्यक्ति, जो कंपनी के हित के लिए निजी दायित्व उठाता है अथवा उठाने जा रहा है, के पक्ष में इसके द्वारा उपयुक्त मानने के अनुसार कंपनी की सम्पत्ति (वर्तमान तथा भविष्य की) का रेहन कंपनी के नाम पर तथा उसकी ओर से निष्पादित करना तथा किसी ऐसे रेहन में विक्रय का अधिकार तथा ऐसे अन्य अधिकार, प्रसंविदा तथा प्रावधान शामिल होंगे जिस पर सहमति की जाएगी;
- फ. कंपनी के सामान्य लाभों में किसी विशेष कारोबार अथवा संव्यवहार अथवा शेयर के लाभों तथा/अथवा रॉयल्टी या लाभ पर कंपनी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति अथवा शेयर बाजार को कमीशन देना तथा लाभों के कमीशन, रॉयल्टी अथवा हिस्से को कंपनी के प्रचालन खर्च के भाग के रूप में माना जाएगा;

- ब. कंपनी/शेयर बाजार, इसके अधिकारियों तथा सेवकों के विनियमन के लिए समय-समय पर उप नियम, नियम तथा विनियमन बनाना, परिवर्तित करना तथा निरस्त करना;
- भ. सभी सौदेबाजी तथा करारों को करना और ऐसे सभी करारों को निरस्त तथा परिवर्तित करना और कंपनी के नाम पर अथवा उसकी ओर से ऐसे सभी कार्य, विलेख तथा चीजे करना तथा निष्पादित करना जिसे यह पूर्वोक्त किसी मामले के संबंध में अथवा अन्य प्रकार से कंपनी के प्रयोजन के लिए उचित समझता है;
- म. कर्मचारियों अथवा किसी मृतक कर्मचारी के आश्रितों, धर्मार्थ संस्थानों को वेतन, भत्तों, आनुतोषिक, बोनस, पारितोषिक, भेंट तथा उपहारों का निर्णय तथा भुगतान करना अथवा कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि तथा अन्य संस्थाओं का ग्राहक बनने का लक्ष्य बनाना; तथा
- य. कंपनी अधिनियम की धारा 292 के अधीन किसी उपयुक्त व्यक्ति को अधिकार प्रत्यायोजित करना।
52. **कंपनी के अधिवक्ता (अटॉर्नी)**
- क. बोर्ड किसी भी समय और समय-समय पर ऐसे उद्देश्यों और प्राधिकारियों की ऐसी शक्तियों और दी गई शक्तियों के अंतर्गत निर्णय शक्ति अथवा इन अंतर्नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त शक्तियों हेतु कंपनी की मोहर से किसी भी व्यक्ति अधिवक्ता की शक्तियों से युक्त कंपनी का अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह नियुक्ति उस अवधि या उन शर्तों के अनुरूप होगी जो बोर्ड समय-समय पर उपयुक्त समझता है और ऐसी कोई भी नियुक्ति, यदि बोर्ड उपयुक्त समझे तो, बोर्ड द्वारा प्रत्यक्षरूप से नामित किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में हो सकती है और अधिवक्ता की इन शक्तियों में बोर्ड के विचार में उपयुक्त ऐसे व्यक्तियों के संरक्षण या सुविधा के प्रावधान होंगे जो इस अधिवक्ता से व्यवहार करेंगे।
- ख. बोर्ड रूपरवर्णित ऐसे अधिकृत या अधिवक्ता को कुछ समय के लिए उसे दी गई सभी या कुछ शक्तियाँ, प्राधिकार या निर्णयशक्तियों के उपप्रत्यायोजन के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
53. **पंजिका अनुरक्षण के कर्तव्य**
- बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेगा और विशेष रूप से ऐसे प्रावधानों का जो कंपनी या उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों के गिरवी रखने और उन्हें प्रभावित करने वाले प्रभारों के विवरणों से संबंधित हों, निदेशकों की पंजिकाएँ रखना, कंपनी के अंशधारियों की वार्षिक सूची रजिस्ट्रार को भेजना और अंशों एवं स्कंध (शेयर एवं स्टॉक) के विवरण का सार, बोर्ड के विशेष संकल्पों और अन्य संकल्पों की प्रतियाँ जो अधिनियम की धारा 192 के अधीन रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करनी आवश्यक होती हैं और ऐसी सूचनाएँ या दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने होते हैं।
54. **कार्यवृत्त के अभिलेख अनुरक्षण का कर्तव्य**
- क. कंपनी, अधिनियम की धारा 193 से संबंधित प्रत्येक साधारण सभा की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों और बोर्ड अथवा उसकी कोई समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के अभिलेख रखने की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी।
- ख. किसी भी बैठक के अध्यक्ष ऐसे किन्हीं मामलों अथवा जो किसी व्यक्ति के अपमान का कारण हो सकता है अथवा अप्रासंगिक हो अथवा कार्यवाहियों से संबंधित नहीं हो, अथवा कंपनी के हितों के विपरीत हो, से अपना निर्णय पूर्णतः भिन्न रख सकता है।
55. **व्यवसाय आरंभ करने अथवा व्यवसाय की शाखा खोलने की शक्तियाँ**
- कोई भी शाखा या किसी भी प्रकार का व्यवसाय, जो कंपनी के संगम जापन द्वारा अथवा जिसे वह प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे अथवा कंपनी द्वारा विहित प्राधिकृत कार्य को बोर्ड द्वारा किसी भी समय अथवा बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले समयों पर और कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिकृत कार्य को आरंभ किया जा सकता है। अग्रिमतः, बोर्ड उन्हें अस्थगित रख सकता है, अथवा नहीं, उतने समय तक जब तक कि बोर्ड इसे आरंभ करना आवश्यक नहीं समझे अथवा ऐसी शाखा या व्यवसाय के प्रकार को बढ़ाना न चाहे।
56. **शक्तियों का प्रत्यायोजन**
- क. बोर्ड समय-समय पर किसी भी प्रबंध निदेशक / उप प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, किसी समिति / समितियों अथवा उन सभी शक्तियों जो कंपनी के कार्यों से संबंधित निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं और / अथवा एक्सचेंज और ऐसी शर्तों पर और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझता है (उनके अतिरिक्त जो कानून के अधीन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त करने आवश्यक होते हैं) और ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन में समय-समय पर परिवर्तन, आशोधन, प्रतिसंहरण अथवा संशोधन कर सकता है।
- ख. बोर्ड किसी भी समय उक्त शक्तियों के सभी अथवा किसी को प्रत्यायोजित कर सकता है और यह ऐसी निबंधनों और शर्तों पर होगा तथा ऐसे प्रतिबंधों जैसा कि बोर्ड उचित समझता है, या तो संयुक्त रूप से या अलग-अलग, इसके विवेकानुसार और समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजन को परिवर्तन, रद्द अथवा लागू कर सकता है।
57. **उधार लेने की शक्तियाँ**
- इन अंतर्नियमों के अध्याधीन, बोर्ड समय-समय पर परंतु अधिनियम की धारा 293 के अधीन आवश्यक कंपनी की साधारण सभा की ऐसी सहमति से कंपनी के उद्देश्यों के लिए किसी धनराशि के पुनर्भुगतान हेतु ऋणवृद्धि या उधार लेने अथवा सुरक्षित रखने का कार्य कर सकता है, बशर्त कि ये राशियाँ कंपनी द्वारा उधार ली जाएं, ये उधारी सामान्य व्यवसायिक कार्यों हेतु कंपनी के ऋणदाताओं से प्राप्त अस्थाई ऋणों

से भिन्न होंगी तथा कंपनी की साधारण सभा की स्वीकृति लिए बिना कंपनी की प्रदत्त पूँजी और उस मुक्त आरक्षित कोषों के कुल योग से अधिक नहीं होगी।

परंतु कंपनी को प्रत्येक संकल्प अथवा ऊपर वर्णित ऋणादान शक्ति के संबंध में यह पारित करना होगा कि उसमें बोर्ड द्वारा उधार ली जाने वाली कुल धनराशि का स्पष्ट उल्लेख हो। निदेशकगण बोर्ड की बैठक में ऋणपत्रों के अतिरिक्त निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत निदेशकगण की समिति अथवा प्रबंध निदेशक को ऊपर वर्णित उधार लेने की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकते हैं।

58. ऋणादान शक्ति एवं ऋणपत्रों का समनुदेशन

बोर्ड, इन वर्तमानों के अधीन, समय-समय पर, स्वविवेकानुसार, कंपनी के उद्देश्य के लिए ऐसे समय, और ऐसी विधि के अनुरूप, और ऐसी शर्तों के अंतर्गत जिन्हें वह उपयुक्त समझे, किसी धन अथवा धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए ऋणवृद्धि, अथवा ऋण लेना अथवा सुरक्षित रखने का कार्य कर सकता है, और विशेषतः, वचनपत्रों द्वारा, अथवा अधिविक्रय खाता खोलकर, अथवा प्रतिभूति गिरवी रखकर या प्रतिभूति के बिना जमाएँ और अग्रिम लेकर, अथवा बॉन्ड्स, स्थाई संपत्ति, गोपनीय संपत्ति, ऋणपत्रों अथवा कंपनी पर पूर्णतः अथवा कंपनी की संपत्ति के किसी भाग पर, वर्तमान और भविष्य में, कुछ समय के लिए कंपनी की अयाचित पूँजी सहित ऋणपत्र स्बंध द्वारा अथवा कंपनी की कोई भूमि, भवन, माल, संपत्ति और प्रतिभूति रहन रखकर, अथवा ऐसे अन्य कोई साधन जो समीचीन प्रतीत होते हों, द्वारा कर सकता है।

58 क. ²⁴ऋणपत्र निर्गमन की शर्तें

कोई ऋणपत्र, ऋणपत्र स्बंध अथवा अन्य प्रतिभूति बट्टे, प्रीमियम पर अथवा अन्य प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तों पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तों पर भी निर्गमित किए जा सकते हैं कि उन्हें किसी अभिधान और किसी ऐसे विशेषाधिकार से अंशों में परिवर्तित किया जा सकेगा और मोचन, समर्पण, आहरण, शेयर आवंटन, साधारण सभा में उपस्थिति (परंतु मतदान नहीं), निदेशकों की नियुक्ति, और अन्य प्रकार के ऐसे ऋणपत्र जो परिवर्तन अथवा अंश आवंटन के अधिकार से युक्त हों, की शर्तों पर केवल कंपनी की साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प की सहमति द्वारा ही निर्गमित किए जा सकेंगे।

59. सहमति

यदि अधिनियम में ऐसा आवश्यक हो तो आगे वर्णित मामलों पर किसी एक या सभी संकल्पों को कंपनी के सदस्यों की साधारण सभा के समक्ष उनकी सहमति के लिए रखना या लाना होगा:-

- क. नए शेयरों का निर्गमन;
- ख. औद्योगिक संपत्ति अधिकारों का विक्रय, क्रय और अनुज्ञापन;
- ग. अन्य कंपनियों में निवेश;
- ध. शेयर पूँजी में वृद्धि या कमी करना;
- ड.. किसी अन्य आधिकारिक व्यक्ति के साथ आमेहन अथवा उसके व्यवसाय को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अर्जित करना;
- च. समापन अथवा स्वैच्छिक दिवालियापन; और
- ज. कंपनी के व्यवसाय और कार्यों के संचालन से संबंधित विनियम बनाना ।

60. सरकार अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निदेशकों का नामांकन

यदि केंद्र सरकार, अथवा कोई राज्य सरकार अथवा इन सरकारों द्वारा प्रायोजित अथवा वित्त पोषित कोई औद्योगिक वित्त निगम अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था, बैंक अथवा ऋण प्रदान करने वाली अथवा कंपनी की पूँजी में किसी वित्तीय उत्तरदायित्व की पालना में कंपनी की पूँजी में भागीदारी स्वीकार करने वाली एजेंसी हो तो ऐसी सरकार, निगम, अन्य वित्तीय संस्था अथवा बैंक, यदि कंपनी ऐसी सहमति देती है तो, हकदार हो सकते हैं, ऐसी सरकार, निगम, अन्य वित्तीय संस्था अथवा बैंक, इन व्यवस्थाओं की शर्तों के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल पर तब तक के लिए ऐसी सरकार, निगम, अन्य वित्तीय संस्था अथवा बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए एक निदेशक नामित करने और समय-समय पर ऐसे नामिती के स्थान पर किसी अन्य को प्रतिस्थापित करने के लिए साखधारी अथवा अंशधारी बने रहेंगे। इस प्रकार से नामित निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अथवा अंशों संबंधी कोई योग्यता धारण नहीं करेगा। नियुक्ता सरकार, निगम, अन्य वित्तीय संस्था अथवा बैंक, समय-समय पर ऐसे नियुक्त व्यक्ति को निष्कासित और नियुक्त अथवा ऐसे व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य को पुनर्नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे निदेशक कार्यालय में किसी कारणवश कोई पद रिक्त होने की दशा में सरकार, निगम, अन्य वित्तीय संस्था अथवा बैंक, जिसने उसे नियुक्त किया था, ऐसे रिक्त पद को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर भर सकते हैं।

61. अयाचित पूँजी के उत्तरवर्ती अभ्यर्पिती

जब किसी कंपनी में कोई अयाचित पूँजी प्रभारित की जाती है तो ऐसे उत्तरवर्ती प्रभार लेने वाले सभी व्यक्ति, उसी प्रकार उत्तराधिकारी होंगे और ऐसे प्रभार हेतु पूर्व में कोई प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों अथवा अन्य किसी को सूचना देने के हकदार नहीं होंगे।

²⁴ 13 जनवरी, 2006 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा जोड़ा गया

62. बोर्ड द्वारा केवल बैठक में प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ

यहाँ वर्णित अनुच्छेदों के प्रावधानों के अध्यक्षीन बोर्ड, कंपनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और इन शक्तियों का प्रयोग बोर्ड की बैठक में संकल्प पारित होने पर ही होगा:-

- क. शेयरधारियों को उनके शेयरों पर बकाया राशि के लिए कॉल करने की शक्ति;
- ख. ऋणपत्र निर्गमन की शक्ति;
- ग. ऋणपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से धन उधार लेने की शक्ति;
- घ. कंपनी के कोषों को विनियोजित करने की शक्ति;
- च. ऋण प्रदान करने की शक्ति;
- छ. कंपनी के शेयरों के प्रतिक्रय की शक्ति।

63. समिति / प्रबंध निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिनियम की धारा 292 के अध्यक्षीन और के अनुसार बोर्ड, बैठक में पारित संकल्प द्वारा, किसी समिति अथवा प्रबंध निदेशक / उप प्रबंध निदेशक अथवा किसी कर्मचारी(यों) को ऊपर वर्णित अंतर्नियमों के उपबंध (ग), (घ) और (ङ.) में वर्णित शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक संकल्प में प्रत्यायोजित शक्तियाँ विनिर्दिष्ट होंगी कि:-

- क. उपबंध (ग) में किसी भी समय उन कुल बकाया धनराशियों का वर्णन होगा जिनके बराबर उक्त प्रतिनिधि द्वारा धन उधार लिया जा सकेगा।
- ख. उपबंध (घ) में उन धनराशियों का वर्णन होगा जिनके बराबर धन विनियोजित किया जा सकेगा और ऐसे विनियोग की प्रकृति जो प्रतिनिधि द्वारा किए जा सकेंगे।
- ग. उपबंध (ङ.) में उन धनराशियों का वर्णन होगा जिनके बराबर प्रतिनिधि द्वारा ऋण लिए जा सकेंगे और वे उद्देश्य जिनके लिए ऋण लिए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक मामले में लिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि का वर्णन होगा।

64. बोर्ड द्वारा केवल बैठक में प्रयुक्त की जाने वाली अन्य शक्तियाँ

बोर्ड अधिनियम की धारा 262, 292, 297, 316, 372 क और 386 में संदर्भित शक्तियों का केवल बोर्ड की बैठक में प्रयोग करेगा।

65. प्रबंधन

बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य प्रचालन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है

- क. अधिनियम के प्रावधानों और अनुच्छेदों के अध्यक्षीन, कंपनी का बोर्ड उन शर्तों के अंतर्गत जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य प्रचालन अधिकारी, अथवा कंपनी के मुख्य कार्यकारी को नियुक्त और सेवा समाप्त कर सकता है।
- ख. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य प्रचालन अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी का पारिश्रमिक प्रतिमाह एक निश्चित भुगतान के रूप में अथवा लाभों में भागीदारी के रूप में अथवा उपयुक्त विषयों में से एक या अधिक के संयोजन के रूप में अथवा किसी अन्य विधि से जिसे अधिनियम द्वारा स्पष्टतः प्रतिबंधित नहीं किया गया हो होगा।
- ग. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य प्रचालन अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी, बोर्ड के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यक्षीन उन शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें बोर्ड समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

66. प्रबंधकों की नियुक्ति

यदि किसी समय कंपनी के पास मुख्य प्रचालन अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी कार्यरत नहीं हो तो कंपनी के व्यवसाय का प्रबंध बोर्ड द्वारा किया जाएगा और यह ऐसे ढंग से और ऐसे अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा जिसे बोर्ड उचित समझता है और बोर्ड यदि वे ऐसा उचित समझते हैं तो अधिनियम की धारा 197 क के प्रावधानों के अध्यक्षीन और ऐसी स्वीकृति से, यदि कोई हो, जो इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को कंपनी के प्रबंधक (प्रबंधकों) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और नियुक्ति ऐसे पारिश्रमिक पर सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं।

67. सामान्य मोहर

बोर्ड कंपनी की एक सामान्य मोहर बनवाएगा और उसे समय-समय पर समाप्त करने अथवा उसके स्थान पर नई मोहर बनाने की शक्ति बोर्ड को होगी।

68. सामान्य मोहर को प्रयुक्त करना

इन प्रस्तुतियों के अध्यक्षीन, मोहर, बोर्ड के संकल्प द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा बोर्ड की ओर से प्राधिकृत बोर्ड की समिति के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किसी भी दस्तावेज पर मोहर नहीं लगाई जाएगी जब तक कि बोर्ड अन्यथा कुछ निर्धारित नहीं करे, प्रत्येक विलेख या लिखत, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक हो, जब तक कि ऐसा दस्तावेज कंपनी के लिए नियुक्त समनुदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया हो, पर कम से कम एक निदेशक के हस्ताक्षर होंगे जिनकी उपस्थिति में वह मोहर लगाई गई है, और ये हस्ताक्षर सचिव अथवा बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए, बशर्ते तथापि कि, कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर कंपनी की मोहर हो और वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्गमित हो, तो वह कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा, चाहे प्राधिकृत व्यक्ति ने इसे कोई अनियमितता होते हुए निर्गमित किया हो।

लाभांश एवं संचितियाँ

69. **लाभांश की घोषणा**
कंपनी अपनी साधारण सभा में लाभांश की घोषणा कर सकती है परंतु यह लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा।
70. **अंतरिम लाभांश**
बोर्ड समय-समय पर सदस्यों को ऐसे अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकता है जो कंपनी के लाभों में से तर्कसंगत प्रतीत होता हो।
71. **लाभांश केवल लाभों से अदा किया जाएगा**
वर्ष विशेष के लाभों अथवा किन्हीं अन्य अयितरित लाभों, जो अधिनियम की धारा 205 में प्रावधानित लाभों के अतिरिक्त हों, के अतिरिक्त अन्य कहीं से कोई लाभांश भुगतान योग्य नहीं होगा।
72. **आरक्षित**
क. बोर्ड किसी लाभांश की सिफारिश करने से पूर्व कंपनी के लाभों में से आरक्षित के तौर पर अलग रख सकेगा जैसा वह उचित समझता है, कंपनी के लाभों से उपयोजन जिस किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है वैसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत आकस्मिकताओं से निपटने तथा लाभांशों का समतुलन आता है, उन राशियों का उपयोजन बोर्ड के विवेकानुसार किया जाएगा तथा ऐसा उपयोजन किए जाने या लंबित रहने तक वे राशियां वैसे ही विवेकानुसार कंपनी के कारबार में लगाई जा सकेंगी या ऐसे विनिधानों में विनिहित की जा सकेंगी जैसा बोर्ड समय-समय पर ठीक समझे।
ख. बोर्ड किन्हीं लाभों को, जिनकी बाबत समझबूझ की समझता है कि उनका विभाजन न किया जाए, आरक्षित के रूप में अलग रखे बिना अग्रणीत कर सकेगा।
73. **शेयरों पर प्रदत्त राशियों का लाभांश**
क. ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो लाभांश के बारे में विशेष अधिकारों सहित शेयरों के हकदार हैं, सब लाभांश उन रकमों के अनुसार, जो उन शेयरों लेखे जिनकी बाबत लाभांश दिया जाना है, समादत्त की गई हैं या संदत और रकम के रूप में जमा कर ली गई है, घोषित किए जाएंगे।
ख. ऐसी किसी रकम की बाबत, जो आहूत किए जाने से पहले अग्रिम शेयर लेखे समादत्त कर दी गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है, इन विनियमनों के प्रयोजन के लिए यह न माना जाएगा कि शेयर लेखे समादत्त कर दी गई है।
ग. सभी लाभांश उन रकमों के अनुपात में प्रभारित किए और दिए जाएंगे जो ऐसी किसी कालावधि के, जिस लेखे वह लाभांश दिया जाता है, प्रभाग या प्रभागों के दौरान शेयर लेखे समादत्त की गई है या समादत्त मानी जाकर जमा कर ली गई है। किंतु यदि कोई शेयर उन निबंधनों पर, जिनसे यह उपबंधित है कि वह ऐसे दर्जे का है कि विशिष्ट तारीख से वह लाभांश का हकदार होगा, निगमित किया गया है तो वह शेयर अपने दर्जे के अनुसार लाभांश के लिए हकदार होगा।
74. **आहूत के विरुद्ध लाभांशों का समायोजन**
किसी आम सभा में लाभांश या बोनस की घोषणा किए जाने पर शेयरधारक से ऐसी निर्धारित की गई राशि की माँग कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक शेयरधारक द्वारा भेजी जाने वाली राशि उसे भुगतान योग्य लाभांश या बोनस से अधिक नहीं होगी और ऐसी माँग का भुगतान लाभांश अथवा बोनस के भुगतान के समय किया जाएगा और ऐसे लाभांश अथवा बोनस की माँग के भुगतान का निपटारा कंपनी और सदस्यों के बीच हुई किसी व्यवस्था से होगा।
75. **चैक अथवा अधिपत्र द्वारा भुगतान**
क. शेयरों की बाबत नकद देय कोई लाभांश, ब्याज या अन्य धन, धारक के रजिस्ट्रीकृत पते या संयुक्त धारकों की दशा में, संयुक्त धारकों में से एक के रजिस्ट्रीकृत पते पर, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सबसे ऊपर दिया हुआ है या ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पतों पर, जैसा धारक या संयुक्त धारक लिखित रूप में निर्दिष्ट करे, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से भेजी गई चैक या भेजे गए अधिपत्र के जरिए किया जा सकेगा।
ख. ऐसा हर चैक या ऐसा हर अधिपत्र ऐसे लिखा जाएगा कि वह उस व्यक्ति के आदेशानुसार, जिसे वह भेजा जाता है, देय होगा।
ग. प्रत्येक ऐस चैक या अधिपत्र को कंपनी अधिनियम में वर्णित रीति से लाभांश की घोषणा की तारीख से एक अवधि के अंदर डाक से भेजा जाएगा।
76. **संयुक्त -धारकों की रसीदें**
शेयर के दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे शेयर की बाबत देय किन्हीं लाभांशों, बोनसों या अन्य धन के लिए पक्की रसीदें दे सकेगा।
77. **लाभांश पर कोई ब्याज नहीं**
किसी भी लाभांश पर कोई ब्याज कंपनी द्वारा देय न होगा।

78. ²⁵अदावाकृत लाभांश

जहां किसी कंपनी ने लाभांश की घोषणा की हो परंतु उसका भुगतान नहीं किया गया हो अथवा उसके संबंध में घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर लाभांश के भुगतान के हकदार किसी शेयरधारक को इस संबंध में लाभांश अधिपत्र प्रेषित नहीं किया हो, तो कंपनी को, 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर, इसके लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक विशेष खाता खोलना होगा जो "मल्टी कमाडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड का अदत्त लाभांश" नाम से होगा और लाभांश की ऐसी कुल धनराशि इस खाते में अंतरित करनी होगी जो अदत्त मानी जाएगी अथवा यह ऐसी राशि होगी जिसके लिए कोई लाभांश अधिपत्र प्रेषित नहीं किया गया हो।

कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित ऐसी धनराशि, जो ऐसे अंतरण की तिथि से 7 दिन की अवधि के लिए अदत्त अथवा अदावाकृत होगी, उसे कंपनी को अधिनियम की धारा 205 ग के अधीन बनाए गए कोष में अंतरित करना होगा।

बोर्ड द्वारा किसी भी अदावाकृत लाभांश अथवा अदत्त लाभांश का समपहरण नहीं किया जाएगा।

79. लाभांश की सूचना

घोषित किए जाने किसी वाले लाभांश की सूचना अंशधारियों को अधिनियम में वर्णित विधि के अनुसार दी जाएगी।

80. लाभों का पूंजीकरण

क. इन अनुच्छेदों के अधीन, कंपनी साधारण अधिवेशन में यह संकल्प बोर्ड की सिफारिश पर कर सकेगी कि :

- i) यह वांछनीय है कि कंपनी के आरक्षित खातों में से किसी में या लाभ इसके खाते में तत्समय जमा या अन्यथा वितरण के लिए उपलब्ध रकम के किसी भाग का पूंजीकरण किया जाए, तथा
- ii) ऐसी राशि तदनुसार इन अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट रीति से उन सदस्यों के बीच, जो उसके उस दशा में हकदार होते जिसमें कि वह रकम लाभांश के रूप में वितरित की जाती और उसी अनुपात में वितरित की जाने के लिए मुक्त कर दी जाए।

ख. उपरोक्त राशि नकद नहीं दी जाएगी किंतु उसका उपयोग इसमें अंतर्विष्ट उपबंध के अधीन रहते हुए :-

- i) उन शेयरों लेखों जो क्रमशः उन सदस्यों द्वारा धृत हैं तत्समय असमादत्त बच रही कोई रकम देने में या देने के निमित्त किया जाएगा;
- ii) कंपनी के अनिर्गमित शेयरों लेखे पूर्णतः समादान करने में किया जाएगा जिनकी बाबत यह मानकर कि वे पूर्णतः समादत्त हैं उनकी रकम पूर्णतः जमा दिखा दी जाकर जिनका आवंटन या वितरण ऐसे सदस्यों को और उनके बीच पूर्वोक्त अनुपात में किया जाना है ; अथवा
- iii) भागतः उपखंड ख(i) में विनिर्दिष्ट रूप में और भागतः उपखंड ख (ii) में विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।

ग. शेयर प्रीमियम खाते तथा पूंजी मोचनार्थ आरक्षित खाते का इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग अनिर्गमित ऐसे शेयरों लेखे जो कंपनी के सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस शेयरों के रूप में निर्गमित किए जाने वाले हैं, संदाय करने में किया जाएगा।

घ. बोर्ड इस अनुच्छेद के अनुसरण में साधारण बैठक में कंपनी द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रभाव देगा।

81. बोनस घोषणा के लिए निदेशक की शक्ति

क. जब ऊपर वर्णितानुसार बोनस घोषणा और वितरण के लिए कोई संकल्प पारित हो जाता है तो बोर्ड को:-

- i) पूंजीकरण हेतु संकल्पित अविभाजित लाभों के सभी विनियोजन और प्रयोजन करने होंगे और सभी आवंटन करने होंगे और यदि कोई हों, तो पूर्ण प्रदत्त अंश निर्गमित करने होंगे, और
- ii) वे सभी सामान्य आवश्यक कार्य एवं अपेक्षाएँ पूर्ण करनी होंगी जिन्हें अंतर्नियमों में प्रभावी माना जाता है।

ख. बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

- i) यदि अंश खंडों (टुकड़ों) में वितरण योग्य हो रहे हों, तो उनके लिए खंड प्रमाणपत्र जारी करने अथवा नकद भुगतान करने अन्य किसी प्रकार जैसा कि बोर्ड उपयुक्त समझे, के लिए प्रावधान बनाना और यह भी कि :-
- ii) किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत करना, जो सभी उन हकदार सदस्यों की ओर से, उन्हें क्रमशः आवंटन करने, पूर्णतः प्रदत्त के रूप में जमा करने अथवा अन्य ऐसे अंश जिनके पूंजीकरण के लिए वे हकदार हैं अथवा (यदि आवश्यक हो) पूंजीकरण के लिए रोके गए लाभों में से उनके आनुपातिक हिस्सों के उनकी ओर से उनके याचित कंपनी द्वारा भुगतानों अथवा उनके वर्तमान अंशों पर बकाया अदत्त धनराशि के भुगतान के लिए, कंपनी के साथ अनुबंध करे।

ग. ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अनुबंध या करार प्रभावी होगा और सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होगा।

²⁵ दिनांक 13 जनवरी, 2006 की एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा जोड़ा गया

खाते

82. खाता बही

क.

बोर्ड, कंपनी द्वारा प्राप्त और खर्च की जाने वाली समस्त राशियाँ और प्राप्तियाँ एवं खर्चों संबंधी कागजात और कंपनी द्वारा सभी प्रकार के माल के क्रय और विक्रय अथवा सेवाएँ, कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों संबंधी रखे जाने वाले लेखाओं की खाताबही रखेगा, यदि कंपनी भारत में या भारत से बाहर कोई शाखा कार्यालय खोलेगी, तो ऐसे शाखा कार्यालय में किए जाने वाले कार्यव्यवहारों की खाता बही रखी जाएगी और शाखा कार्यालय द्वारा बीच-बीच में एक नियत तिथि को, तीन माह से अधिक देरी से नहीं, खाता बहियों की समुचित सारांश विवरणी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा भारत में कहीं अन्यत्र, जैसा कि बोर्ड उपयुक्त समझे, जहाँ कंपनी की मुख्य खाता बहियाँ रखी जाती हैं, को भेजनी होंगी। बशर्ते कि ऊपर वर्णित सभी या कोई खाता बही बोर्ड द्वारा निर्णीत भारत में अन्यत्र रखी जा सकती हैं, और जब बोर्ड ऐसा निर्णय लेता है तो कंपनी को इस निर्णय के सात (7) दिन के भीतर पंजीयक को ऐसे अन्य स्थान का पूर्ण पता देते हुए लिखित में सूचना देनी होगी।

ख.

उपर्युक्त वर्णित खाता बही कंपनी अथवा इसके शाखा कार्यालय, जैसी भी स्थिति हो, उपरोक्त विषयों पर एवं उसके कार्यव्यवहारों को बताते हुए, की सही एवं वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करेंगी।

83. सदस्यों द्वारा निरीक्षण

बोर्ड, समय-समय पर यह निर्धारित करेगा कि कैसे और किस हद तक और किस समय एवं स्थान पर और किन परिस्थितियों में अथवा विनियमों के अधीन, कंपनी की खाताबहियाँ और दस्तावेजों अथवा उनमें से कोई एक सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और किसी भी अंशधारी (निदेशक नहीं) को कंपनी के खाते अथवा खाता बहियाँ अथवा दस्तावेजों का विधि द्वारा अनुमति होने अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत करने अथवा कंपनी द्वारा साधारण सभा की बैठक में ऐसा संकल्प पारित करने के अलावा निरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

खाता बहियों का अंकेक्षण

84. लेखा परीक्षा

कंपनी के प्रत्येक चिट्ठा और लाभ एवं हानि खाते का बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त एक अंकेक्षक या अधिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा।

85. दस्तावेज और सूचनाओं को वितरित करना

कंपनी द्वारा/पर दस्तावेजों को वितरित करना

कंपनी अथवा उसके किसी अधिकारी द्वारा कंपनी को अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अधिकारी को डाक द्वारा डाक प्रमाणपत्र के अधीन, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अथवा पंजीकृत कार्यालय में भेजते हुए एक दस्तावेज सौंपना होगा।

86. दस्तावेज प्रस्तुत करना

क. एक दस्तावेज (जिसमें इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट उल्लेख होगा कि उसमें कंपनी से संबंधित अथवा

कंपनी के समापन संबंधी कोई सम्मन, नोटिस, माँगपत्र, प्रक्रिया, आदेश, वाचिक निर्णय समाविष्ट हैं) कंपनी द्वारा किसी अंशधारी पर या उसे व्यक्तिशः अथवा उसके पंजीकृत पते पर कंपनी द्वारा डाक से भेजकर प्रस्तुत करना अथवा भेजना होगा।

ख. किन्हीं पंजीकृत शेषों के संबंध में सभी नोटिस जिनके लिए व्यक्ति संयुक्त रूप से हकदार हैं ऐसे व्यक्तियों में से जिसका भी नाम रजिस्टर में पहले हो और इस प्रकार दिया गया नोटिस ऐसे शेषों के सभी धारकों के लिए पर्याप्त होगा।

ग. जहां किसी सदस्य ने कंपनी को पहले से सूचित किए हो कि उसको दस्तावेज डाक से भेजने के प्रमाणपत्र के तहत अथवा पंजीकृत डाक से देय पावती अथवा उसके बिना भेजे जाएँ और उसने ऐसा करने के व्ययों को चुकाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त राशि जमा की हो तो दस्तावेजों का वितरण किया गया नहीं माना जाएगा यदि इसे सदस्य द्वारा सूचित ढंग से नहीं भेजा जाता है।

घ. किसी सदस्य को बैठक के नोटिस के मामले में, जिसका पंजीकृत पता भारत में है, उसके पंजीकृत पते पर नोटिस वाले पत्र को पोस्ट करने के पश्चात् अड़तालीस (48) घंटे समाप्ति पर नोटिस को वैध रूप से वितरित माना जाएगा और किसी अन्य मामले में उस समय पर जब पत्र साधारण अवधि में वितरित होगा।

87. भारत के बाहर दस्तावेज वितरित करना

इन अनुच्छेदों में विहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, कंपनी किसी सदस्य, जिसका पंजीकृत पता भारत के बाहर स्थित है, के लिखित अनुरोध पर :

क. ऐसे सदस्य को ऐसे पंजीकृत पते पर नोटिस के किसी दस्तावेज की प्रति पूर्वदत्त पंजीकृत एयरमेल द्वारा वितरित करेगी

ख. इसके साथ-साथ दस्तावेज अथवा नोटिस का सार ऐसे सदस्य द्वारा प्रदान किए गए टेलेक्स नम्बर अथवा फैक्स नम्बर पर टेलेक्स द्वारा भेजेगी।

- ऐसी पंजीकृत एयरमेल अथवा टेलेक्स अथवा फैक्स की लागत संबंधित शेयरधारक की होगी जो समय-समय पर कंपनी के अनुरोध पर उसकी लागत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त राशि जमा करेगा।
88. **मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर शेयरों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वितरण**
 किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालिया होने के फलस्वरूप किसी शेयर के पात्र व्यक्ति को कंपनी द्वारा कोई दस्तावेज उनको नाम द्वारा अथवा मृतक के प्रतिनिधियों के नाम अथवा दिवालिया के प्रतिनिधियों अथवा पात्र व्यक्तियों के किसी मिलते-जुलते विवरण द्वारा सम्बोधित पूर्वदत्त डाक से माध्यम से भेजकर कंपनी द्वारा कोई दस्तावेज वितरित किया जा सकता है अथवा (जब तक ऐसा पता इस प्रकार दिया गया हो) दस्तावेज किसी भी ढंग से जिसमें उसे वितरित किया गया होता यदि मृत्यु अथवा दिवालिया न हुआ होता दस्तावेज वितरित करके।
89. **आम बैठक का नोटिस**
 अधिनियम और इन अनुच्छेदों के अध्यधीन आम बैठक का नोटिस निम्न को दिया जाएगा :
 क. कंपनी के सदस्यों को इन अनुच्छेदों द्वारा अथवा अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत किसी ढंग से।
 ख. किसी शेयरधारक की मृत्यु अथवा दिवालिया होने के फलस्वरूप किसी शेयर के धारक व्यक्ति को इन अनुच्छेदों द्वारा यथा प्रावधान अथवा अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत ढंग से।
 ग. कंपनी के वर्तमान में लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों को जैसाकि कंपनी के किसी सदस्य के मामले में होता है, अधिनियम में यथा अधिकृत किसी ढंग से।
90. **विज्ञापनों द्वारा नोटिस**
 अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन सदस्यों अथवा उनमें से किसी को और इन अनुच्छेदों द्वारा अन्यथा प्रावधान न किए गया हो, कंपनी द्वारा वितरित किए जाने वाले अथवा वितरित करने की अपेक्षा वाले किसी दस्तावेज को जिले, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में यदि किसी समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया जाता है उसे यथोचित रूप से वितरित अथवा भेजा गया माना जाएगा।
91. **पूर्ववर्ती धारकों को दिए गए दस्तावेजों के लिए सदस्य की देनदारी**
 पूर्ववर्ती धारकों को दिए गए दस्तावेजों के लिए शेयरधारकों की देनदारी प्रत्येक व्यक्ति, जो विधि के प्रचालन, अंतरण अथवा किसी भी तरह से अन्य साधनों द्वारा किसी शेयर के लिए पात्र हो जाता है, रजिस्टर में उसका नाम और पता प्रविष्ट करने से पूर्व ऐसे शेयर के संबंध में प्रत्येक दस्तावेज द्वारा आवद्ध हो जाएगा जिसे यथोचित रूप से उस व्यक्ति को वितरित करने अथवा भेजे जाने हैं जिससे उसने ऐसे शेयर के लिए अपना अधिकार प्राप्त किया है।
92. **नोटिसों पर हस्ताक्षर करना**
 कंपनी द्वारा दिए गए किसी नोटिस पर प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, अथवा ऐसे निदेशक अथवा अधिकारी, जिसे बोर्ड नियुक्त करे, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले किसी नोटिस पर हस्ताक्षर लिखित, मुद्रित अथवा लिथोग्राफ किए गए हो सकते हैं।
दस्तावेजों का प्रमाणीकरण
93. **कार्यवाही के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण**
 अधिनियम अथवा इन अनुच्छेदों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान के सिवाए, कार्यवाही का कोई दस्तावेज जिस पर कंपनी का प्रमाणीकरण अपेक्षित हो, उस पर कंपनी के निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है और उस पर उसकी मुहर की आवश्यकता नहीं है।
परिसमापन
94. **समापन पर आस्तियों का वितरण**
 यदि कंपनी को समाप्त किया जाता है और सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध आस्तियां चुकता इक्विटी पूंजी या चुकता की जाने वाली इक्विटी पूंजी का संपूर्ण वापस-अदा करने के लिए अपर्याप्त हो तो ऐसी आस्तियां इस प्रकार वितरित की जाएंगी कि सदस्यों द्वारा क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों पर हानियां समापन शुरू करने पर इक्विटी चुकता पूंजी या माने जाने वाली इक्विटी चुकता पूंजी के अनुपात में वहन की जाएंगी; और यदि समापन में सदस्यों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध आस्तियां समापन के शुरू करने पर संपूर्ण चुकता इक्विटी पूंजी वापस-अदा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हो तो अतिरिक्त को सदस्यों के बीच क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों पर समापन शुरू करने पर चुकता इक्विटी पूंजी या मानी गई चुकता इक्विटी पूंजी के अनुपात में वितरित की जाएगी। समापन की दशा में, जहां पूंजी किन्हीं शेयरों पर मांग की अग्रिम चुकता, इस शर्त पर की जाती है कि इस पर ब्याज मिलेगा, की जाती है, वहां ऐसी पूंजी को अलग कर दिया जाएगा और यह सहमत ब्याज दर के साथ चुकता पूंजी या मानी गई चुकता पूंजी पर वितरण किए जाने से पूर्व पूरी वापस-अदा की जाएगी। इस अनुच्छेद के प्रावधान कंपनी की पूंजी का भाग बनने वाली शेयरों की किसी विशेष श्रेणी से सम्बद्ध किन्हीं अधिकारों या देनदारियों के अध्यधीन होंगे।
95. **सोने-चांदी में आस्तियों का विभाजन**
 यदि कंपनी को चाहे स्वैच्छिक रूप से या अन्यथा परिसमाप्त किया जाएगा तो समापक विशेष संकल्प की मंजूरी से सदस्यों के बीच सोना-चांदी अथवा माल में कंपनी की किसी आस्ति को विभाजित करेगा, और इसी प्रकार की मंजूरी से सदस्यों अथवा उनमें से किसी के लाभ के लिए ऐसे विश्वास से ट्रस्टियों के पास कंपनी की आस्तियों के किसी भाग को रखेगा, जैसाकि समापक ऐसी स्वीकृति से उचित समझते हैं, ताकि किसी सदस्य को किन्हीं शेयरों या प्रतिभूतियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य न किया जा सके जिनमें कोई देनदारी हो। यथापूर्वोक्त विभाजित किए जाने वाले शेयरों या प्रतिभूतियों के मामले में काल अथवा अन्यथा कोई देनदारी अंतर्गस्त हो तो उक्त प्रतिभूतियों के शेयरों के लिए ऐसे विभाजन के तहत पात्र व्यक्ति

विशेष संकल्प के पारित किए जाने के दस दिन के अंदर समापकों को लिखित में उसके अनुपात को बेचने और उसको निवल प्रतिफल अदा करने का नोटिस दे सकता है, और समापक, यदि व्यवहार्य हो, तदनुसार कार्यवाही करेंगे।

क्षतिपूर्ति और जिम्मेदारी

96. क्षतिपूर्ति के लिए निदेशकों और अन्यो का अधिकार

क. अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्ष, कंपनी का प्रबंध, तकनीकी, कार्यकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक, सचिव, लेखा परीक्षक, सलाहकार और प्रत्येक अधिकारी अथवा कर्मचारी की कंपनी द्वारा सभी उचित रूप से तैयार दस्तावेजों की लागत, हानियां और व्यय, जिसमें यात्रा व्यय शामिल है, जो कोई ऐसा प्रबंध, तकनीकी, कार्यकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक, सचिव, लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी अथवा कर्मचारी खर्च करता है अथवा उसके द्वारा किए गए संविदा अथवा कार्य अथवा विलेख और ऐसे प्रबंध, तकनीकी, कार्यकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक, निदेशक, सचिव, लेखा परीक्षक अथवा कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अन्य ढंग से दायी हो जाता है तो कंपनी निधियों से भुगतान करेगी।

ख. पूर्वोक्त के अध्यक्ष, कंपनी का प्रबंध, तकनीकी, कार्यकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक और प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही, चाहे सिविल या आपराधिक हो, का बचाव करने में जिसमें निर्णय उनके या उसके पक्ष में दिया जाता है अथवा जिसमें वे या वह अधिनियम की धारा 633 के तहत किसी आवेदन से संबद्ध हो, जिसमें न्यायालय द्वारा उनको अथवा उसे राहत दी जाती है, उनके अथवा उसके द्वारा हुई किसी देनदारी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जाएगी।

97. अन्यो के कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं

क. अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अध्यक्ष, कंपनी का कोई निदेशक अथवा अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी के कार्यों, प्राप्ति, उपेक्षाओं अथवा चूक अथवा किसी प्राप्ति में शामिल होने के लिए अथवा अनुरूपता के लिए अन्य कार्य अथवा कंपनी की ओर से अथवा निदेशक के आदेश द्वारा अधिग्रहित किसी परिसम्पत्ति के लिए अधिकार की अपर्याप्तता अथवा कमी के माध्यम से कंपनी को होने वाली किसी हानि अथवा व्ययों, अथवा किसी प्रतिभूति में अपर्याप्तता अथवा कमी व्यक्ति के दिवालियापन, दिवाले अथवा कुटिल कार्य से होने वाली हानि अथवा क्षति के लिए, कंपनी अथवा निगम जिसके पास कोई धनराशियां, प्रतिभूतियां अथवा प्रभाव सौंपा जाएगा अथवा जमा किया जाएगा अथवा उसके भाग पर निर्णय या असावधानी की गलती से हुई हानि, अथवा उसके कार्यालय अथवा उसके संबंध में कर्तव्यों के निष्पादन में कोई अन्य हानि अथवा क्षति अथवा दुर्भाग्यवश कुछ भी होता है, जब तक कि ऐसा उसके द्वारा स्वयं जानबूझकर किया जाता है अथवा चूक से होता है, कंपनी जिम्मेदार होगी।

ख. पूर्वोक्त के प्रति सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, एतद्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा की जाती है कि निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा, उक्त कार्यालय को धारण करने की वजह से किए गए कार्य के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाले किसी दस्तावेज पर दाखिल किया जाने वाला शुल्क कंपनी द्वारा अदा और वहन किया जाएगा।

98. गोपनीयता

क. किसी भी सदस्य को, निदेशकों अथवा बोर्ड या प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति के बिना कंपनी का दौरा अथवा निरीक्षण या अपेक्षित अन्वेषण, या कोई सूचना कंपनी के व्यवसाय का कोई व्यौरा या अन्य मामला जो व्यवसाय की गोपनीयता, व्यवसाय के रहस्य अथवा गुप्त प्रक्रिया के स्वरूप का है या हो सकता है, अथवा जो कंपनी के व्यवसाय से संबंधित हो और जो बोर्ड के विचार से कंपनी हित में जनता को सम्प्रेषित करना समीचीन होगा, का हक नहीं होगा।

ख. कंपनी के व्यवसाय में प्रत्येक निदेशक, प्रबंध, तकनीकी, पूर्णकालिक, कार्यकारी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, लेखा परीक्षक, ट्रस्टी, समिति का सदस्य, अधिकारी, एजेंट, लेखाकार, कर्मचारी या अन्य नियोजित व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को शुरू करने से पहले, या कंपनी में अपनी अवधि के दौरान किसी समय कंपनी के लेन-देनों के संबंध में कड़ी गोपनीयता, कंपनी के पास सभी तकनीकी सूचना और खातों की स्थिति और उससे संबंधित मामलों के लिए उसको वचन पर हस्ताक्षर करने होंगे, यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, और ऐसी घोषणा के द्वारा कोई भी मामला जो उसकी इयूटियों के निर्वहन के दौरान उसकी जानकारी में आता है को न प्रकट करने का वचन देना होगा, सिवाए इसके जब उसे बोर्ड या किसी आम बैठक या न्यायालय अथवा उन व्यक्तियों को जिनसे मामले संबंधित हों द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो और सिवाए इन अनुच्छेदों में विहित किन्हीं प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से जैसा आवश्यक हो।

99. ²⁶ सचिव

क. इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्ष, निदेशक बोर्ड अधिनियम के तहत सचिव द्वारा निष्पादित की जाने वाले इयूटियों के निष्पादन और अधिनियम के तहत अपेक्षित रजिस्टर रखने की इयूटी सहित अन्य विशुद्ध रूप से शासकीय और प्रशासनिक इयूटियां, जैसा कि निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर सचिव को सौंपी जाती हैं, के लिए कंपनी के पूर्णकालिक सचिव के रूप में किसी अर्हताप्राप्त वैयक्तिक की समय-समय पर नियुक्ति कर सकता है।

ख. निदेशक बोर्ड किसी भी समय पूर्णकालिक सचिव के स्थान पर अस्थायी अर्हताप्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है जो अनुच्छेदों के प्रयोजन हेतु सचिव माना जाएगा।

²⁶ दिनांक 13 जनवरी, 2006 की ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा जोड़ा गया।

हम बहुत से व्यक्ति जिनके नाम, विवरण और अंशदान निम्नानुसार हैं, इस संगम अनुच्छेद के अनुसरण में कंपनी बनाए जाने के इच्छुक हैं :

प्रत्येक अभिदाता का नाम, पता, विवरण और व्यवसाय	अभिदाता के हस्ताक्षर	साक्षी के हस्ताक्षर और उसका नाम, पता, विवरण और व्यवसाय
2. श्री हरीहरण वैद्यलिंगम सुपुत्र श्री वी. वैद्यलिंगम शर्मा ए3-62, महिन्द्रा गार्डन्स, पाटकर कालेज के समीप, एस. वी. रोड, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई-400062 व्यवसाय-सेवा	हO	अभिदाता सं. 1 से 2 के साक्षी हO/ केतन एम. शाह सुपुत्र महेन्द्र कुमार एच. शाह 12, दामोदर निवास, 32/34, सीपी टैंक रोड, मुंबई-400004 चार्टर्ड लेखाकार
2. रिनसी अनसलाम सुपुत्र अथीपोझिल हेनरी एनसी अथीपोझिल हाउस, अर्थिकल पोस्ट, चेरटाला, अलापुझा, केरल- 688530 व्यवसाय -सेवा	हO	

दिनांक : अप्रैल, 2002 का 17वां दिन

स्थान : मुंबई

टिप्पणी : हिंदी पाठ में अंतर की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी

**KVK NILACHAL POWER PRIVATE LTD.
BHUBANESWAR**

PUBLIC NOTICE

KVK Nilachal Power Private Ltd, having its registered office at 3rd floor, Navbharat Chambers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500082 intends to apply to the Govt. of India to confer upon him all the powers under section 164 of Electricity Act. 2003 for placing of electric lines. KVK Nilachal Power Private Ltd will undertake the survey, Construction of tower foundations, installation, erection of towers, stringing of conductors & Ground wires and other works to be followed by inspection, Commissioning, Operation, maintenance and other works for the following transmission scheme. Name of the transmission scheme : 400 KV D/C Transmission LILO from 400KV Baripada-Mendhasal Line at Kapursing to KVK Nilachal 400 KV generating station at Rahangol. The 400 KV Double Circuit Transmission line covered under the scheme will pass through, over, around & between the following villages, towns & Cities :—

Sl. No.	Village Name	Tahsil	District
1.	Kapursingh	Athagarh	Cuttack
2.	Khamarn Nuagaon	Athagarh	Cuttack
3.	Belda	Athagarh	Cuttack
4.	Purushottampur	Athagarh	Cuttack
5.	Radhakishorepur	Athagarh	Cuttack
6.	Radhadamo-darpur	Athagarh	Cuttack
7.	Mastchhapur	Athagarh	Cuttack
8.	Rahangol	Athagarh	Cuttack

Copy of the Route Alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of Publication of this notice i.e., before 21.03.2012 to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarification, please contact :—

P. K. DAS
Executive Director

NEO VOGUE ENTERPRISES (INDIA) PVT. LTD.

NEW DELHI-110019

**NOTICE OF RESOLUTION OF VOLUNTARY WINDING
UP UNDER SECTION 485(1)**

**In the matter of Companies Act, 1956
and**

**Neo Vogue Enterprises (India) Pvt. Ltd.
Registered on 3rd August, 2010**

At the Extra Ordinary General meeting of the abovementioned Company held at Eros Hotel Lobby Nehru Place on Friday the 9th December, 2011, the following resolution was passed :

WINDING UP OF THE COMPANY

The Chairman informed the members of the proposal to wind up the affairs of the Company pursuant to section 484(1)(b) of the Companies Act, 1956. On considering the said proposal, the following Special Resolution was passed by the members of the Company who passed the following resolution :

"RESOLVED that pursuant to the provisions of section 484(1)(b) of the Companies Act, 1956 consent of the shareholders be and is hereby given for winding-up of the Company.

RESOLVED FURTHER that Shri Pranay Sarkar be hereby appointed as Liquidator of the Company for the purpose of winding-up and shall be paid a remuneration of Rupees. Five Thousand Only (5000.00) for the winding up of the Company.

RESOLVED FURTHER that Shri Pranay Sarkar the Liquidator be and are hereby empowered to exercise all powers as provided in sub-clauses (i) to (v) of sub-section 2 of section 457 of the Companies Act, 1956."

V. P. GULATI
Alt. Director

National Board of Trade Ltd.
Indore

NOTIFICATION

The approval of the Deputy Director, Forward Markets Commission, under Section 11 (1) of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) read with the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Notification No. S. O. 1162 dated 4th May, 1960 has been obtained on the 4th January, 2012, to the following amendments, made to the Bye-laws of the National Board of Trade Ltd., Indore and the same is notified under Sub-section 4 of Section 11 of the said Act.

AMENDMENT TO SCHEDULE II OF THE BYE-LAWS

FOR RAPE/MUSTARD SEED

Schedule	Existing	Proposed
II.1 Delivery months : (a) (i)	January, February, May, June, September, November	January, April, May, June, August, September, October, November, December
II.2 Tick size	Rs. 2.50 per MT	Re. 1 per MT
II.3 Basic quantity for trading	1 MT	10 MT
II.5 (a) Basis of futures	Oil content 42.0% +/- 0.50% Moisture 5.0% FFA 1.5% (Max)	Oil content 42.0% +/- 0.50% Moisture 5.0% FFA 1.5% (Max) Foreign matter : 0.25% (basis)
II.6 (a) Quality allowance	<p>Oil content: - 42% - delivery at par</p> <ul style="list-style-type: none"> - Less than 42%, proportionate allowance to the buyer - More than 42%, proportionate premium to the seller. <p>Moisture: - Upto 5%, acceptable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Above 5%, rebate equal to the value of cake calculated on the basis of excess percentage of moisture shall be payable to the buyer. {Value of cake X (Actual % of moisture - 5%)} <p>FFA: - Upto 1.5% acceptable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - above 1.5% upto 2%, single rebate {seed value X (actual FFA - 1.5%)/100 - above 2.0% upto 2.5%, double rebate seed value X (actual FFA - 2%)X2 <p>{----- + value of single rebate} 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - above 2.5% upto 3.0%, triple rebate <p>seed value X (actual FFA - 2.5%)X3 {----- + value of single plus double} 100 rebates }</p> <ul style="list-style-type: none"> - Above 3%, at buyers' option 	<p>Oil Content:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From 42% to 37% accepted at 1:1 discount or part thereof • More than 42% accepted at 1:1 premium or part thereof • Below 37% rejected <p>Moisture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From 5% to 6.5% accepted at 1:1 discount or part thereof • Above 6.5% rejected <p>Foreign matter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From 0.25% to 2% accepted at 1:1 discount or part thereof • Above 2% rejected <p>FFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5% maximum

II.8 Quotation	Rs. per 20 Kg.	Rs. per Quintal
II.9 (a) (i) Delivery center	Jaipur (up to the radius of 50 km from the municipal limits)	Within the municipal corporation limit of Kota
Additional delivery centres	Indore, Alwar, Sriganganagar, Rewari and Morena	Jaipur. Premium/Discount at the time to Settlement shall be as decided by the Executive Committee.
II.10 (a) Delivery terms and permissible variation	25 MT (+/- 2% permissible quantity)	10 MT (+/- 2% permissible quantity)
II.13 Basis (for Rape/Mustard seed)	NIL	Ex Warehouse Kota exclusive of Sales Tax/VAT.

Place: Indore
Date: 16/01/2012

Chief Executive Officer

MCX STOCK EXCHANGE LIMITED
Mumbai - 400093.

The Bye-laws of MCX Stock Exchange Ltd. were amended at Meetings of its Board of Directors held on April 30, 2010 and August 21, 2010 as below. These amendments were approved by SEBI vide its letter no. MRD/DSA/MCX-SX/38398/2011 dated December 21, 2011 after previous publication:

Chapter XIV - Arbitration

- A. For Bye-law 3 of Chapter XIV of the Bye-laws of the Exchange, the following shall be substituted, namely:-

"Limitation period for reference of claims, differences or disputes to arbitration

- (3) All claims, differences or disputes referred to in Bye laws 1 (A), (B), (C) and (D) above shall be submitted to arbitration within the period prescribed under the Limitation Act, 1963."

- B. For Bye-law 13 of Chapter XIV of the Bye-laws of the Exchange, the following shall be substituted, namely:-

"(13) (a) Time for appointment of Arbitrator

Where an arbitration application is made, the appointment of arbitrator or panel of arbitrators, shall be completed within thirty days of receipt of the application.

(b) Adjournment

Adjournment, if any, shall be granted by the arbitrator only in exceptional cases, for bonafide reasons to be recorded in writing.

(c) Time for Completion of Arbitration

The arbitrator(s) shall conclude the arbitration reference within four months from the date of their appointment, by issuance of an arbitral award.

(d) Request for extension

The Managing Director or an Executive Director may, on an application by either party or the arbitrator(s) and for sufficient cause to be recorded in writing, extend the time for making of arbitral award by not more than two months, on a case to case basis."

- C. For Bye-law 14 of Chapter XIV of the Bye-laws of the Exchange, the following shall be substituted, namely:-

"Implementation of Arbitral Award"

- (14) Notwithstanding anything contained in the Bye-laws, in cases where the arbitral award or appellate arbitral award is passed against the Trading Member and/or its sub-brokers and in favour of a Constituent, the Stock Exchange shall debit from the deposits or other monies of the Trading Member lying with the Stock Exchange, the amount of award payable to the awardee together with interest payable, if any, till the date of debit after setting off the counter claim of the Trading Member and /or its sub-brokers allowed under the award, if any, and keep aside the said amount in a separate account to be dealt with in such manner as mentioned in Bye-laws 15 and 15A.

Provided that, where the award is for the delivery of securities, the Stock Exchange may consider the closing price of such securities on the Stock Exchange as on the date of the award or such other date the relevant authority may specify to be reasonable, stating reasons for arriving at the value of such securities and award amount."

- D. For Bye-law 15 of Chapter XIV of the Bye-laws of the Exchange, the following shall be substituted, namely:-

"Payment of Debited Amount to Clients"

- (15) (a) *Arbitral Award*:- Where the Trading Member/ Sub-broker chose not to prefer an appeal under Bye-law 21 within the time permissible there under, the amount debited under Bye-law 14 shall be paid, together with the interest earned thereon, to the awardee.

(b) *Appellate Arbitral Award*:- Where an appeal is preferred by the Trading Member/ Sub-broker under Bye-law 21 and the appellate arbitral tribunal makes an appellate arbitral award against the Trading Member/ Sub-broker the Stock Exchange shall pay the awarded amount to the awardee from the amount debited under Bye-law 14:-

- (i) where no application is made by the Trading Member/ Sub-broker under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 to challenge such arbitral award within the limitation period for making such application, upon expiry of such limitation period;
- (ii) where such an application is made by the Trading Member/ Sub-broker, and no stay is granted by the court within three months from the date of receipt of appellate arbitral award by him, upon completion of such three months;
- (iii) in any other case, upon dismissal of the application by the court."

- E. After Bye-law 15, as substituted, the following shall be inserted, namely:-

"Reversal of Debit in Certain Cases"

- (15A) Where the arbitral award or the appellate arbitral award against the trading member or sub-broker has been set aside or has been modified by reduction of awarded amount, and such setting aside or modification has attained finality, the stock exchange may reverse the debit, in full or in part, as the case may be, and pay the reduced amount, if any, to the awardee."

- F. For Bye-law 19 of Chapter XIV of the Bye-laws of the Exchange, the following shall be substituted, namely:-

"Jurisdiction"

- (19) All parties to a reference to arbitration under these Bye-laws and Regulations and the persons claiming under them, shall be deemed to have submitted to the exclusive jurisdiction

of the competent court nearest to the regional arbitration centre where appellate arbitral proceedings were conducted."

- G. After Bye-law 20 of Chapter XIV of the Bye laws of the Exchange, the following shall be inserted, namely:-

"Appellate Arbitration

- (21) Any party aggrieved by an arbitral award made under these Bye-laws shall have a right of appeal, in terms of the following:-
- (a) A party aggrieved by an arbitral award may appeal against such award to the appellate panel of arbitrators to be constituted by the Stock Exchange within one month from the date of receipt of arbitral award.
 - (b) The relevant authority shall thereupon constitute an appellate panel consisting of three arbitrators who shall be different from the ones who passed the arbitral award appealed against.
 - (c) Such constitution of appellate panel of arbitrators shall be completed by relevant authority within thirty days from the date of receipt of the appeal.
 - (d) The appeal shall be disposed of within three months from the date of appointment of appellate panel of arbitrators, through issuance of an appellate arbitral award.
 - (e) The Managing Director or an Executive Director may, on an application by either party or the appellate panel of arbitrators and for sufficient cause to be recorded in writing, extend the time for making of appellate arbitral award by not more than two months, on a case to case basis.
 - (f) A party aggrieved by the appellate arbitral award may file an application to the Court of competent jurisdiction to challenge the appellate award in accordance with Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.
 - (g) Except where specific provision is made in this Bye-law, the provisions of Bye-laws (5) to (20) of this Chapter and the Regulations shall mutatis mutandis apply to appellate arbitrators, appellate arbitration proceedings and appellate arbitral awards."

Chapter XV - Default

- H. For Bye-law 2, the following shall be substituted, namely:-

"Expulsion in Certain Cases

- (2) Without prejudice to the foregoing, if a trading member is expelled by any other recognised stock exchange on which he is a trading member or if the registration certificate is cancelled by SEBI, the said trading member may be expelled from the Stock Exchange after providing an opportunity of being heard to such trading member.

Notwithstanding anything contained in this Bye-law, the trading facility of the trading member shall be withdrawn immediately after the receipt of information of expulsion by any other stock exchange or cancellation of registration certificate by SEBI."

I. After Bye-law 2, as amended, the following Bye-laws shall be inserted, namely:-

"Declaration of Default in all Segments"

- (2A) Where the trading member is declared defaulter on any trading segment of the Stock Exchange, he shall also be immediately declared defaulter on all other trading segments of the Stock Exchange in which he may hold membership.

Declaration of Default by another Stock Exchanges

- (2B) A trading member shall immediately be liable to be declared defaulter on all trading segments of the Stock Exchange if he was declared defaulter on any trading segment of any other recognised stock exchange, immediately on receipt of information from that stock exchange.

Action against Associate in case of Declaration of Default

- (2C) On a trading member being declared defaulter, the relevant authority may take appropriate action against the associates of such defaulter member.

Definition of 'Associate'

- (2D) For the purpose of Bye-law 2C, the term "associate" shall include a person
- who, directly or indirectly, by itself, or in combination with other persons, exercises control over the member, whether individual, body corporate or firm or holds substantial share of not less than 15% in the capital of such member; or
 - in respect of whom the member, individual or body corporate or firm, directly or indirectly, by itself or in combination with other persons, exercises control; or
 - whose director or partner is also a director or partner of the member, body corporate or the firm, as the case may be.

Explanation: The expression "control" shall have the same meaning as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997."

Joseph Massey
Managing Director & CEO

The Rules of MCX Stock Exchange Ltd. were amended at the Meeting of its Board of Directors held on June 30, 2011 as below. These amendments were approved by SEBI vide its letters no. MRD/DSA/MCX-SX/38424/2011 dated December 21, 2011 and MRD/DSA/MCX-SX/100/2012 dated December 28, 2011:

(A) CHAPTER III – TRADING MEMBERSHIP

I. After Rule 18(c) the following shall be inserted, namely:-

“18(ca) A trading member may not effect any change in its status or constitution, unless it has made an application seeking prior approval of the Exchange in such manner and with such fees as may be specified by the relevant authority and such approval has been accorded.

Explanation 1: For the purpose of clause (ca), the expression “change in status or constitution” shall include:-

(I) in case of a body corporate:

(a) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(b) change in its managing director, whole-time director or director appointed in compliance with clause (v) of sub-rule (4A) of rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957; and

(c) any change in control over the body corporate;

(II) any change between the following legal forms - individual, partnership firm, limited liability partnership firms, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;

(III) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;

(IV) any other change in relation to the Trading Members which may be specified by the relevant authority as amounting to a change in status or constitution.”

Explanation 2: In a case falling under para (I)(c) of Explanation I, or in any other case where the change in status or constitution requires the prior approval of SEBI or other authority, the Trading Member shall not carry out such change without obtaining such prior approval.

Explanation 3: A Trading Member shall apply for prior approval under Explanation 2 by following such procedure as may be specified by SEBI, other authority or the relevant authority."

(B) CHAPTER IV - CLEARING MEMBERSHIP

II. After Rule 6(10)(c) the following shall be inserted, namely:-

"6(10)(ca) A clearing member may not effect any change in its status or constitution, unless it has made an application seeking prior approval of the Exchange in such manner and with such fees as may be specified by the relevant authority and such approval has been accorded.

Explanation 1: For the purpose of clause (a), the expression "change in status or constitution" shall include:-

(I) in case of a body corporate:

(a) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the scope of section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force;

(b) change in its managing director, whole-time director or director appointed in compliance with clause (v) of sub-rule (4A) of rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957; and

(c) any change in control over the body corporate;

(II) any change between the following legal forms - individual, partnership firm, limited liability partnership firms, Hindu undivided family, private company, public company, unlimited company or statutory corporation and other similar changes;

(III) in case of a partnership firm any change in partners not amounting to dissolution of the firm;

(IV) any other change in relation to the Clearing Members which may be specified by the relevant authority as amounting to a change in status or constitution."

Explanation 2: In a case falling under para (I)(c) of Explanation I, or in any other case where the change in status or constitution requires the prior approval of SEBI or other authority, the Clearing Member shall not carry out such change without obtaining such prior approval.

Explanation 3: A Clearing Member shall apply for prior approval under Explanation 2 by following such procedure as may be specified by SEBI, other authority or the relevant authority."

(C) Chapter V – DISCIPLINARY PROCEEDING, PENALTIES SUSPENSION AND
EXPULSION

III. For Rule 17 the following shall be substituted, namely:-

Reconsideration / Review

“(17) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the relevant authority may on its own motion or on an appeal by the trading member concerned may, within 90 days from the date of communication of decision of the relevant authority to the member, reconsider and may rescind, revoke or modify its decision withdrawing all or any of the membership rights or fining, censuring or warning any trading member. In a like manner the relevant authority may rescind, revoke or modify its decision expelling or suspending any trading member within the said period.”

Joseph Massey
Managing Director & CEO

Notes:

- 1) The Principal Rules of MCX Stock Exchange Ltd. were notified in the Gazette of India Part IV dated September 27, 2008 – October 03, 2008 from page 255 and in the Maharashtra State Gazette vide Sl. No. 462 dated October 16, 2008.
- 2) Amendment to the Rules of MCX Stock Exchange Ltd. were notified in the Gazette of India Part IV dated August 01, 2009 – August 07, 2009 on page 252 and in the Maharashtra State Gazette vide Sl. No. 123 dated July 30 2009 – August 05, 2009.
- 3) Further amendment to the Rules of MCX Stock Exchange Ltd. has been sent for notifications in the Gazette of India and in the Maharashtra State Gazette and notification of the same is awaited.

Form No. 151 [See rule 315] Companies Act, 1956

Members' (or Creditors') Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of Company	: Neo Vogue Enterprises Private Limited
Nature of Business	: E-Commerce
Address of Registered Office	: B-257, C. R. Park, New Delhi-110019
Name(s) and address(es) of Liquidator(s)	: Pranay Sarkar, C-71, Lajpat Nagar, New Delhi
Date of appointment	: 09.12.2011
By whom appointed	: Members of the Company

For Neo Vogue Enterprises Private Limited

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED**THE COMPANIES ACT, 1956****COMPANY LIMITED BY SHARES****MEMORANDUM OF ASSOCIATION**

- I. The name of the Company is **MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED**.
- II. The Registered Office of the Company will be situated in the State of Maharashtra.
- III. The objects for which the Company is established are: -

A. THE MAIN OBJECTS OF THE COMPANY TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION ARE:

1. To establish, operate, regulate, maintain and manage facilities in Mumbai and elsewhere in India and abroad enabling the Members of the Exchange, their authorised agents and constituents and other participants to transact, clear and settle trades done on the Exchange in different types of contracts in commodities, securities and other instruments and derivatives thereof, in ready, forward and futures markets and to provide accessibility to the markets to various Members of the Exchange and their authorised agents and constituents and other participants within and/or outside India, and to provide, initiate, facilitate and undertake all support services relating thereto as per the Articles of Association, Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

B. THE OBJECTS INCIDENTAL OR ANCILLARY TO THE ATTAINMENT OF THE MAIN OBJECTS ARE:

2. To apply for and obtain from Forward Markets Commission and/or Securities and Exchange Board of India and/or Reserve Bank of India and / or any other authority, recognition of the Exchange as a recognized commodity exchange or an exchange for securities or any other instrument for the purpose of organising, managing and facilitating the business of dealing in contracts of commodities, securities and other instruments and their derivatives as per the Articles, Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange as may be framed from time to time.
3. To frame, amend and enforce the Articles, Bye-Laws, Rules and Regulations defining and regulating the terms and conditions subject to which the business on the Exchange as outlined in these presents shall be transacted from time to time.
4. To make arrangement through appropriate arbitration, survey, laboratory testing or other methods a mechanism for resolving disputes and to decide all questions of trading methods, practices, usages, customs or courtesies for conduct of business of the Exchange, and also to provide for suitable forms of contracts for trading in ready, forward and futures markets in different commodities, securities and instruments and derivatives thereof, decided to be traded or allowed for trading at the Exchange.
5. To form other company or companies or subsidiaries for carrying out the operations of company or for carrying out some business or operation ancillary or incidental or expedient in the interests of Company and also to outsource some of the activities of company to such or other companies.
6. To levy, charge, recover and receive security deposits, admission fees, transaction and clearing fees, fund subscriptions, margins, penalties, tolls and levies and any other fee and/or sums from Members of the Exchange and registered non-members of the Exchange in terms of the Company's Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations.
7. To regulate and fix the scale of commission, brokerage and other charges to be charged by the Members of the Exchange from their constituents and others.
8. To facilitate resolution of disputes by various means including mediation, conciliation, arbitration, surveys, laboratory testing and to nominate arbitrators, umpires and surveyors on such terms and in such cases as may seem expedient, and to set up regional or local arbitration or survey panels and appellate committee and to provide for rules and methods for arbitration of disputes and claims in respect of transactions relating to or arising out of or in connection with or pertaining to transactions effected on the Exchange and including arbitration of disputes between Members of the Exchange inter-se and/or between Members of the Exchange and persons who are not the Members of the Exchange; and to remunerate such arbitrators, surveyors, regional or

local arbitration panels and appellate committee / members, if any, and to make rules, Bye-Laws and regulations in relation to such arbitration and survey proceedings, the fees of arbitrators, the costs of such arbitration, and to define and regulate related matters, and to regulate the procedures thereof and enforce all awards.

9. To acquire, collect, preserve, disseminate, or sell statistical or other information in connection with the business of the Company, to maintain a library and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet, official yearbook, or other work in connection with or in furtherance of the objects of the Company.
10. To test, develop, improve or elevate the technical and business knowledge of persons engaged in or about to be engaged in trade, industry, banking, commerce, finance or company administration/and in particular in the business of the Company for dealing in contracts for commodities, securities or other instruments and derivatives, or in connection therewith, by organising for delivery of lectures, holding of classes, courses, seminars and the like, and to test by examination or otherwise the competence of such person(s) and to award certificates and diplomas and to institute and establish scholarships, grants and other beneficence and to set up or form any technical or other educational institution and to run, manage or administer it.
11. To subscribe for becoming a member in, or to co-operate with, any other association or entity, whether incorporated or not, in India or abroad, whose objects are to promote the interests represented by the Company so as to advance the general commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association or entity such information as may further the objects of the Company.
12. To take membership of any Commodity Exchange or any other Exchange, directly or indirectly, in India or abroad, for furthering the business of the Members of the Exchange and that of the Company.
13. To take part in the management of, or set up a research, testing or training division and/or to act as consultants or advisors for the setting up and organizing of Exchanges in India or abroad and to enter into association with any other Exchange in India or abroad whether by subscription or on co-operation principle for furthering the objects of the Company.
14. To enter into partnership or arrangements in the nature of partnership, co-operation or union of interest, with any person or entity, engaged or interested or about to become engaged or interested in the carrying on, or conduct, any business which this company is authorized to carry on or conduct or from which the company could or might derive any benefit whether directly or indirectly.
15. To appoint trustee(s) to hold on behalf of and to protect the interest of the Company or further the objects of the Company.
16. To amalgamate or merge with any entity, or allow amalgamation or merger of any entity with this Company, for the purpose of furthering the objects of this Company.
17. To form, constitute, promote, manage, subsidize, organize, or assist in forming, constituting, promoting, managing, subsidizing, organizing entities of all kinds, for the purpose of acquiring any undertaking or any property, whether movable or immovable, whether with or without liability of such undertaking for advancing directly or indirectly the objects hereof and to take or otherwise hold and dispose of shares, debentures and other securities in or of any such undertaking and to subsidize or otherwise assist or manage or own any such entity.
18. To do business in India and abroad either as principals, agents, trustees, contractors, or otherwise alone or in conjunction with others and either by or through agents, contractors, trustees or otherwise for the attainment of the objects of the Company.
19. To own, establish or have and maintain offices, branches and agents, in or out of India for its business.
20. To construct, develop, maintain and alter any lands, buildings, constructions or works necessary or convenient for the objects and purposes of the company.
21. To exercise all or any of its corporate powers, rights and privileges and to conduct its business in any or all states, territories, possessions, colonies and dependencies thereof in India and in any foreign country.
22. To subscribe, contribute, make donations or grants or guarantee money for any general or useful object and to aid any association, body or movement, subject to compliance with the provisions of the Companies Act, 1956.
23. To establish and support, or assist in the establishment and support of any fund, trust and convenience calculated to advance and further the objects and purposes of the Company in particular, and the commodity, capital and financial markets in general, including markets in commodity products.
24. To make payments or disbursements out of the funds or other movable property of the Company for deploying surplus funds of the Company or for any of the purposes specified in these presents and Articles of Association and Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and to make, draw, accept, endorse, discount, execute or transfer instruments, warrants, debentures or other negotiable or transferable documents.

25. To borrow, raise loans in any form, create indebtedness, to receive, grants or advances (whether interest free or not) equity loans, or raise any moneys required for the objects and purposes of the Company upon such terms and in such manner and with or without security as may from time to time be determined, by the issue of debentures, debentures stocks, and/or other securities. Any person claiming payment, whether on account of principal or interest or otherwise in respect of the moneys so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment out of the funds, properties and other assets of the Company which alone shall be deemed to be liable to make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the moneys so borrowed or raised, and not the personal funds, property and other assets of the members of Board of Directors or Members of the Company, or their successors and assigns, who shall not be deemed to have incurred any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claim or demand.
26. To invest, lend or advance the moneys of the Company not immediately required in or upon such security and with or without interest and in such other investments as may be, from time to time, determined by the Company or the Board of Directors under the provisions of the Companies Act, 1956.
27. To make experiments alone or jointly with others with a view to improving the Company's business and further to procure the incorporation, registration or other recognition of the Company in any country, State, or place, and to establish and regulate agencies for the purpose of the Company's business.
28. To enter into any arrangement or agreement with any person, firm, company or entity, either Indian or Foreign, for the purpose of collaboration with such person, firm, company or entity in any business or transaction capable of being conducted so as to directly or indirectly benefit this Company.
29. To acquire, purchase, take over assets, businesses or undertakings of other companies or entities, which may conveniently or advantageously be combined with the business of the Company.
30. To remunerate (by cash or other assets or by the allotment of fully or partly shares or by call on shares, debentures, debenture-stock or securities of this or any other company or in any other manner) whether out of the Company's capital, profits or otherwise, to any person, firm, company or entity for services rendered or to be rendered to the Company or for assisting to place or guaranteeing the subscription of any shares, debentures, debenture-stock or other securities of the Company or for any other reason, which the Company may think proper, subject to the provisions of the Companies Act, 1956.
31. To ensure or guarantee the settlements on the Exchange, payment of advances, margins, credits, settlements on the Exchange, and other commercial obligations or commitments of such description as well as the fulfilment of contracts and other trading and commercial transactions of such description, and to indemnify any person against the same as may be determined by the Board from time to time.
32. To guarantee the payment of money secured by or payable under or in respect of any debentures, debenture stock, bond, mortgage charge, security, contract or obligation of any person, persons or corporation or any authority.
33. To apply for, purchase, or otherwise acquire, any patent, trademark, copyright, brevet, invention, license concession, and the like, conferring an exclusive or non-exclusive or limited right to use any secret or other information, which may seem capable of being used for any of the purposes of the Company, and to use, exercise, develop or grant licenses in respect of the aforesaid.
34. To open current accounts and/or other accounts with any bank, to pay money into and draw money from such accounts.
35. To establish, provide, maintain and conduct research and training centres by engaging on remuneration necessary technical, research, teaching and administration personnel in pursuit of the objects of the company or otherwise subsidize research laboratories, experimental stations, workshops and libraries for researches, experiments and tests of all kinds and to undertake and carry out research and investigations, to process, improve and invent new and better techniques and methods and products and to improve or secure any process, patent, copy-right which the Company may acquire or deal with and to promote and publish studies, researches, surveys and investigations, either independently by the company or by providing, subsidizing, endowing or assisting laboratories, schools, colleges, universities, workshops, libraries, lectures, meetings, exhibitions and conferences and by providing for the remuneration of scientists, scientific or technical personnel or teachers, research workers and inventors, or generally to encourage, promote and reward studies, researches, experiments, tests and inventions of any kind which may be considered likely to assist any of the objects of the Company.
36. To promote, sponsor, undertake and carry out rural development, including any program for promoting the social and economic welfare of, or the upliftment of the people in any rural area and to incur any expenditure on any program or rural development and to assist promotion or execution thereof, either directly or through an independent agency or by making contributions or giving donations or in any other manner.

37. To procure the registration, incorporation or recognition of the Company under the laws or regulations of any Country.
38. To employ experts to investigate and examine into the condition, management prospects, value, character and circumstances of any business, concern and undertaking.
39. To undertake and execute any trusts for the benefit of employees and also to undertake the office of trustees for debenture-holders or debenture-stock holder of a Company and to appoint trustees to hold securities on behalf of and to protect the interests of the Company.
40. To obtain any provisional order or Act of the Government for enabling the Company to carry any of its objects or for effecting any modification of the Company's constitution.
41. To enter into arrangements with any Government or Authority, and to obtain from any of them any rights, privileges and concessions, which the Company may think necessary or desirable for furtherance of its objects.
42. To distribute any of the Company's property among the members in specie on the event of winding-up, subject to the provisions of the Companies Act, 1956.
43. To establish competitions in respect of information suitable for insertion in any publication or otherwise for any of the purposes of the Company, and to offer and grant prizes, rewards, gifts and premiums of such character and on such terms as may seem expedient.
44. To receive any gift of immovable or movable property and offering or voluntary donation or bequest and legacy from any person or entity for all or any of the objects of the Company/with or without any specific conditions/ provided such receipts or the conditions attached are not inconsistent with the objects of the Company. All such gifts, donations, grants, offerings, legacies and bequests, including land, buildings and other immovable properties, shall be treated as forming part of the property of the Company and shall be applied accordingly.
45. To provide for the welfare of the employees or ex-employees, directors or ex-directors of the Company and wives, and families or the dependents of such persons, by grant of money/pension, allowances, bonus or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident fund and other associations, institutions, trusts and by providing or subscribing towards medical or other assistance as the Company shall think fit and to subscribe or to contribute or otherwise assist charitable, benevolent, national and/or other institutions or objects.
46. To provide for and furnish or secure to any subscriber or purchaser or processor of any publication of the Company, or of any coupon or ticket issued with any publication of the Company, any convenience, advantage, benefit, or special privilege which may seem expedient.
47. To pay all costs, charges and expenses incurred or sustained in or about the promotion, incorporation and establishment of the Company or which the Company shall consider being preliminary out of the funds of the Company.
48. To refer to or agree to refer any claim, demand, dispute or any other question by or against the Company or in which the Company is interested or concerned, and whether between the Company and the member or members or his or their representatives, or between the Company and third parties, to arbitration and to observe and perform and to do all acts, matters and things to carry out or enforce the awards, subject to the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Exchange.
49. To apply for, promote, and obtain any statute, order, regulation or other authorizations or enactment which may seem calculated directly or indirectly to benefit the Company and to oppose any bills, proceedings, or applications.
50. To sell, dispose or transfer the business property and undertaking of the Company, or any part thereof for any consideration which the Company may deem fit to accept.
51. To obtain know-how in order to utilize it or provide the same in India and abroad, and grant such know-how on such terms and conditions as may be beneficial to the Company, and to establish, maintain, conduct, provide, procure or make available all types of services and to take such steps as may be necessary for the purpose of examining, inspecting, and carrying out tests for the purpose of market research in respect of any project.
52. To purchase, take on lease or in exchange, hire and otherwise acquire and maintain any lands, buildings, and easements, or any immovable or movable property, patents, licenses, rights and privileges which the Company may think necessary or convenient for the purpose of its business and to pay for the same either in cash or in shares or securities and to sell, let, lease or under lease or otherwise dispose of or grant right over any movable or immovable property, rights and privileges belonging to the Company.
53. To adopt such means of making known the business or particular transactions in which the Company is interested, as may seem expedient, and in particular by advertising in the press, by circular, by purchase and exhibition of works of interest, by publication of books and periodicals and by granting prizes, rewards, etc.

54. To take part in the supervision or control of the business or operation of any company or undertaking doing similar or related business.
55. To effect all such insurance in relation to the carrying on of the Company's business and any risks incidental thereto as may seem expedient, and if thought fit, to join or become a members of any mutual insurance Company or to carry a part or the whole of such insurance risk in connection with the Company's business.
56. To promote any Company or companies for the purpose of acquiring all or any of the property right and liabilities of this Company for carrying on any business which this Company is authorized to carry on or for any other purposes which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company or to promote or advance the interest of this Company.
57. To act as technical and management consultants in relation to all aspects of data processing, data processing systems, computer systems, application and system software, process control systems, computers and all the branches of computer science in India and abroad and further act as agents for Indian and International entities providing the equipment and services in the areas of management science and computer science and to buy, sell, import, export, hire, lease, install, maintain and use equipment and accessories, know-how and services, software and hardware related to all the aspects of management services and computer science.
58. To cater, prepare, evolve, buy, sell, information technology solutions to any industry by providing, software, hardware, local area-wide area, connectively and net working, off shore information technology projects - consultancy, value added, reseller or software systems and solutions and consultancy, and to act as software developer, buyer, seller, exporter and importer.
59. To act as custodian or depository of warehouse receipts of all kinds, by itself or in association with or through any other company or person or department or authority for purposes of storage in any form.
60. To establish and maintain or to arrange or appoint agents, to establish and maintain clearing house for the objects and purposes of the Company or maintain a holding and clearing corporation, depository clearing house or establish and maintain division and to control and to regulate the working and administration thereof.
61. To act as trustees of any deeds constituting or securing any debentures, debentures stocks of other securities or obligations and to undertake and execute any other trusts and also undertake the office of or exercise the powers of executors, administrators, receiver, custodian and trust corporation.
62. To constitute any trust with a view to issue preferred and deferred or any other special stocks, securities certificates or other documents based on or representing any shares, stocks, securities certificates or other documents or other assets appropriated for the purpose of any such trust and to settle and regulate, and if required, to undertake and execute any such preferred, deferred or other special stocks, securities, certificates or documents.
63. To use the distribution network and systems infrastructure of the company, independently or in association with the Members of the Exchange, or other intermediaries and to support agencies and institutions, to distribute various products and services, within the country and outside, for a fee or charge or otherwise, to further the objects of the company and use its investment, reach and penetration most optimally.

C OTHER OBJECTS:

64. To buy, to sell, to deal in, to manufacture, to distribute, to market, in computer hardware, computer software, computer parts, components, appliances, configurations, cabling, networking of information systems, integration, converging, development erection, installation, creation of information systems, computer systems for voice, mail, digital, electronic and electrical transfer of data, voice and such upgrading and designing of information systems relating to computers, e-commerce, e-Business, e-trade networking, web, etc.
65. To give on hire or lease or sell or dispose off the undertaking property and assets of the Company, or any part thereof in such manner and for such considerations as the Company, may think fit and to improve, manage, develop, exchange, lease, dispose off, turn to account or otherwise deal, with all or any part of the property or rights of the company.
66. To undertake and carry on agency and/or representation work of any kind and in particular to act as managers, agents, distributors and representatives of any firm or company established in India or abroad with a view to assist them in objects similar to the objects of this company.
67. To act as service organization or bureau for providing advice and services in various fields-general, administrative, secretarial, consultancy, commercial, financial, legal, economic, labour, industrial, public relations, scientific, technical, direct and indirect taxation and other levies, statistical, accountancy, quality control and data processing.

68. To acquire, hold, sell and to let on hire purchase, lease, rent any metals, bullion, gold, silver, silver articles, diamonds, precious stones ornaments and objects and jewellery and paintings and coins and manuscripts and objects of art and pay for same either in cash or otherwise.
69. To get affiliations/recognition from various universities, institutes from India and abroad.
70. To carry on the business as proprietors and publishers of newspapers, journals, magazines, books and other literary works and undertaking.
71. To carry on the business of transport contractors, warehouse agents, operators, for commodities, goods, and to act as surveyors, shipping, chartering, forwarding agents and contractors, agents, cargo superintendents, packers and haulers as warehousemen and proprietors of warehouses, as fleet owners, coach and auto-hirers and other vehicle proprietors, garage proprietors, engineers and electricians, and to act as agents and contractors and to construct / equip, facilitate storage and to provide for convenience of all kinds, and to construct, equip, maintain works, purchase and let on hire vehicles of transport for the carriage of goods and as general carriers and forward carriers by all means of transport by land, sea, inland waterways, pipeline and air and as storage of goods, wares, merchandise of every kind and description whatsoever and to purchase or otherwise acquire any lands, docks, canals, waterways, warehouses, wharves, buildings or machinery and to construct and equip the same purchase, take on charter any ships, tugs, barges, motor trucks, motor lorries, motor cars, heavy duty vehicles including tempos, matadors, station wagons, or any other vehicles or vessels of any description or kind and to make, work, equip and maintain railway and establish and carry on an agency, and booking office and to act as customs clearing agents.
72. To carry on the business of undertaking and setting up projects on turn key basis.
73. To develop, acquire, buy, sell, give or otherwise deal in know-how management systems and to act as consultants, and advisers in the above fields, either by charging fees for the same or by obtaining royalty or in any other form in India or abroad.
74. To construct, build, equip, own and maintain and to carry on business as keepers of cold storage, storage chambers, ice-plants, go-downs, tanks, silos, vaults, depositories, warehouses, refrigerators, freezing houses and room coolers for any commodity.
75. To engage in or carry on anywhere in India or abroad the business of warehousing, transporting and carriage or goods and to provide storage, testing, quality certification, and protection of goods against insects, ants, rats, moisture, rain, fire and other natural or man-made calamities.
76. To act as agents, sales organizers consultants, and advisers in all the respective branches and in such capacity to give advice and information and render services to persons, firms, companies, authorities or Government, which may be given or rendered that may lead to or be conducive to sales and marketing of goods; and rendering of all services, whether incidental to the above or not.
77. To do all other acts and functions as may be directly or indirectly associated with or incidental to or in consonance with the aforesaid objects of the Company.

IV The Liability of the Members of the company is limited.

- V ¹ The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 700,000,000 (Rupees Seventy Crores) divided into 70,000,000 (Seven Crores) equity shares of ² Rs. 10/- (Rupees ten) each with the power to increase and / or reduce the capital, to divide the shares in the capital for the time being into several classes and to attach thereto such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions in such manner as may be determined by or in accordance with the regulations of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be permitted by the Act or by the regulations of the Company and consolidate or subdivide the shares and issue shares of higher or lower denominations.

¹ The authorized capital of Rs.500,000 comprising of 50,000 equity shares of Rs. 10 each was increased as under:

- to Rs. 110,000,000 pursuant to a resolution of shareholders at EGM held on March 17, 2003
- to Rs. 180,000,000 pursuant to a resolution of shareholders at EGM held on February 27, 2004.
- to Rs. 300,000,000 pursuant to a resolution of shareholders at EGM held on April 3, 2004
- to Rs. 500,000,000 pursuant to a resolution of shareholders at EGM held on February 5, 2005.
- the authorised capital of Rs. 500,000,000 comprising 50,000,000 equity shares of Rs. 10 each was sub-divided to Rs. 500,000,000 comprising 100,000,000 Equity Shares of Rs. 5 each at the AGM held on September 1, 2007.
- to Rs. 700,000,000 pursuant to a resolution of shareholders at AGM held on September 30, 2010.

² the authorised capital of Rs. 700,000,000 comprising 140,000,000 equity shares of Rs. 5 each was consolidated to Rs. 700,000,000 comprising 70,000,000 Equity Shares of Rs. 10 each at the EGM held on March 14, 2011.

We the several persons whose name, addresses and descriptions are hereunder, subscribed below are desirous of being formed into a Company in pursuance to this MEMORANDUM OF ASSOCIATION and we respectively agree to take this number of shares in the Capital of the Company set opposite to our respective names: -

Name, Address, Description and occupation of each Subscriber	Number of Equity Shares taken by each subscriber	Signature of Subscriber	Signature of Witness and his name, address, description & occupation
<p>HARIHARAN VAIDYALINGAM S/o. V. VAIDYALINGAM SHARMA A3-62, MAHINDRA GARDENS, Adj. to PATKAR COLLEGE, S. V. ROAD, GOREGAON (W) MUMBAI - 400 062.</p> <p>OCCUPATION - SERVICE</p>	<p>5,000 [FIVE THOUSAND]</p>	Sd/-	<p>WITNESS TO SUBSCRIBER NO. 1 TO 2</p> <p>Sd / - KETAN M. SHAH S/o MAHENDRAKUMAR H. SHAH 12, Damodar Niwas,</p>
<p>RINSY ANSALAM, S/o. ATHIPOZHYIL HENRY ANSY ATHIPOZHYIL HOUSE ARTHINKAL POST CEHRTALA, ALAPUZHA, KERALA - 688530</p> <p>OCCUPATION - SERVICE</p>	<p>5,000 [FIVE THOUSAND]</p>	Sd/-	
	<p>10,000 [TEN THOUSAND]</p>		

Dated: 17th day of April 2002

Place: Mumbai

MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED

THE COMPANIES ACT, 1956

PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

TABLE A NOT TO APPLY

1. The Regulations contained in Table 'A' of the First Schedule to the Companies Act, 1956 shall not apply to the Company except in so far as they are embodied in the following Articles.

INTERPRETATION CLAUSE

Interpretation

2. a. Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Articles shall bear the same meaning as in the Companies Act, 1956 or any statutory modification thereof in force on the date on which the Articles become binding on the Company.

Marginal notes/sub-headings

- b. The marginal notes/sub-headings hereto are inserted for convenience and shall not affect the construction hereof.

Definitions

3. In these presents unless thereby something in the subject or context inconsistent therewith:
 - a. 'The Act' or 'The Companies Act' means the Companies Act, 1956 and includes where the context so admits any re-enactment or statutory modification thereof for the time being in force
 - b. 'Annual General Meeting' means a general meeting of the Members of the Company held in accordance with the provisions of Section 166 of the Companies Act, 1956 and any adjourned meeting thereof.
 - c. 'Articles' or 'These Articles' or 'These Presents' means these Articles of Association of the Company.
 - d. 'Auditors' means and include those persons appointed as 'Auditors' for the time being by the Company.
 - e. 'Board of Directors' means and includes the 'Board of Directors' or the "Council of Management" or the "Governing Board" or the "Board of Multi Commodity Exchange" or 'the Board', by whatever name called, vested with the general powers of management and superintendence and having complete jurisdiction over all members of the Exchange and all matters contained in these Articles, various provisions under the Rules, Byelaws and Regulations and directives/ circulars of the Exchange, and over the commodities or securities or any other instruments, which are traded on the Exchange.
 - f. 'Body corporate' has the meaning assigned thereto by Section 2(7) of the Companies Act, 1956, and shall include a Company incorporated in India. The words 'Body Corporate' and 'Company' are used interchangeably.
 - g. 'Capital' means the share capital for the time being raised or authorised to be raised for the purpose of the Company.
 - h. 'Chairman' and 'The Chairman' means the Chairman of the Board of Directors for the time being of the Company.
 - i. 'Clearing House' means any clearing house operating for clearing and settlement of any transactions/contracts in any commodity including derivatives of such contracts, security or instrument and is approved by the Company/Exchange.
 - j. 'Company' or 'The Company' or 'This Company' or 'MCX' means MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED ('MCX').
 - k. 'Commodity' means any goods or commodity, as defined by or under the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 [hereinafter referred to as FC(R)Act] including securities or instruments representing any such commodity permitted to be traded on the Exchange.

- l 'Contract' means a contract for or relating to the purchase and/or sale of a commodity as prescribed by the Exchange and includes all types of forward, futures and other derivative contracts, as may be permitted by FMC for trading.
- m 'Debenture' includes Debenture Stock.
- n 'Director' means the Director for the time being of the Company and member of the Board of Directors of the company.
- o 'Exchange' means the exchange owned/operated by this Company to facilitate trading, clearing and settlement in contracts for commodities, securities or any other instrument or derivatives thereon.
- p 'Extraordinary General Meeting' means a general meeting of the Members of the Company other than Annual General Meeting, duly called and constituted and any adjourned holding thereof.
- q 'Forward Markets Commission' or 'Commission' or 'FMC' shall mean the Forward Markets Commission established by the Government of India in accordance with the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.
- r 'General Meeting' means a meeting of the Members of the Company.
- s 'In writing' or 'Written' includes handwriting, typewriting, printing, lithography, fax, downloading through computers, broadcast through the Trading System, e-mail and/or other modes of representing or reproducing words in visible form.
- t "Member of the Exchange" means a person, a sole proprietary firm, a partnership firm, a joint hindu family, a company, a co operative society, a public sector organisation, statutory corporation or any other Government or Non Government entity admitted as such by the Exchange for trading, clearing or settlement of contracts traded on the Exchange.
- u 'Member' shall mean the Member of the Company holding share or shares of any class and whose name is entered in the Register of Members of the Company, and shall comprise the subscribers / signatories to the Memorandum of Association and these Articles, and such other persons, as the Board shall admit as members of the Company from time to time.
- Explanation: A member of the company (shareholder) by virtue of his shareholding in the company shall not get any trading or clearing rights in the Exchange *suo motto*.
- v 'Month' means an English calendar month.
- w 'Office' means the registered office for the time being of the Company.
- x 'Ordinary Resolution' shall have the meaning assigned to it by Section 189 of the Companies Act, 1956.
- y 'Paid-up Capital' includes amounts credited as paid-up capital of the company.
- z "Person" includes any corporation or company, individual, firm, body corporate, joint hindu family, a cooperative society, any Government or Non Government entity or any other association of persons.
- aa 'Presence' or 'Present' at a Meeting means presence or present personally.
- ab ¹ 'Relevant Authority' means the Board of Directors or such other authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.'
- ac 'Recognised Exchange' means an exchange, which is for the time being recognised by the Central Government and/or FMC under the provisions of the FC(R) Act, 1952.
- ad 'Register of Members' or 'The Register of Members' means the Register of Members to be kept pursuant to Section 150 of the Companies Act, 1956.
- ae 'Registrar' or 'The Registrar' means the Registrar of Companies having jurisdiction over the Company.
- af 'Regulations' or 'The Regulations' means the Regulations of the Exchange for the time being in force and include business rules, code of conduct, circulars, notices and such other regulations prescribed by the Board of Directors or relevant authority from time to time for the operations of the Exchange.
- ag 'Rules' refer to the rules relating in general to the constitution and management of the Exchange and provisions

¹ Substituted vide special resolution passes at the AGM dated June 10, 2006.

relating to various classes of membership of the Exchange. Rules include its memorandum and articles of association. These rules shall be subject to the provisions of the FC(R) Act, 1952 and rules thereunder.

- ah 'Seal' means the common seal of the Company adopted by the Governing Board for the time being.
- ai 'Secretary' shall mean a Company Secretary as per the Companies Act.
- aj 'Securities' include:
 - i. Shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture stock or other marketable securities or instruments of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate or otherwise including futures, options and other derivatives contracts permitted under Law;
 - ii. Government securities;
 - iii. Such other instruments as may be declared by the Central Government to be securities;
 - iv. Rights or interest in securities; and
 - v. Any other instruments that may be incorporated under the definition of securities in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or FC(R) A, 1952.
- ak 'Special Resolution' shall have the meaning assigned thereto by Section 189 of the Companies Act, 1956.
- al 'Trading system' means the automated trading system of Exchange or any other system provided by the Exchange, which makes available to the members of the Exchange, by whatever method/technology/connectivity, quotations in Commodities or any other instruments and disseminates information regarding trades effected, volumes, etc. and such other notifications as may be placed thereon by the Exchange.
- am 'Words' importing
 - a) the singular shall include the plural and vice versa.
 - b) masculine gender includes feminine gender or neuter gender, as the case may be.
- an 'Year' means the calendar year and 'Financial Year' shall have the meaning assigned thereto by Section 2(17) of the Companies Act, 1956.

The definitions not covered herein above will be taken from these Articles, Rules or the Bye-Laws of the Exchange for the purpose of interpretation or management of the Exchange, and in case of any discrepancy, the interpretation as may be taken by the Board of the Exchange shall be final and binding on all associated with the Exchange.

Business

4. The Company will carry on the business for which it was incorporated and any other business or businesses or lines of business or activity, which the Company is authorized to carry on under its Memorandum of Association.
5. **Authorised capital**
The Authorised Share Capital of the Company shall be in accordance with Clause V of the Memorandum of Association of the Company from time to time with the Board having the power to increase or reduce the share capital of the Company and to classify it into several classes and to attach thereto respectively such preferential, qualified or special rights, privileges or condition as may be determined by or in accordance with the Articles of the Company and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may be for the time being provided by the Articles of the Company and/or under the Act and consolidate or sub-divide these shares and to issue shares of higher or lower denomination.
6. **Power of General Meeting to offer shares to such persons as the Company may resolve**
The Company in General Meeting may by Special Resolution determine that any shares (whether forming part of the original capital or of any increased capital of the Company) shall be offered to such persons (whether Members or holder of debentures of the Company or not) as the Company may resolve.
7. **Power to increase capital**
The Company may from time to time, by special resolution, increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as may be specified in the resolution.
8. **Further issue of capital**

- a. Where at the time after the expiry of two years from the formation of the Company or at any time after expiry of one year from the allotment of the shares in the Company made for the first time after its formation, whichever is earlier, it is proposed to increase the subscribed capital of the Company by allotment of the further shares either out of the un-issued capital or out of the increased share capital then:
- i ² Such further shares, whether equity or preference, shall be offered to the persons who at the date of the offer, are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit, to the paid-up capital on those shares at that date;
 - ii The aforesaid offer shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen (15) days from the date of offer within which the offer if not accepted will be deemed to have been declined;
 - iii ³ The aforesaid offer shall be deemed to include a right exercised by the persons concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person, and the notice referred to in clause (ii) shall contain a statement of this right; PROVIDED THAT the Directors may decline, without assigning any reason to allot any shares to any person in whose favour any member may renounce the shares offered to him.
 - iv ⁴ After the expiry of the time specified in the notice aforesaid, or earlier notification from the person to whom such notice is given that he declines to accept the shares offered, the Board may dispose them of in such manner as it thinks is most beneficial to the Company.
- b. ⁵ Notwithstanding anything contained in sub-clause (1) thereof, the further shares aforesaid may be offered to any person (whether or not those person include the person referred to in clause (a) of sub-clause (1) thereof) in any manner whatsoever.
- a. If a special resolution to that effect is passed by the company in general meeting, or
 - b. Where no special resolution is passed, if the vote cast (whether on show of hands or on a poll as the case may be) in favour of the proposal contained in the resolution moved in the general meeting including the casting vote, if any, of the chairman) by the members who being entitled to do so, vote in person, or where proxies are allowed, by proxy, exceed the votes, if any, cast against the proposal by members, so entitled and voting and the Central Government is satisfied. On an application made by the Board of Directors in this behalf that the proposal is the most beneficial to the company.
- c. ⁶ Nothing in sub-clause (iii) of (a) hereof shall be deemed:
- a. To extend the time within which the offer should be accepted; or
 - b. To authorize any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation as first made has declined to take shares comprised in the renunciation.
- d. ⁷ Nothing in this clause shall apply to the increase of the subscribed capital of the Company caused by the exercise of an option attached to debentures issued or loans raised by the Company:
- i To convert such debentures or loans into shares in the Company, or
 - ii To subscribe for shares in the Company.

Provided that the terms of issue of such debentures or the terms of such loans include a term providing for such option and that such term either has been approved by the Central Government before the issue of the debentures or the raising of the loans or is in conformity with the rules, if any, made by the Central Government in this behalf; and in the case of debentures or loans other than debentures issued to or loans obtained from the Central Government or any institution specified by the Central Government in this behalf, has also been approved by the Special Resolution passed by the Company in General Meeting before the issue of debentures or the raising of the loans.

² Substituted vide special resolution passed at the AGM held on September 30, 2010.

³ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

⁴ Substituted vide Special Resolution passed at the AGM on September 30, 2010.

⁵ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

⁶ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

⁷ Substituted vide Special Resolution passed at the AGM on September 30, 2010.

- e. ⁸ Subject to the provision of Section 79A and other applicable provisions of the Act and Rules made there under the company may issue Sweat equity if such issue is authorized by a special resolution passed by the company in the General Meeting. The Company may also issue shares to employees including its directors under Employee Stock Option Plan or any other scheme, if authorised by a special resolution at a General Meeting subject to rules made there under and applicable guidelines by whatever named called.

9. Right of holders of equity shares

Subject to the rights of the holders of any other share entitled by the terms of the issue to any preferential repayment over the equity shares, in the event of a winding up, the holders of preferential equity shares shall be entitled to be repaid the amount of capital paid-up or credited as paid-up on such shares as also arrears of dividend if any, and all surplus assets thereafter shall belong to the holders of equity shares and in proportion to the amount paid-up or credited as paid-up on such equity shares respectively at the commencement of the winding up.

10. Issue of redeemable preference shares

The Company may, subject to the provisions of Section 80 of the Act, issue preference shares which are, or at the option of the Company, liable to be redeemed and may redeem such shares in any manner subject to Section 80 of the Act and may issue shares up to the nominal amount of shares redeemed or to be redeemed as provided in sub-section 4 of the said Section 80 of the Act. Where the Company has issued redeemable preference shares the provisions of Section 80 of the Act shall be complied with. The manner in which such shares shall be redeemed, shall be as provided under these presents unless the terms of issue provide for otherwise.

11. Redemption of preference shares

- a. Whenever any preference shares are issued which are, or at the option of the Company, liable to be redeemed the following provisions shall take effect:
- i No such shares shall be redeemed except out of the profits of the Company, which would otherwise be available for dividend, or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purposes of the redemption.
 - ii No such shares shall be redeemed unless they are fully paid -up.
 - iii The premium, if any, payable on redemption must be provided for out of the profits of the Company or out of the Company's share premium account before the shares are redeemed.
 - iv Where any such shares are redeemed otherwise than out of the proceeds of a fresh issue, there shall, out of profits which would otherwise have been available for dividend, be transferred to a reserve fund to be called 'The Capital Redemption Reserve Account', a sum equal to the nominal amount of the shares redeemed and the provisions of the Act relating to the reduction of the share capital of the Company shall, except as provided under Section 80 of the Act, apply as if the Capital Redemption Reserve Account were paid-up share capital of the Company.
 - v Whenever the Company redeems any redeemable preference shares, the provisions of Section 95 of the Act shall be complied with.
- b. Subject to the provisions of Section 80 of the Act and these Articles, the redemption of preference shares hereunder may be effected in accordance with the terms and conditions of their issue or, in the absence of any such terms and conditions, in such manner as the Directors may think fit.
- c. Where the Company has redeemed or is about to redeem any preference shares, it shall have power to issue shares up to the nominal amount of the shares redeemed or to be redeemed as if these shares had never been issued, and accordingly the share capital of the Company shall not, for the purpose of calculating the fees payable under Section 611 of the Act, be deemed to be increased by the issue of shares in pursuance of this clause; provided that, new shares shall not, so far as relate to stamp duty, be deemed to have been issued in pursuance of this clause unless the old shares are redeemed within one month after the issue of the new shares.
- d. The Capital Redemption Reserve Account may, notwithstanding anything in this Article, be applied by the Company in paying up unissued shares of the Company to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.

12. Variation of rights

⁸ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

The right attached to any class of shares (unless otherwise provided by the terms of the issue of the shares of that class) may, subject to the provisions of Sections 106 and 107 of the Act, be varied with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class or with the sanction of the Special Resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class and the provisions of these Articles relating to General Meeting shall *mutatis mutandis* apply, provided that the necessary quorum shall be two (2) persons at least holding one-tenth of the issued shares of the class.

13. **Issue of further shares *pari passu***

The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of the issue, be varied by the creation of further shares ranking *pari passu* therewith.

14. **Commission and brokerage**

The Company may exercise the powers of paying commission and/or brokerage conferred by Section 76 of the Act.

15. **Payment of interest out of capital**

Where any shares are issued for the purpose of raising money to defray the expenses of the construction of any work or building or the provision of plant, which cannot be made profitable for a lengthy period the Company may pay interest on so much of that share capital as is for the time being paid-up for the period at the rate and subject to the conditions and restrictions provided by Section 208 of the Act and may charge the same to capital as part of the cost of construction of the work or building or the provision of the plant; the Articles relating to dividends shall where the context permits, apply to interest paid under this Article.

16. **ALTERATION OF CAPITAL**

Alteration and consolidation, division and cancellation of capital

The Company may from time to time by a Special Resolution alter the conditions of its Memorandum as follows:

- a. Increase its share capital by such amount as it thinks expedient by issuing new shares;
- b. Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
- c. Convert all or any of its fully paid-up shares into stock and re-convert that stock into fully paid-up shares of any denomination;
- d. Sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum, so however that in the sub-division, the proportion between the amount paid-up and the amount, if any, unpaid on each reduced share shall be the same as it was in the case of the shares from which the reduced share is derived and determine that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of such shares shall have some preference or special advantage as regards dividends, return of capital or otherwise over or as compared with the others; and
- e. Cancel shares which, at the date of the passing of the resolution in that behalf, have not been taken or agreed to be taken by any person and reduce the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.

17. **Reduction of capital**

The Company may by Special Resolution, after complying with the provisions of the Act, in any manner and with and subject to any incidence authorized and consent required by law, reduce:

- a. Its share capital;
- b. Any capital redemption reserve account; or
- c. Any share premium account.

18. **Buy Back of its own shares**

The Company may buy back its own shares in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956.

18A ⁹ **Shares at the disposal of the Director**

Subject to the provisions of Section 81 of the Act, and these Articles, the shares in the capital of the Company for the time being shall be under the control of the Directors who may issue, allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons, in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at

⁹ Inserted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

par or (subject to the compliance with the provision of section 79 of the Act) at a discount and at such time as they may from time to time think fit, and may issue and allot shares in the capital of the company on payment in full or part of any property sold and transferred or for any services rendered to the Company in the conduct of its business and any shares which may so be allotted may be issued as fully paid up shares and if so issued, shall be deemed to be fully paid shares provided that the option or right to call of shares shall not be given to any person or persons without the sanction of the Company in the general meeting.

19. SHARES AND SHAREHOLDERS

Liability of joint holders of shares

The joint holders of a share or shares shall be severally as well as jointly liable for the payment of all instalments, calls, interest, expenses and other sums due in respect of such share or shares.

Registered shareholder to be the owner

Save as otherwise provided by these Articles, the Company shall be entitled to treat the registered holder of any shares as the absolute owner thereof and accordingly the Company shall not, except as ordered by a Court of competent jurisdiction or by the statute required, be bound by or recognize any equitable, contingent, future or partial interest, lien, pledge or charge in any share or (except only as by these presents otherwise provided for) any other right in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.

Issue of shares other than for cash

- a. The Board may issue and allot shares in the capital of the Company as payment or part payment for any property, goods, machinery, appliances, trade marks, merchandise marks, patents, patent rights, licenses, privileges, processes and secrets or stock-in-trade purchased or for services rendered or to be rendered to the Company in or about the formation or promotion of the Company or the acquisition and/or conduct of its business and any shares which may be so allotted shall be deemed to be fully paid-up shares, and if so allotted shall be deemed to be fully paid-up shares.
- b. As regards all allotments, from time to time made, the Board shall duly comply with Section 75 of the Act.

Acceptance of shares

An application signed by or on behalf of an applicant for shares in the Company, followed by an allotment of any shares therein, shall be acceptance of the share within the meaning of these Articles; and every person who thus or otherwise accepts any shares and whose name is on the Register shall for the purpose of these Articles be a Member of the Company.

Right to certificates

- a. ¹⁰ Every member shall be entitled without payment to one or more share certificate(s) which shall be issued in the marketable lots for all shares, whether equity or preference, of each class of denomination registered in his name, or if the directors so approve, (upon paying such fee, as may be approved by the Board, from time to time), to several certificates, each for one or more of such shares, and where the share certificates are issued in lots other than market lots, subdivision or consolidation of share certificates into market lots shall be done free of charge.
- b. ¹¹ The Company shall, within three (3) months from the date of allotment, unless the conditions of the issue thereof provide otherwise, and/or within one (1) month from the date of receipt of the application for registration of the transfer, transmission, sub division, consolidation or renewal of any of the shares or debentures, as the case may be, unless the conditions of issue thereof otherwise provide, deliver the certificate of all the shares and debentures so allotted or transferred or transmitted.
- c. ¹² Every certificate shall specify number and distinctive numbers of shares in respect of which it is issued and amount paid up thereon and shall be in such form as the directors may prescribe or approve.
- d. The provisions of clauses (b) and (c) above shall apply *mutatis mutandis* to debentures and debenture stock allotted or transferred.

¹⁰ Substituted vide Special Resolution passed at the AGM held on September 30, 2010 prior to which it was substituted vide Special Resolution passed at the EGM held on January 13, 2006.

¹¹ Substituted vide Special Resolution passed at the AGM held on September 30, 2010 prior to which it was substituted vide Special Resolution passed at the EGM held on January 13, 2006.

¹² Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

- e. No fee shall be charged for the issue of a new share certificate either for sub-division of the existing share certificates and/or for consolidation of several share certificates in lieu of share certificates on the back of which there is no space for endorsement for transfer or for registration of any probate, letters of administration, succession certificate or for registration of any power of attorney, partnership deed, Memorandum and Articles of the company or other similar documents.

One certificate for joint holders

- ¹³ Any two or more joint allottees of a share shall, for the purposes of this Article, be treated as a single member, and the certificate of any share, which may be subject to joint ownership may be delivered to anyone of such joint owners on behalf of all of them.

Replacement and renewal of certificate

- a. If a certificate be worn out, defaced or if there is no further space on the back thereof for endorsement or transfer, it shall be replaced, if required, by a new certificate free of charge, provided however that such new certificate shall not be granted except upon delivery of the worn out or defaced or used up certificate for the purpose of cancellation.
- b. If a certificate is lost or destroyed, the Company may upon such evidence and proof of such loss or destruction, on such terms and conditions as to indemnity or otherwise as the Board may require and on payment of a fee of Rupees one or such smaller sum as the Board may determine, issue a new certificate.
- c. Any renewed certificate shall be marked as such. Provided that notwithstanding what is stated above the Directors shall comply with such rules or regulation or requirements of any Stock Exchange or the rules made under the Act or the rules made under Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or any other Act, or rules applicable in the behalf. The provisions of this article shall *mutatis mutandis* apply to debentures of the Company.

Splitting and consolidation of share certificate

Any person (whether the registered holder of the shares or not) being legally in possession of any share certificate for the time being may surrender the share certificate to the Company and apply to the Company for the issue of two or more fresh certificates comprising the same shares bearing the same distinctive numbers comprised in the said certificate and in such separate lots as he may desire in lieu of and in cancellation of certificate so surrendered into one certificate and the Directors may at their discretion in lieu of and in cancellation of certificate so surrendered issue one or more such share certificates as the case may be in the name of the person or persons in whose name the original certificate stood and the new certificate so issued shall be delivered to the person who surrendered the original certificate or to his order. No fee shall be charged for issues of such new certificate.

Issue of certificate

Every share certificate shall be issued under the Common Seal of the Company and in accordance with the provisions of the Companies (Issue of Share Certificate) Rules, 1960 or any modification thereof for the time being in force.

Dematerialisation of securities

The Company may issue the whole or a part of its new securities in dematerialised form and / or convert the whole or a part of its existing issued securities into dematerialised form and shall, in such cases, comply with the provisions of the Depositories Act with respect to issue of securities in dematerialised form as well as transfer of such securities.

20. LIEN

¹⁴ Company's lien on shares

The Company shall have a first and paramount lien upon all shares other than fully paid-up shares registered in the name of any Members, either alone or jointly with any other person, and upon the proceeds of sale thereof, for all debts, liabilities, engagements and obligations whether solely or jointly with any other person, to or with the Company/the Exchange/the Designated Clearing House and (Whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of such shares / debentures and no equitable interest in any shares shall be created except upon the footing and condition that this Article shall have full effect, and such lien shall extend to

¹³ Substituted vide Special Resolution passed at the AGM held on September 30, 2010.

¹⁴ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

all dividends and bonuses from time to time declared in respect of such shares/ debentures. Unless otherwise agreed, the registration of transfer of shares/ debentures shall operate as a waiver of the company's lien if any, on such shares or debentures and such lien shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares.

But the Board may at any time declare any share to be exempt, wholly or partially, from the provisions of this Article.

Enforcing lien by sale

For the purpose of enforcing such lien, the Board may sell the shares subject thereto in such manner as it may think fit but no sale shall be made until the expiration of fourteen (14) days after a notice in writing stating and demanding payment of such amount, in respect of which the lien exists, has been given to the registered holder of the shares for the time being or to the person entitled to the shares by reason of the death or insolvency.

Validity of sale on exercise of lien and after forfeiture

Upon any sale after forfeiture or for enforcing a lien in purported exercise of the powers hereinafter given, the Board may appoint any person to execute an instrument of transfer of the shares sold and cause the purchaser's name to be entered in the Register of Members in respect of the shares sold, and the purchaser shall not be bound to see the application of the purchase money, and after his name has been entered in the Register of Members in respect of such shares the validity of the sale shall not be impeached by any person, and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damage only and against the Company exclusively.

Application of proceeds of sale

The net proceeds of any such sale shall be applied in or towards satisfaction of the said moneys and the balance, if any, shall unconditionally vest with the Company.

21. CALLS ON SHARES

Calls

- a. Subject to the provisions of Section 91 of the Companies Act, the Board may from time to time make such calls as it thinks fit upon the Members of the Company in respect of all moneys unpaid on the shares held by them respectively (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof, made payable at fixed times.
- b. A call may be made payable in instalments.
- c. Each member shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board.
- d. A call may be revoked or postponed at the discretion of the Board.
- e. ¹⁵ The option or right to call of shares shall not be given to any person except with the sanction of the issuer in general meeting

When call deemed to be made

The Board when making a call by resolution may determine the date on which such call shall be deemed to have been made not being earlier than the date of resolution making such call and thereupon the call shall be deemed to have been made on the date so determined and if no such date as aforesaid is fixed, the call shall be deemed to have been made on the date on which the resolution of the Board making the call is passed.

Length of notice of call

Not less than fourteen (14) days' notice of any call shall be given specifying the time and place of payment and the person to whom such call shall be paid, provided that the Board may, by notice in writing to the Members of the Company, extend the time for payment thereof.

Dues payable at fixed time to be deemed calls

If by the terms of issue of any shares or otherwise any amount is made payable on allotment or at any fixed time or by instalments at fixed times whether on account of nominal value of the shares or by way of premium, every such amount or instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given, and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate and apply to every such amount or instalment accordingly.

¹⁵ Inserted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

When interest on calls payable

If sum called in respect of shares is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest upon the sum at the rate fixed by the Board, not exceeding fifteen per cent (15%) per annum, from the day appointed for the payment, but the Board shall be at liberty to waive payment of that interest wholly or in part.

Dues payable at fixed time to be treated as calls

The provisions of these Articles as to payment of interest shall apply in the case of non-payment of any sum which by the terms of issue of shares becomes payable on allotment or at a fixed time, whether on account of the amount of the shares or by way of premium, as if the same had become payable by virtue of a call duly made and notified.

¹⁶ Payment of calls in advance

The Board may, if they think fit, and subject to the provision of Section 92 of the Act, receive from any Member willing to advance the same, either in money or moneys worth, all or any part of the moneys uncalled and unpaid-upon any shares held by him and upon all or any part of the moneys so advanced may, (until the same would, but for such advance become presently payable) pay without the sanction of the Company in General Meeting interest at such rate, not exceeding twelve per cent (12%) per annum, as may be agreed upon between the Member paying the sum in advance and the Board, but shall not in respect thereof confer a right to dividend or to participate in profits. The Member making such advance shall not be entitled to any voting rights in respect of such advance, until the same would but for such payment become presently payable.

The provision of these Articles shall apply *mutatis mutandis* to calls on the debenture of the Company.

Partial payment not to preclude forfeiture

Neither a judgement nor a decree in favour of the Company for calls or other moneys due in respect of any share nor any part payment or satisfaction there under, nor the receipt by the Company of portion of any money which shall from time to time be due from any Member in respect of any share either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Company in respect of the payment of any such money shall preclude the Company from thereafter proceeding to enforce a forfeiture of such shares as hereinafter provided.

22. TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES**Instrument of transfer**

Subject to the provisions of Section 108 of the Act, the rules prescribed there under and these Articles, the shares in the Company shall be transferred by an instrument in writing in the prescribed form and duly stamped.

Transfer

a. The instrument of transfer of any shares in the Company shall be executed both by transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the shares until the name of the transferee is entered in the Register of Members of the Company in respect thereof.

b. The Board shall not register any transfer of shares unless a proper instrument of transfer duly stamped and executed by the transferor and the transferee has been delivered to the Company, along with the share certificate or the letter of allotment, as the case may be, and such other evidence as the Company may require to prove the title of the transferor or his right to transfer the shares.

Provided that where it is proved to the satisfaction of the Board that an instrument of transfer signed by the transferor and the transferee has been lost, the Company may, if the Board thinks fit, on an application in writing made by the transferee and bearing the stamp required for an instrument of transfer, register the transfer on such terms as to indemnity as the Board may think fit.

c. An application for the registration of the transfer of any share may be made either by the transferor or the transferee, provided that, where such application is made by the transferor, no registration shall in any case of partly paid shares be effected unless the Company gives notice of the application to the transferee and the transferee makes no objection within two weeks from the receipt of notice.

d. For the purpose of sub-clause (c) notice to the transferee shall be deemed to have been duly given if dispatched by prepaid post to the transferee at the address given in the instrument of transfer and shall be deemed to have been delivered at the time at which it would have been delivered in the ordinary course of

¹⁶ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

post.

- e. Nothing in sub-clause (d) shall prejudice any power of the Board to register as a shareholder any person to whom the right to any share has been transmitted by operation of law.
- f. Nothing in this Article shall prejudice the power of the Board to refuse to register the transfer of any shares to a transferee, whether a member or not, under the provisions of the Act or these Articles.

¹⁷ Board's right to refuse transfer

Subject to the provisions of Section 111 of the Act and Section 22A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, The Directors may, at their own absolute and uncontrolled discretion and by giving reasons, decline to register or acknowledge any transfer of shares whether fully paid or not and the right of refusal, shall not be affected by circumstances that the proposed transferee is already a member of the Company but in such cases, the Directors shall within one month from the date on which the instrument of transfer was lodged with the Company, send to the transferee and transferor notice of refusal to register such transfer provided that registration of transfer shall not be refused on the ground of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons indebted to the Company on any account whatsoever except where the Company has a lien on the shares. Transfer of shares/ debentures in whatever lot shall not be refused.

Further right of Board of Directors to refuse to register

The Board may also decline to recognize any instrument of transfer unless:

- a. the instrument of transfer is accompanied by the certificate of shares to which it relates and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
- b. the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.

Endorsement on transfers and issue of certificate

Every endorsement upon a share in favour of a transferee shall be signed by a person for the time being duly authorized by the Board in that behalf. In case a transferee of a share applies for a new certificate in lieu of an old or existing certificate, he shall be entitled to receive a new certificate upon his delivery of the old or existing certificate, which is desired to be replaced by a new one.

Transfer fee

Notwithstanding any other provisions to the contrary contained in these presents, no fee shall be charged for any of the following:

- a. For registration of transfer of shares or debentures, or for transmission of shares or debentures;
- b. For sub-division and consolidation of share and debenture certificates and letters of allotment, and for splitting, consolidation and renewal into denominations corresponding to the market units of trading;
- c. For sub-division of renounceable Letter of Right
- d. For issue of certificates in replacement of those which are old, decrepit or worn out or where the cages on the reverse for recording transfers have been fully utilised; and
- e. For registration of any power of attorney, letters of administration or similar other documents.

Register of Members

The Company shall keep a book to be called the "Register of Members" and therein shall be entered the particulars of every transfer or transmission of all shares and other particulars of shares required by the Companies Act to be entered in such register.

Closure of Register of Members

The Board may, after giving not less than seven (7) days previous notice by advertisement as required by the Companies Act, close the Register of Members or the register of debenture holders for any periods not exceeding in the aggregate forty-five (45) days in each year but not exceeding thirty (30) days at any one time.

Right to shares on death of a Member

- a. On the death of a Member, the survivor or survivors where the Member was joint-holder, and his legal representatives where he was sole holder, shall be the only person recognized by the Company as having

¹⁷ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

any title to his interest in the shares.

- b. Nothing in sub-clause (a) shall release the estate of a deceased joint-holder from any liability in respect of any shares, which had been jointly held by him with other persons.

Rights and liabilities of a legal representative

- a. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member may, upon such evidence being produced as may from time to time be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect either:
- i To register himself as holder of the shares; or
 - ii To make such transfer of the shares as the deceased or insolvent could have made.
- b. The Board shall, in either case, have the same rights to decline or suspend registration as it would have had, if the deceased or insolvent Member had transferred the share before his death or insolvency.
- c. If the person entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing by him stating that he so elects.
- d. If the person aforesaid shall elect to transfer the shares, he shall testify his election by executing a transfer of the shares.
- e. All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or insolvency of the Member had not occurred and the notice of transfer were a transfer signed by the member.

23. DEVOLUTION OF RIGHTS

Devolution on the death of a shareholder

A person becoming entitled to a share by reason of the death or insolvency of the shareholder shall be entitled to the same dividends and the other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company;

Provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect to register himself or to transfer the share and if the notice is not complied within ninety (90) days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

Company's right to transfer to an apparent legal owner

Neither the Company nor the Directors shall incur any liability or responsibility whatsoever in consequence of its registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by any apparent legal owner thereof (as shown or appearing in Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right, title or interest to or in the same shares.

Notwithstanding that the Company or the Directors may have had notice of such equitable right, title or interest prohibiting registration of such transfer and may have entered such notice referred thereto in any book of the Company, the Company or the Directors shall not be bound by or required to regard or attend to or give effect to any notice which may be given to it of any equitable right, title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do, though it may have been entered or referred to in the books of the Company, but the Company shall nevertheless be at liberty to regard, attend to or give effect thereto if the Board shall think fit.

Nomination facility to shareholders

In accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, the shareholders of the Company shall have the right to nominate persons in whom all shareholders' rights shall vest on the death of the holders / all joint holders of the shares.

24. FORFEITURE OF SHARES

If call or instalment not paid notice to be given

If a Member fails to pay any call or instalment of a call or interest thereon on or before the day appointed for the payment of the same, the Board may, at any time thereafter during such time as the call or instalment or interest

remains unpaid, serve a notice on such Member requiring him to pay the same together with interest at fifteen per cent (15%) per annum or such other rate as the Board may decide and all expenses that may be incurred by the Company by reason of such non-payment.

Form of notice

The aforesaid notice shall name a further day, not earlier than the expiration of fourteen (14) days from the date of service of the notice, on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that, in the event of non-payment on or before the time appointed, the shares in respect of which the same is owing will be liable to be forfeited.

Forfeiture on failure to comply with notice

If the requirements of any such notice as aforementioned are not complied with, any shares in respect of which the notice has been given may, at any time thereafter before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect and such forfeiture shall include all dividends declared in respect of forfeited shares and not actually paid before forfeiture.

Boards right to disposal of forfeited shares or cancellation

A forfeited or surrendered share shall be deemed to be the property of the Company and may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board may think fit, but at any time before a sale or disposition, the forfeiture may be cancelled on such terms as the Board may think fit.

Liability after forfeiture

A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares but shall notwithstanding such forfeiture, remain liable to pay and shall forthwith pay the Company all moneys which at the date of forfeiture were presently payable by him to the Company in respect of shares together with interest at fifteen per cent (15%) per annum, whether such claim be barred by limitation on the date of the forfeiture or not; but his liability shall cease if and when the Company receives payment in full of all moneys due. The Board may if they shall think fit remit the payment of such interest or any part thereof.

Declaration of forfeiture

A duly verified declaration in writing, that the declarant is a Director of the Company and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share, and the declaration and the receipt of the Company for the consideration, if any, given for the shares on the sale or disposal thereof, shall constitute a good title to the share and the person to whom the share is sold or disposed of shall thereupon be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

Non-payment of dues payable at fixed time

The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by the terms of issue of a share becomes payable at a fixed time whether on account of the amount of the share or by way of premium or otherwise as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

25. SET-OFF OF MONEYS DUE TO SHAREHOLDERS

Any money due from the Company to a shareholder may, without the consent of such shareholder, be applied by the Company in or towards payment of any money due from him, either alone or jointly with any other person, to the Company in respect of calls or otherwise.

26. CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

Conversion of shares into stock and re-conversion

The Company, by an ordinary resolution, may:

- a. Convert any paid-up shares into stock; and
- b. Re-convert any stock into paid-up shares of any denominations.

Transfer of stock

The holders of the stock may transfer the stock or any part thereof in the same manner and subject to the same regulations under which the shares from which the stock arose might have been transferred previous to the

conversion, or as near thereto as circumstances admit, but the Board may from time to time fix the minimum amount of stock transferable and restrict or forbid the transfer of fractions or that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.

Rights of stockholders

The holders of the stock shall, according to the amount of the stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as conferred by Section 96 of the Act.

Applicability of regulations to stock holders

Such of the regulations contained in these presents, other than those relating to share warrants, as are applicable to paid-up shares shall apply to stock and the words 'share' and 'shareholder' in these presents shall include 'stock' and 'stockholder' respectively.

27. GENERAL MEETINGS

Annual General Meeting

In addition to any other meetings, Annual General Meeting of the Company shall be held within such intervals as are specified in Section 166 (1) of the Companies Act and, subject to the provisions of Section 166 (2) of the Companies Act, at such times and places as may be determined by the Board. Each such general meeting shall be called an "Annual General Meeting" and shall be specified as such in the notice of convening the meeting. Any other meeting of the Company shall be an "Extraordinary General Meeting".

Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meetings may be held either at the Registered Office of the Company or, subject to the provisions of the Act, at such convenient place as the Board may deem fit.

Right to summon Extraordinary General Meeting

The Board may whenever it think fit and shall on the requisition of the Members in accordance with Section 169 of the Companies Act proceed to call an Extraordinary General Meeting. The requisitionists may, in default of the Board convening the same, convene the Extraordinary General Meeting as provided by Section 169 of the Companies Act. Provided that, unless the Board shall refuse in writing to permit the requisitionists to hold the said meeting at the Registered Office, it shall be held at the Registered Office.

Extraordinary General Meeting by requisition

The Company shall comply with the provisions of Section 188 of the Act as to giving notice of resolutions proposed by the Members and circulating statements on the requisition of members.

Notice for General Meeting

A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one (21) days' notice in writing, provided that, a General Meeting may be called after giving shorter notice if consent thereto is accorded in the case of the Annual General Meeting by all Members entitled to vote thereat and in the case of any other meeting, by Members of the Company holding not less than ninety-five per cent (95%) of that part of the paid-up share capital which gives the right to vote on the matters to be considered at the meeting.

Provided that where any Members of the Company are entitled to vote on some resolutions to be moved at a Meeting and not on the others, those Members shall be taken into account for the purpose of this clause in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

Accidental omission to give notice not to invalidate meeting

Accidental omission to give notice of any meeting to or non-receipt of any such notice by any of the Members shall not invalidate the proceedings of or any resolution passed at such meeting.

Special business and statement

- a. All business shall be deemed special that is transacted at an Extraordinary General Meeting and also that is transacted at an Annual General Meeting with the exception of declaration of a dividend, the consideration of the accounts, balance sheets and the reports of the Directors and Auditors, the election of the Directors in the place of those retiring by rotation and the appointment of and the fixing of the remuneration of Auditors.

- b. Any Annual General Meeting may transact any item of business whether ordinary or special.
- c. Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of the meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein of every Director and the Managing Director and if any item of business consists of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.
Provided that, where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company, the extent of share holding interest in that other company of every Director and the Managing Director of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such share-holding interest is not less than two per cent (2%) of the paid-up share capital of that other company.

28. PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

Quorum

Five (5) Members personally present shall be a quorum for a General Meeting and no business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum is present at the time when the meeting proceeds to business.

If quorum not present, when meeting to be dissolved and when not to be dissolved

If within half an hour from the time appointed for the meeting, a quorum is not present, the meeting if called upon the requisition of Members, shall be dissolved; in any other case, it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Board may determine and if at the adjourned meeting a quorum is not present, within half an hour from the time appointed for the meeting, the Members present shall be a quorum.

Chairman of General Meeting

The Chairman, if any, of the Board, shall preside as chairman at every General Meeting of the Company.

When Chairman absent, choice of another chairman

If there is no such Chairman or if at any meeting he is not present within half an hour after the time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairman, the Deputy Chairman, if any, of the Board shall preside and failing him, the Members present shall choose another Director as chairman and if no Directors be present or if all the Directors decline to take the chair, then the Members present shall choose one of their Members to be chairman of that meeting.

Adjournment of meeting

The chairman, may with the consent of the majority of Members personally present at a meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by such majority), adjourn that meeting from time to time and from place to place but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty (30) days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as nearly as may be as in the case of an original meeting. Save as aforesaid, it shall not be necessary to give any notice of an adjournment of the business to be transacted at an adjourned meeting.

Questions at General Meeting how decided

At any General Meeting, a resolution put to the vote in the meeting shall be decided on a show of hands, unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded in accordance with the provisions of Section 179 of the Act. Unless a poll is so demanded, a declaration by the chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried unanimously or by a particular majority or lost and an entry to that effect in the books of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against that resolution.

Casting vote

In the case of an equality of votes, the chairman shall, both on a show of hands and on a poll, have a second or casting vote in addition to the vote or votes to which he may be entitled as a Member.

Taking of poll

If poll is duly demanded in accordance with the provisions of Section 179 of the Companies Act, it shall be taken in such manner as the chairman directs and in accordance with the provisions of Sections 183 and 185 of the Companies Act and the result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. The chairman shall appoint two (2) scrutinizers in the manner required by Section 184 of the Companies Act.

Poll to be taken without adjournment

A poll demanded on the election of chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight (48) hours from the time when demand was made or as the chairman may direct.

29. VOTES AT MEETINGS

Voting rights

Every Member of the Company holding any equity shares having voting rights, shall have a right to vote in respect of such share on every resolution placed before the Company. On a show of hands, every such Member present in person shall have one vote. On a poll, his voting right in respect of such shares shall be in proportion to his share of the paid-up equity capital of the Company.

Limitations on voting rights

If the Company has issued any preference share with any special privileges, the holders of preference shares or shares of special class shall have no right to be present or vote in person at any General Meeting by virtue of their holding of preference shares or share of special class unless:

- a. Any resolution is placed before the Company which directly affects the rights attached to their preference shares or shares of special class; or
- b. Dividend on such preference shares or shares of special class or any part of such dividend has remained unpaid in respect of the aggregate period of not less than two (2) years preceding the date of commencement of the meeting.

The Board may issue shares with differential voting rights in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956, and in such cases, the voting rights shall be in accordance with the terms of issue of such shares.

Business to proceed despite poll

A demand for a poll does not prevent the continuance of meeting or the transaction of any business other than that on which a poll has been demanded. The demand for a poll may be withdrawn at any time by the persons who have made the demand.

Vote of joint holders

In the case of joint holders of shares, the vote of the first named of such joint holders who tender a vote in person shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders.

No vote if calls unpaid

No Member shall be entitled to vote at any General Meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.

Vote by proxy

On a poll, votes shall be given in person.

Representation of company or body corporate

Where a company or body corporate (hereinafter called "member company") is a Member of the Company, a person, duly appointed by resolution of the member company's board of directors in accordance with the provisions of Section 187 of the Act to represent such member company at a meeting of the Company or at any meeting of class of members of the Company, shall not by reason of such appointment be deemed to be a proxy. A copy of such resolution duly signed by a director of such member company and certified by him as being a true copy of the resolution, upon lodging with the Company at the Office or production at the meeting, shall be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment; such a person shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to vote on behalf of the member company, as if it were

an individual Member.

Validity of vote

No objection shall be made to the validity of any vote, except at the meeting or the adjourned meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote, whether given personally and not disallowed at such meeting or poll, shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever.

Chairman sole judge of validity

The chairman of the meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting and the chairman present at the taking of the poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

Casting of vote by Postal Ballot

In accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956, and the rules made thereunder, the specified items of business to be decided by postal ballot shall be so decided and the Company shall comply with the applicable provisions.

30. BOARD OF DIRECTORS

Number of Directors

¹⁸ The Board shall consist of not more than 18 (Eighteen) Directors inclusive of Government of India/FMC nominees and Independent Directors in public interest as specified/directed by FMC in its directives/ circulars/ guidelines in this regard from time to time;

Provided that any increase in the number of directors beyond eighteen shall be with the approval from the Central Government.

Non-retiring Directors

¹⁹ Mr. Jignesh Shah shall be a permanent Director of the Company and shall hold office which shall not be liable to retire by rotation

Shareholders to appoint Directors

²⁰ Subject to the provisions of Section 255 of the Act, Directors other than the Non-retiring Directors (whose number shall not exceed one third of the total number of directors) and nominated Directors shall be appointed by the shareholders of the Company in a General Meeting and shall be liable to retire by rotation as hereinafter provided.

Share Qualification

No share qualification shall be required to be held by any Director.

Additional Director

The Board shall have power, at any time and from time to time, to appoint any person as a Director, as an addition to the Board, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the maximum number fixed by these Articles. Any Director so appointed shall hold office only until the next Annual general Meeting of the Company but shall be eligible to be elected at such meeting.

31. CHAIRMAN & VICE CHAIRMAN

Chairman & Vice Chairman of the Board of Directors

The Board of Directors may appoint one among them as the Chairman of the Board and one as Vice Chairman of the Board. The Chairman shall not have executive powers or functions and he shall not be a person having trading interest in the futures trading conducted by the Exchange. The Chairman so appointed shall preside at the meetings of the Board.

32. MANAGING DIRECTOR / WHOLE TIME DIRECTOR

¹⁸ The maximum numbers of directors of the Company has been increased from Twelve to Eighteen (12 to 18) vide, Special Resolution passed at the AGM dated September 24, 2004 and Central Government's approval Order No. 3/91204-CL.VII dated April 1, 2005. Amended vide Special Resolution passed in AGM dated August 9, 2011.

¹⁹ Amended vide special resolution passed in the EGM dated July 5, 2008.

²⁰ Substituted vide Special Resolution passed in AGM dated September 24, 2004.

The Board may from time to time appoint any one or more Directors to be the Managing Director(s) or Whole Time Director(s) of the Company on such terms and conditions as the Board may think fit and for a fixed term or without any limitation as to the period for which he is to hold such office, and may from time to time (subject to the provisions of any contract between him and the Company) remove or dismiss him from office and appoint another in his place. The Board may similarly appoint one or more Deputy Managing Director(s) of the Company.

The Managing Director shall function as the Chief Executive of the Exchange and all powers in respect of the day-to-day affairs of the Company shall be vested with him. Besides, the Board may delegate on him such other powers and responsibilities, as it may deem fit, from time to time. The Managing Director shall be empowered to delegate such powers and functions to other officers or committees or Advisory Boards, as he may desire.

33. Removal of Directors

The Company may remove any Director before the expiration of his period of office in accordance with the provisions of Section 284 of the Act and may, subject to the provisions of Sections 262 and 274 of the Act and these Articles, appoint a person in his stead.

Provided that the directors appointed by FMC cannot be removed by the company.

34. Board may fill up casual vacancies

If any Director appointed by the Company in General Meeting vacates his office as a Director before his term of office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may be filled by the Board at a meeting; but any person so appointed shall remain in his office so long only as the vacating Director would have remained if no such vacancy had occurred, provided that the said vacancy shall not be filled by appointment thereto of any person who has been removed from the office of Director under these Articles.

35. Remuneration of Directors

- a. Subject to the provisions of the Act, a Managing Director or a Director who is in the whole-time employment of the Company may be paid remuneration either by way of a monthly payment or at a specified percentage of the net profits of the Company or partly by one way and partly by the other or otherwise in any other mode not expressly prohibited by the Act.
- b. Subject to the provisions of the Act, a Director, who is neither a Managing Director nor in the whole-time employment of the Company, may be paid remuneration either:
 - i By way of monthly, quarterly or annual payment with the approval of the Government; or
 - ii By way of commission, if the Company authorises such payment by a special resolution.
- c. The fee payable to a Director (excluding a Managing Director or a whole-time Director) for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be such sum as may be decided by the Board, not exceeding the maximum sum as may be allowed to be paid under the provisions of the Companies Act and rules made thereunder.
- d. If any Director be called upon to perform extra services or special exertions or efforts (which expression shall include work done by a Director as a member of any Committee formed by the Directors), the Board may arrange with such Director for such special remuneration for such extra services or special exertions or efforts either by a fixed sum or otherwise as may be determined by the Board and such remuneration may be either in addition to or in substitution for his remuneration above provided.
- e. The Directors shall allow and pay to any Director who is not a bona fide resident in the place where meetings of the Directors or of a Committee are ordinarily held and who shall come to such place or who incurs travelling & other expenses for attending a meeting of the Board or a Committee, such sum as the Directors may consider fair compensation for his travelling and other expenses for attending a meeting of the Board or a Committee in addition to his fee for attending such meeting.

36. Vacation of office of Director

The office of a Director and any other office held by virtue of such directorship shall become vacant forthwith if at any time the conditions laid down in Section 283 of the Act are fulfilled and/or if a Director including the Non-retiring Directors is suspended, expelled or declared as a defaulter by the Exchange.

37. Alternate Director

- a. The Board may appoint as an Alternate Director for a Director (hereinafter called the Original Director)

during the Original Director's absence for a period of not less than three (3) months from the State in which the meetings of the Board are ordinarily held.

- b. An Alternate Director appointed under this Article shall not hold office as such for a period longer than that permissible to the Original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the Original Director returns to the State in which the meetings of the Board are ordinarily held.
- c. An Alternate Director while holding office as such shall be entitled to notice of meetings of the Directors and to attend and vote thereat accordingly.
- d. If the term of office of the Original Director is determined before he returns to the State in which the meetings of the Board are ordinarily held, any provision in the Act or in these Articles for the automatic re-appointment of Retiring Director in default of another appointment shall apply to the Original Director and not to the Alternate Director.

38. Director may contract with the Company

- a. Subject to the provisions of Section 314 of the Act, no Director shall be disqualified from his office by holding any office or place of profit under the Company or under any company in which this Company shall be a share holder, or otherwise interested, or which is a shareholder in this Company, or from contracting with the Company either as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the company in which any Director shall be in any way interested, be avoided, nor shall any Director be liable to account to the Company for any profit arising from any such office or place of profit or released by any such contract or arrangement by reason only of such Director holding that office or of the fiduciary relations thereby established, but it is declared that the nature of his interest shall have been disclosed by him at the meeting of the Directors at which the contract or arrangement is determined on, if his interest then existed or in any other case, at the first meeting of the Directors after the acquisition of his interest.
- b. Subject to the relevant provisions of the Companies Act, 1956, no Director shall as a Director vote in respect of any contract / arrangement in which he is so interested as aforesaid and if he does so vote, his vote shall not be counted. Such prohibition shall not apply to any contract by or on behalf of the Company to give the Directors or any of them any security for advance or by way of indemnity.
- c. A general notice in the prescribed form that a Director is a member of any specified firm or company, and that he is to be regarded as interested in all transactions with that firm or company, shall be sufficient disclosure under this clause as regards such Director and such transactions, and after such general notice it shall not be necessary to give any special notice regarding any particular transaction with that firm or company.

39. Rotation and retirement of Directors

a. ²¹ Rotation and retirement of Directors :

At every Annual General Meeting one third of such of the Directors for the time being are liable to retire by rotation or if their number is not three or multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office. The Directors to retire in such cases shall be those who have been longest in office since their last appointment but as between persons who became directors on the same day, shall (unless they otherwise agree among themselves) be determined by lot.

Provided that the Director(s) nominated by FMC, the Managing Director(s), and Whole Time Director(s), if any, shall not be liable to retirement by rotation and shall not be counted for the purpose of determining the number of directors liable to retire by rotation.

- b. A Retiring Director shall be eligible for re-election. The Company at the General Meeting at which a Director retires in the manner aforesaid may fill up the vacated office by electing him or another person thereto.
- c. Subject to Section 256 of the Act, if any meeting at which an election of Directors ought to take place, the place of the vacating Director is not filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill up the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week or if that day is a public holiday till the next succeeding day which is not a public holiday at the same time and place and if at the

²¹ Amended vide Special Resolution passed at the AGM on September 1, 2007.

adjourned meeting the place of vacating Directors is not filled up and that meeting has also not expressly resolved not to fill up the vacancy, then the vacating Director or such of them as have not had their places filled up shall be deemed to have been re-appointed at the adjourned meeting.

- d. Financial Technologies (India) Ltd. (FTIL) shall have the right to appoint its nominee on the Board of Directors Of the Company upon such terms and conditions as it may think fit as long as it continues to hold more than 4 % of the paid up equity capital of the Company. Such a nominee shall not be required to hold any qualification shares and shall otherwise be entitled the same rights and privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the Company. Such a nominee shall be entitled to receive notices of all Board and General Meetings of the Company. Such a nominee shall not retire by rotation. FTIL shall have the right to replace/withdraw/remove its nominee Director at any time and from time to time. FTIL shall also have the right to nominate its nominee on each committee appointed by the Board.

40. General Meeting to increase or reduce the number of Directors

Subject to the provisions contained in these Articles and Sections 252, 255 and 259 of the Act, the Company in General Meeting may increase or decrease the number of its Directors.

Provided that the number of public / non-executive directors will always constitute one third of the Board.

41. Rights of persons other than retiring Directors to stand for Directorship

A person not being a retiring Director shall be eligible for appointment to the office of a Director at any General Meeting if he or some other Member intending to propose him as a Director has left at the office of the Company, not less than fourteen (14) days before the meeting, a notice in writing under his hand to signify his candidature for the office of the Director or the intention of such Member to propose him as a candidate for the office, as the case may be; provided that, such person has signed and filed with the Company a consent in writing to act as such Director, if appointed, along with a deposit of such sum and subject to such conditions as may be specified in Section 257 of the Act.

Acts done by the Board valid notwithstanding defective appointment

All acts done by Board, or by any person acting as a Director shall notwithstanding that it may be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such Director and such person had been appointed and was qualified to be a Director as the case may be.

PROCEEDINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

42. Meeting of the Board

- a. The Board may meet for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it thinks fit; provided that a meeting of the Board shall be held at least once in every three (3) calendar months and at least four (4) such meetings shall be held every year.
- b. ²² The Chairman or Managing Director, may and the Secretary shall on the request of two or more Directors summon a meeting of the Board. Meetings of the Board of the Company shall be held pursuant to a notice of at least seven (7) days or such shorter notice as may be agreed by the directors. The notice of meeting of the Board shall be given in writing to every Director, whether absentee or alternate, at his usual address whether in India or abroad.
- c. Where a notice of meeting is required to be given to a Director who is not in India, the notice shall be given by telex or facsimile (fax) or Email transmission at the telex or fax number or Email address provided by such Director. The service of notice shall be deemed to have been effected on the first working day following the day on which the telex or fax or Email is sent.
- d. Every notice convening a meeting of the Board shall set out the agenda of the business to be transacted thereat in full and sufficient details. Unless otherwise agreed to by all the Directors for the time being of the Company, no item of business shall be transacted at such meeting, which had not been stated in full and sufficient detail in the said notice convening the meeting.

²² Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006

43. Procedure where meeting adjourned for want of quorum

- a. ²³ If a meeting of the Board or a committee of the Board or of any adjournment or adjournments thereof cannot be held for want of quorum, then every such original or adjourned meeting shall stand adjourned from time to time to such day, time and place as the director or directors present at such meeting may fix.
- b. The provisions relating to frequency and time period for holding Board meetings shall not be deemed to have been contravened merely by reason of the fact that a meeting of the Board which had been called in compliance with the terms of that Article could not be held for want of a quorum.

44. Resolution by circulation

Save as otherwise expressly provided in the Act, a resolution shall be as valid and effectual as if it had been passed by the Board or a Committee constituted by the Board, as the case may be, duly called and constituted if a draft thereof in writing is circulated with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee (including absentee Directors / Members), as the case may be, at the usual address whether in or outside India, and has been approved in writing by a majority of such of them as are entitled to vote on the resolution.

45. How questions decided

- a. Save as otherwise expressly provided in the Act and these Articles, a meeting of the Directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers and discretions by or under the regulations of the Company for the time being vested in or exercisable by Directors generally.
- b. All questions arising at any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes.
- c. In the case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote in addition to his vote as a Director.
- d. Notwithstanding anything to the contrary herein contained, any and all resolutions on the matters enumerated below shall be passed only at a meeting of the Board by a majority vote:
 - i Admission to membership of the Exchange;
 - ii To expel or suspend a Member of the Exchange;
 - iii To withdraw any of the membership rights of a Member of the Exchange except those which may deal with his risk management and routine operations in the market which would be handled by the relevant authority of the Exchange as may be specified in the Bye-Laws, Rules and Regulations;
 - iv To impose a fine in lieu of penalty of suspension or expulsion on a member of the Exchange;
 - v To reduce, remit, rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any Exchange Member or withdrawing all or any of the membership rights of a Member of the Exchange;
 - vi Individual plans and projects for which the expenditure is capital in nature and for which the amount exceeds Rupees ten lakh (Rs. 10,00,000);
 - vii Borrowings, loans, issuing debentures and any other financial undertakings, except within the limits approved in the budgets referred to in sub-clause (xi) hereof;
 - viii Establishing limits of issuance of guarantees in the ordinary course of business;
 - ix Establishing bank accounts and authorized signatories for the same or empowering a Committee of Directors to establish such bank accounts and authorized signatories for the same;
 - x Issuance of new shares;
 - xi Approval of the company's annual budgets;
 - xii Investment in other companies;
 - xiii Increase or reduction of the share capital;
 - xiv Recommending the declaration and distribution of cash or stock dividends;
 - xv Merger into or with or acquisition of all part of the business of another juridical person;
 - xvi Dissolution or voluntary bankruptcy;
 - xvii Significant changes in management or organisation, including employment, appointment or removal of the Chief Executive Officer or the Managing Director or Advisors or any whole-time Director, Secretary or General Manager and all functional heads and determining their powers and

²³ Substituted vide Special Resolution passed at the EGM on January 13, 2006.

duties;

- xviii All matters relating to salary, pension, profit sharing, and any other employee benefits, which results in a variation exceeding twenty per cent (20%) from the current levels;
- xix Appointment or removal of an external auditor;
- xx Constituting of committees, and delegation of powers to such committees to meet the various requirements of these presents and the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange as prescribed therein; and
- xxi All real estate transactions over Rupees ten lakh (Rs. 10,00,000).

46. **Quorum**

The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of its total strength, (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three (3) Directors whichever is higher, provided that, where at any time the number of interested Directors is equal to or exceeds two-thirds of the total strength, the number of Directors who are not interested, present at the meeting, being not less than three (3), shall be the quorum during such time. The total strength of the Board shall mean the number of Directors actually holding office as Directors on the date of the resolution or meeting; that is, the total strength of the Board after deducting there from the number of Directors, if any, whose places are vacant at that time.

47. **Chairman of the meetings**

If there is any vacancy in the office of the Chairman or if at any meeting the Chairman is not present within half an hour after the time appointed for holding the meeting, the Directors may choose one among them to be the chairman of the meeting.

48. **Delegation of powers**

- a. The Board may, subject to the provisions of Section 292 of the Act and the other provisions of the Act and these Articles, delegate any of its powers to any committee or relevant authority consisting of such persons, as it thinks fit.
- b. Any committee or relevant authority so formed shall, in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may be imposed on it by the Board. Each such committee or relevant authority shall exercise such powers and duties and be subject to such regulations, if any, as are set out in their respective behalves by the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and subject thereto any direction, Bye-laws or Regulations that may be framed or made by the Board from time to time in that behalf. The Board may decide the remuneration or fees or any other amount that may be payable to the persons appointed on different committees or relevant authority for attending their meetings and for carrying out any work and also sanction the necessary expenses incurred for the effective functioning of the Committees or relevant authorities.

POWERS OF BOARD OF DIRECTORS

49. **General powers of the Exchange vested in Board**

Without prejudice to the generality of the powers conferred by these Articles and the rules framed thereunder, the Board is empowered to make Bye-laws, Rules and Regulations from time to time, for any or all matters relating to the conduct of the business of the Exchange, the business and transactions of the Members of the Exchange, between Members of the Exchange as well as between the Members of the Exchange and persons who are not Members of the Exchange, and to control, define and regulate all such Exchange transactions, and especially to make Bye-laws, Rules and Regulations for matters relating to the functioning of the Exchange, including the following matters:

- a. For admission of various classes of members of the Exchange as well as other market intermediaries and to fix their admission fee, security deposits, applicability of net worth and other criteria, including the power for waiver of certain conditions in respect of specific class of members of the Exchange or in special cases, as it may deem fit, in the interests of the Exchange and promotion of trade;
- b. For the conduct of the business of the Exchange;
- c. For the conduct of the business of the Members of the Exchange with other Members of the Exchange or with persons who are not members of the Exchange and to govern all matters relating to the sale, purchase, clearance, registration, annulment and settlement of all contracts in commodities of all kinds between Members of the Exchange and any person who is not a Member of the Exchange and all contracts which are or have been made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations, or usage of the Exchange or

the Company;

- d. To prescribe the maximum allowable open position for various commodities or for various contracts traded on the Exchange in quantitative or percentage terms, including the power to allow relaxation on the basis of stock certificate or export / import commitment or otherwise;
- e. To prescribe and define the consequence, effect and procedure to be followed on the suspension or expulsion or declaration as defaulter of any Member of the Exchange;
 - i. To prescribe and provide that in the event of any Member of the Exchange being suspended, expelled or declared defaulter, all pending contracts between such Member of the Exchange and the Exchange that have been cleared by the Member of the Exchange be adjusted and closed out irrespective of the period of performance or maturity or expiration of the said contracts not having expired.
 - ii. to provide, regulate and empower the Board or any committee constituted by the Board or that of committee members to fix the prices and rates at which such contracts shall be adjusted and closed out by other Members of the Exchange, and
 - iii. to provide that all moneys arising out of and becoming payable on such adjustment and closing out of contracts shall be payable to the Exchange and shall be paid into a "Guarantee Fund" by whatever name called, or such other fund as may be decided, and that such "Guarantee Fund" or such other fund, as the case may be, shall stand charged with and shall be utilised for payment of all debts, claims and dues by such defaulter, expelled or suspended Exchange Member to the Exchange or the Company or any other Exchange Members in priority to all outside creditors.

50. Board's power to amend Bye-laws, Rules and Regulations

Subject to the provisions of the Act and these presents and also subject to approval of FMC, the Board shall have the power from time to time, to frame, vary, amend or repeal or add to Bye-laws, Rules and Regulations framed in exercise of any powers conferred on the Board by these Articles and all such Bye-laws, Rules and Regulations shall come into force if the sanction of the Government, if required by the Act and the Rules framed there under, has been obtained immediately on passing the same and otherwise immediately on such sanction being received.

51. SPECIFIC POWERS AND DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS

Without prejudice to the generality of the powers conferred by these presents, the Board may manage the business of the Company/Exchange through one or more Managing Directors / Deputy Managing Director, or Chief Executive Officers in such manner as the Board may from time to time determine. The Board shall identify one of them subject to the approval of the Commission to be the Chief Executive of the Exchange, who shall be responsible for all the affairs of the Exchange. His appointment and dismissal shall be with the prior approval of the concurrence of the Commission. It is hereby expressly declared that the Board shall, subject to these presents and to the provisions of the Act have the following powers:

- a. To refer any claims or demands by or against the Exchange/Company to arbitration and / or survey and observe and perform the awards;
- b. To act on behalf of the Exchange in all matters relating to bankrupt and insolvent Members of the Exchange;
- c. To appoint any person to be the attorney or agent of the Exchange with such powers and on such terms as may be thought fit;
- d. To appoint any advocate or attorney to be the standing counsel or specially for any case or matter and to pay such remuneration as it deems fit;
- e. To examine and investigate the financial conditions, business conduct and dealings of Members of the Exchange;
- f. To settle dispute, complaints, claims arising between Exchange Members inter se as well as between Members of the Exchange and persons who are not Members of the Exchange relating to any transaction or contracts made subject to these presents, Bye-laws, Rules and Regulations and practice of the Exchange including settlement by arbitration in accordance with these presents, Bye-laws, Rules and Regulations in force from time to time;
- g. To carry on and transact the several kinds of business specified in clause III of the Memorandum of Association of the Company;
- h. To purchase, take on lease or license or otherwise acquire in India any lands (whether free-hold, leasehold or otherwise) and with or without buildings, structures or machinery (fixed or loose) and any movable property, rights, privileges from any person including a Director of the Company in furtherance of or for

- carrying out its objects at or for such price or consideration and generally on such terms and conditions and with such title thereto as they may think fit or may believe or be advised to be reasonably satisfactory;
- i. To purchase or otherwise acquire from any person and to sell or exchange any patent or technical know-how or license for the use of any invention and to purchase or otherwise acquire for the Company any other property, formulae, concessions, rights and privileges which the Company is authorized to acquire at such price or consideration and generally on such terms and conditions as it may think fit;
 - j. To undertake on behalf of the Company the payment of all rents or compensation and the performance of all covenants, conditions and agreements contained in or reserved by any lease or license that may be granted by the Company and to purchase or otherwise acquire the freehold title of all or any of the lands of the Company for the time being held under lease or for an estate less than a freehold estate;
 - k. To draw, accept and endorse, discount, negotiate and discharge on behalf of the Company all bills of exchange, promissory notes, cheques, drafts, railways receipts, dock warrants, warehouse receipts, delivery orders, government promissory notes, other government instruments, bonds, debentures or debenture stocks of corporations, local bodies, port trusts, improvement trusts or other corporate bodies and to execute transfer deeds for transferring stocks, shares or stock certificates of the government and other local or corporate bodies in connection with any business or any object of the Company;
 - l. To pay for, at its discretion, any property, rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash or in shares, bonds, debentures or other securities of the Company, and any such shares may be issued either as fully paid-up or with amount credited as paid-up thereon as may be agreed upon and any such bonds, debentures or other securities may be either specifically charged upon all or any of the property of the Company or not so charged;
 - m. To engage and at its discretion remove, change, suspend, dismiss and/or remunerate professionals, employees of every description, banks and financial institutions as may be necessary upon such terms and conditions as it thinks fit;
 - n. To accept from any Member, on such terms and conditions as shall be agreed surrender of his shares or stock or any part thereof of the company and/or the membership of the Exchange;
 - o. To secure the fulfilment of any contracts or agreements entered into by the Company, by mortgage or charge of all or any of the property of the Company or in such other manner as it may think fit;
 - p. To institute, conduct, defend, compound or abandon any actions, suits, and legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company and also to compound or compromise or submit to arbitration the same actions, suits and legal proceedings;
 - q. To make and give receipts, releases and other discharges for money payable to the Company, and for the claims and demands of the Company;
 - r. To determine who shall be entitled to sign on the Company's behalf bills of exchanges, promissory notes, dividend warrants, cheques and other negotiable instruments, receipts, acceptances, endorsements, releases, contracts, deeds and such other documents;
 - s. To provide for, from time to time, the management of the affairs of the Company abroad in such manner as it may think fit and in particular to appoint any person to be the attorney or agent of the Company either abroad or in India with such powers including power to sub-delegate and upon such terms as may be thought fit;
 - t. To invest and deal with any of the moneys of the Company not immediately required for the purposes thereof upon such securities as it may think fit;
 - u. To execute in the name and on behalf of the Company in favour of any Directors or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's property (present and future) as it may think fit and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed upon;
 - v. To give to any person employed by the Company or to any commodity Exchange a commission on the profits and/or royalty or profit of any particular business or transaction, or share in the general profits of the Company; and such commission, royalty or share of profits shall be treated as part of the working expenses of the Company;
 - w. To make, vary and repeal Bye-laws, Rules and Regulations for the regulation of the business of the Company/Exchange, its officers and servants from time to time;
 - x. To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts, and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as it may consider expedient for or in relation to any of the matters aforesaid, or otherwise for the purposes of the Company;

- y. To decide and pay salaries, allowances, gratuities, bonus, rewards, presents and gifts to employees or dependants of any deceased employees, to charitable institutions or purposes to subscribe for provident funds and other associations for the benefit of the employees; and
- z. To delegate powers, subject to Section 292 of the Companies Act, to such persons that it may think fit.

52. Attorney of the Company

- a. The Board may appoint at any time and from time to time by Power of Attorney under the Company's seal any person to be the attorney of the Company for such purposes and with such powers authorities and discretion not exceeding those vested in or exercisable by the Board under these Articles and for such period and subject to such conditions as the Board may from time to time think fit, and any such appointment may, if the Board thinks fit, be made in favour of any person or body nominated directly by the Board, and any such Power of Attorney may contain such provisions for the protection or convenience of persons dealing with such attorney as the Board may think fit.
- b. The Board may authorise any such delegate or attorney as aforesaid to sub-delegate all or any powers, authorities and discretion for the time being vested in him.

53. Duty to maintain registers

The Board shall duly comply with the provision of the Act and in particular with the provisions in regard to the registration of the particulars of the mortgages and charges affecting the properties of the Company or created by it; to keep a Register of the Directors; to send to the Registrar an annual list of Members of the company and a summary of particulars of shares and stock, copies of special resolutions and other resolutions of the Board as are required to be filed with the Registrar under Section 192 of the Act and such other information or documents that are to be filed with the Registrar.

54. Duty to maintain record of minutes

- a. The Company shall comply with the requirements of Section 193 of the Act in respect of keeping of the minutes of all proceedings of every general meeting and of every meeting of the Board or any committee thereof.
- b. The chairman of any Meeting may exclude at his absolute discretion such of the matters as are or could reasonably be regarded as defamatory of any person, or irrelevant or immaterial to the proceedings, or detrimental to the interests of the Company.

55. Powers as to commencement of business or branch of business

Any branch or kind of business, which by the Memorandum of Association of the Company or these presents is expressly or by implication authorized to be undertaken by the Company, may be undertaken on being authorized by the Board at such time or times as the Board shall think fit and subject to the relevant provisions of the Companies Act; further, the Board, may keep them in abeyance, whether such branch or kind of business may have actually commenced or not, so long as the Board may deem it expedient not to commence or proceed with such branch or kind of business.

56. Delegation of powers

- a. The Board may from time to time delegate to and confer on any Managing Director / Deputy Managing Director or any whole-time Director or any person or persons, any or all of the powers which the Board of Directors may exercise in relation to the affairs of the Company and/or Exchange and on such terms and conditions and subject to such restrictions as the Board may deem fit (except those which are by law required to be exercised by the Board) and from time to time vary, modify, revoke or alter such delegation of the powers.
- b. The Board may, at any time, delegate all or any of the said powers and on such terms and conditions and subject to such restrictions as the Board may deem fit, either jointly or severally, at its discretion and from time to time vary, cancel or revoke any such delegation.

57. BORROWING POWERS

Subject to these Articles, the Board may, from time to time, but with such consent of the Company in general meeting as may be required under Section 293 of the Act, raise or borrow or secure the repayment of any moneys or sums of moneys for the purpose of the Company; provided that the moneys to be borrowed by the Company, apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business, shall not,

without the sanction of the Company at a general meeting, exceed the aggregate of the paid-up capital of the Company and its free reserves.

Provided that, every resolution passed by the Company or the power to borrow as stated above shall specify the total amount up to which moneys may be borrowed by the Board. The Directors may by a resolution at a meeting of the Board delegate the above power to borrow money otherwise than on debentures to a committee of Directors or the Managing Director within the limits prescribed.

58. **Borrowing powers and assignment of debentures**

Subject to these presents, the Board may, from time to time, at their discretion, raise or borrow or secure the repayment of any sum or sums of money for the purpose of the Company at such time and in such manner and upon such terms and conditions as it thinks fit, and in particular, by promissory notes, or by opening overdraft accounts, or by receiving deposits and advances, with or without security, or by the issue of bonds, perpetual or redeemable, debentures or debenture stock of the Company charged upon all or any part of the property of the Company, present and future, including its uncalled capital for the time being, or by mortgaging or charging or pledging any land, buildings, goods, property and securities of the Company, or by such other means as may seem expedient.

58A ²⁴ **Term of Issue of Debenture**

Any debentures, debenture stock or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise, and may be issued on condition that they shall be convertible into shares of any denomination and with any privileges and conditions as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending (but not voting) at the general meeting, appointment of directors, and otherwise debentures with the right to conversion into or allotment of shares shall be issued only with the consent of the company in the general meeting by way of special resolution.

59. **Concurrence**

Any and all resolutions on the matters enumerated below, shall be placed or brought before the general meeting of the Members of the Company for their concurrence, if so required by the Act:

- a. Issuance of new shares;
- b. Sale, purchase and licensing of industrial property rights;
- c. Investment in other companies;
- d. Increase or reduction of the share capital;
- e. Merger into or with or acquisition of all or part of the business of another juridical person;
- f. Dissolution or voluntary bankruptcy; and
- g. Establishing regulations concerning the conduct of business and affairs of the Company

60. **Nomination of Directors by Government or financial institution**

In case the Central Government or any State Government or any industrial finance corporation, sponsored or financed by any of the above Governments, or any other financial institution, bank or agency grants loan or accepts participation in the capital of the Company in pursuance of any underwriting of the capital of the Company, such Government, corporation, other financial institution or bank may, if the Company so consents, be entitled, so long as such Government corporation, other financial institution or bank continues to be a creditor or shareholder in terms of such arrangement, to nominate, and from time to time to substitute in the place of such nominee, a Director to protect the interests of such Government, corporation, other financial institution or bank, on the Board of Directors of the Company. The Director, so nominated, shall not be liable for retirement by rotation or to hold any qualification shares. The appointing Government, corporation, other financial institution or bank may, from time to time, remove the person so appointed and appoint or re-appoint any other person in his place. In the event of any vacancy in the office of such Director, for any reason whatsoever, the Government, corporation, other financial institution or bank that appointed him, may appoint any other person to fill up such vacancy.

61. **Subsequent assignees of uncalled capital**

Where any uncalled capital of the Company is charged, all persons taking any subsequent charge therein shall take the same subject to such prior charge; and shall not be entitled, by notice to the shareholders or otherwise, to

²⁴ Inserted vide special resolution passed at the EGM dated January 13, 2006

obtain priority over such prior charge.

62. Powers to be exercised by Board only at a meeting

Subject to the provisions of these Articles hereof, the Board shall exercise the following powers on behalf of the Company and the same powers shall be exercised only by resolution passed at a meeting of the Board:

- a. Power to make calls on shareholders in respect of moneys unpaid on their shares;
- b. Power to issue debentures;
- c. Power to borrow moneys otherwise than on debentures;
- d. Power to invest the funds of the Company;
- e. Power to make loans.
- f. Power to Buy Back shares of the company

63. Delegation of powers to Committee/Managing Director

Subject to and in accordance with Section 292 of the Act, the Board may, by a resolution passed at a meeting, delegate to any committee or to the Managing Director / Deputy Managing Director or employee(s) the power specified in sub-clauses (c), (d), and (e) of the Article above, provided that every resolution delegating power set out in:

- a. sub-clause (c) shall specify the total amount outstanding at any time up to which moneys may be borrowed by the said delegate.
- b. sub-clause (d) shall specify the total amount up to which the funds may be invested and the nature of the investments which may be made by the delegate.
- c. sub-clause (e) above shall specify the total amount up to which loans may be made by the delegates and the purpose for which the loans may be made and the maximum amount of loan that may be made for such purpose in individual case.

64. Other powers to be exercised only at Board Meeting

The Board shall exercise the powers referred to in Sections 262, 292, 297, 316, 372A and 386 of the Act only at the meeting of the Board.

MANAGEMENT

65. Board may appoint Chief Operating Officer/Chief Executive Officer

- a. Subject to the provisions of the Act and these Articles the Board of the Company may appoint or dismiss the Chief Operating Officer or Chief Executive Officer or Chief Executive of the Company upon such terms and conditions as the Board may think fit.
- b. The remuneration of a Chief Operating Officer or Chief Executive Officer or Chief Executive may be by way of a fixed monthly payment, or participation in profits or by way of a combination of one or more of the above modes or any other mode not expressly prohibited by the Act.
- c. A Chief Operating Officer or Chief Executive Officer or Chief Executive shall, subject to the supervision, control and direction of the Board, have such powers and perform such duties as the Board may from time to time determine.

66. Appointment of Managers

If at any time the Company has no Chief Operating Officer or Chief Executive Officer or Chief Executive holding office, the business of the Company shall be managed by the Board and in such manner and through such officers as the Board may deem fit and the Board if they so deem fit, may subject to the provisions of Section 197A of the Act and with such sanction, if any, as may be required for the purpose, appoint one or more persons as Manager(s) of the Company and on such remuneration as they deem fit.

67. Common Seal

The Board shall provide a common seal of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof. The Board shall provide for the safe custody of the seal.

68. Affixing of Common Seal

Subject to these presents, the seal shall not be affixed to any instrument except by authority of a resolution of the Board or of a committee of the Board authorized by it in this behalf and unless the Board otherwise determines, every deed or other instrument to which the seal is required to be affixed, shall, unless the same is executed by a

duly constituted attorney for the Company, be signed by one Director at least in whose presence the seal shall have been affixed and countersigned by the Secretary or such other persons as may from time to time be authorized by the Board; provided nevertheless that, any instrument bearing the seal of the Company and issued for valuable consideration shall be binding on the Company notwithstanding any irregularity touching the authority to issue the same.

DIVIDENDS AND RESERVES

69. Declaration of dividends

The Company in general meeting may declare dividends but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board.

70. Interim dividend

The Board may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to them to be justified by the profits of the Company.

71. Dividends to be paid out of profits only

No dividend shall be payable except out of the profits of the year or any other undistributed profits except as provided by Section 205 of the Act.

72. Reserves

- a. The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company, such amount as they think proper as a reserve, which shall, at the discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profit of the Company may be properly applied, including provision for meeting contingencies or for equalising dividends, and pending such application, may at its discretion either be employed in the business of the Company or be invested in such investment as the Board may, from time to time, think fit.
- b. The Board may also carry forward any profits, which it may think prudent not to divide, without setting them aside as reserve.

73. Dividends on amounts paid-up on shares

- a. Subject to the rights of persons if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid-up or credited as paid-up on the shares in respect whereof the dividend is paid.
- b. No amount paid or credited as paid-up on a share in advance of calls shall be treated for the purpose of these regulations as paid on the share.
- c. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, such share shall rank for dividend accordingly.

74. Adjustment of dividends against calls

Any general meeting declaring a dividend or bonus may make a call on the Members of such amount as the meeting fixes, but the call on each Member shall not exceed the dividend or bonus payable to him and the call can be made payable at the same time as the dividend or bonus and the dividend or bonus may if so arranged between the Company and the members be set off against the call.

75. Payment by cheque or warrant

- a. Any dividend, interest or other moneys payable in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post, to the registered address of the holder or in the case of joint holders to the registered address of that one of the joint holders, who is first named on the Register of Members or to such person and to such address as the holder or the joint holders may in writing direct.
- b. Every such cheque or warrant shall be made payable to order for the person to whom it is sent.
- c. Every such cheque or warrant shall be posted within a period from the date of declaration of dividend as may be specified in the Companies Act.

76. Receipts of joint-holders

Any one of two or more joint holders of a share may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other moneys payable in respect of such shares.

77. No interest on dividend

No dividend shall bear interest against the Company.

78. ²⁵ Unclaimed dividends

Where the company has declared a dividend but which has not been paid or the dividend warrant in respect thereof has not been posted within 30 days of the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the company shall, within 7 days of the date of expiry of the said period of 30 days, open a special account in that behalf in any scheduled bank called "Unpaid Dividend of Multi Commodity Exchange of India Limited" and transfer to the said account, the total amount of dividend which remains unpaid or in relation to which no dividend warrant has been posted.

Any money transferred to the unpaid dividend account of the company which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the company to the Fund established under Sec 205C of the Act.

No unclaimed dividend or unpaid dividend shall be forfeited by the Board.

79. Notice of dividend

Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the Members in the manner mentioned in the Act.

80. Capitalization of profits

a. Subject to these Articles, the Company in General Meeting, may on the recommendation of the Board, resolve:

- i That it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution; and
- ii That such sums be accordingly set free for distribution in the manner specified in these presents, amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions.

b. The sum aforesaid shall not be paid in cash but shall be applied, subject to the provisions contained herein below, either in or towards:

- i Paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively;
- ii Paying up in full, un-issued shares or debentures of the Company to be allotted and distributed, credited as fully paid-up, to and amongst such Members in the proportion aforesaid; or
- iii Partly in the way specified in sub-clause b (i) and partly in that specified in sub-clause b (ii).

c. A share premium account and a capital redemption reserve account may for the purpose of this regulation only be applied in the paying up of un-issued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.

d. The Board shall give effect to the resolutions passed by the Company in general meeting in pursuance of this Article.

81. Directors' power to declare bonus

a. Whenever a resolution to declare and distribute bonus, as aforesaid, shall have been passed, the Board shall:

- i Make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalised hereby and make all allotments and issue fully paid shares if any; and
- ii Generally do all acts and things required to give effect thereto.

b. The Board shall have the following powers:

- i To make such provisions, by the issue of fraction certificates or by payments in cash or otherwise as they may think fit, in the case of shares becoming distributable in fractions; and also
- ii To authorise any person to enter on behalf of all of the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them, respectively, credited as fully

²⁵ Inserted vide special resolution passed at the EGM dated January 13, 2006

paid-up, any further shares to which they may be entitled upon such capitalization or (as the case may require) for the payment by the Company on their behalf by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares.

- c. Any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

ACCOUNTS

82. Books of account

- a. The Board shall cause proper books of account to be kept in respect of sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place, of all sales and purchases of goods or services by the Company, and of the assets and liabilities of the Company.

If the Company shall have a branch office, whether in or outside India, proper books of account relating to the transactions effected at such office, shall be kept at that office, and proper summarised return made up to date at intervals of not more than three (3) months, shall be sent by the branch office to the Company at the Registered Office or other place in India, as the Board thinks fit, where the main books of the Company are kept.

Provided that all or any of the books of account aforesaid may be kept, at such other place in India as the Board may decide and when the Board so decides the Company shall within seven (7) days of the decision, file with the Registrar a notice in writing giving the full address of that other place.

- b. All the aforesaid books shall give a true and fair view of the Company or of its branch as the case may be, with respect to the matters aforesaid, and explain its transactions.

83. Inspection by Members

The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations, the account books and documents of the Company or any of them shall be open to inspection by the members, and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or books or documents of the Company, except as conferred by statute or authorized by the Board or by a resolution of the Company in general meeting.

AUDIT OF ACCOUNTS

84. Audit

Every balance sheet and profit and loss account shall be audited by one or more Auditors to be appointed in accordance with the provisions of the Companies Act.

SERVICE OF DOCUMENTS AND NOTICE

85. Service of documents on/by the Company

A document may be served on the Company or an officer thereof by sending it to the Company or officer at the Registered Office of the Company by post, under certificate of posting, or by registered post or by leaving it at the Registered Office.

86. Service of documents

- a. A document (which expression for this purpose shall be deemed to include any summons, notices, requisition, process, order, judgement or any other document in relation to the Company or the winding up of the Company) may be served or sent by the Company on or to any Member either personally or by sending it by post to him at his registered address.
- b. All notices shall with respect to any registered shares to which persons are entitled jointly be given to whichever of such persons is named first in the Register and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such shares.
- c. Where a Member has intimated to the Company in advance that document should be sent to him under a certificate of posting or by registered post with or without acknowledgement due and has deposited with the Company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the documents shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the member.
- d. In the case of a notice of a meeting to a Member who has his registered address in India, the notice

deemed to have been validly served at the expiration of forty-eight (48) hours after the letter containing the notice is posted at his registered address and in any other case, at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

87. Service of documents outside India

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, the Company shall at the written request of any Member whose registered address is situated outside India:

- a. Serve a copy of any document of notice to such Member at such registered address by prepaid registered airmail; and
- b. Simultaneously send an extract document or notice by telex at telex number or fax at fax number provided by such member.

The cost of sending such registered airmail and telex or fax shall be for the account of the Member concerned who shall from time to time, at the request of the Company, deposit with the Company a sum sufficient to meet the cost thereof.

88. Service on persons acquiring shares on death or insolvency

A document may be served by the Company on the persons entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent or by any like description of the entitled or (until such an address has been so supplied) by serving the document in any manner in which the same might have been served if the death or insolvency had not occurred.

89. Notice of general meeting

Subject to the provisions of the Act and these Articles, notice of general meeting shall be given:

- a. To the Members of the Company in any manner authorized by these Articles or as authorized by the Act.
- b. To the person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member in the manner as provided by these Articles or as authorized by the Act.
- c. To the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner as authorized by the Act as in the case of any Member of the Company.

90. Notice by Advertisements

Subject to the provisions of the Act, any document required to be served or served by the Company or to the Members, or any of them and not otherwise provided for by these presents, shall be deemed to be duly served or sent if advertised in a newspaper circulating in the district where the Registered Office of the Company is situated.

91. Member's liability to documents given to previous holders

Every person, who by the operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every document in respect of such share which, prior to his name and address being entered on the Register, shall have been duly served on or sent to the person from whom he derives his title to such share.

92. Signing of notices

Any notices to be given by the Company shall be signed by the Managing Director, if any, or by such Director or Officer as the Board may appoint. The signature to any notice to be given by the Company may be written or printed or lithographed.

AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

93. Authentication of documents of proceedings

Save as otherwise expressly provided in the Act or these Articles, a document of proceedings requiring authentication by the Company may be signed by a Director, the Managing Director or an authorized officer of the Company and need not be under its seal.

WINDING UP

94. Distribution of assets upon winding up

If the Company shall be wound up and if the assets available for distribution amongst the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up equity capital or equity capital deemed to be paid-up,

such assets shall be distributed so that the losses shall be borne by the Members in proportion to the equity capital paid-up or deemed to be paid-up at the commencement of the winding up, on the shares held by them respectively; and if in winding up, the assets available for distribution amongst the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the equity capital paid-up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed amongst the Members in proportion to the equity capital paid-up or deemed to be paid-up at the commencement of the winding up, on the shares, held by them respectively. In the event of winding up, where capital is paid-up on any shares in advance of calls, upon the condition that the same shall carry interest, such capital shall be excluded and shall be repayable in full before the distribution is made on the paid-up capital or capital deemed to be paid-up together with interest at the rate agreed upon. The provisions of this Article shall be subject to any special rights or liabilities attached to any special class of shares forming part of the capital of the Company.

95. **Division of assets in specie**

If the Company shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the liquidators, may with the sanction of a Special Resolution, divide among the contributors, in specie or kind, any part of the assets of the Company, and may with the like sanction, vest any part of the assets of the Company in trustees, upon such trusts for the benefit of the contributors or any of them, as the liquidators with the like sanction shall think fit, so that no Members shall be compelled to accept any shares or securities whereon there is any liability. In case any shares or securities to be divided as aforesaid involve a liability to call or otherwise, any person entitled under such division to the said shares or securities may within ten days after the passing of the special resolution, by notice in writing direct the liquidators to sell his proportion and pay him the net proceeds, and the liquidators shall, if practicable, act accordingly.

INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

96. **Right of Directors and others to indemnity**

- a. Subject to the provisions of the Act, the Managing, Technical, Executive or whole-time Directors, Secretary, Auditor, Advisor and every officer or employee of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the Company to pay out of the funds of the Company, all properly documented costs, losses, and expenses including travelling expenses which any such Managing, Technical, Executive or whole-time Directors, Director, Secretary, Auditor, Advisor, Officer or employee may incur or become liable to, by reason of any contract entered into or act or deed done by him or in any other way in the discharge of his duties as such Managing, Technical, Executive, or whole-time Directors, Director, Secretary, Auditor, Officer or employee.
- b. Subject as aforesaid the Managing, Technical, Executive or whole-time Directors and every Director, Manager, Secretary or other officer or employee of the Company shall be indemnified against any liability incurred by them or him in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgement is given in their or his favour or in which they or he is connected with any application under Section 633 of the Act in which relief is given to them or him by the Court.

97. **Not responsible for acts of others**

- a. Subject to the provisions of Section 201 of the Act, no Director or other officer of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Director or Officer or for joining in any receipt or other act for conformity or for any loss or expenses happening to the Company through insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Directors for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any money of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act of any person, Company or corporation with whom any moneys, securities or effects shall be entrusted or deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part, or for any other loss or damage or misfortune whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto, unless the same occurs through his own wilful act or default.
- b. Without prejudice to the generality of the foregoing, it is hereby expressly declared that any filing fee payable on any document required to be filed with the Registrar of Companies in respect of any act done by any Director or other Officer, by reason of his holding the said office, shall be paid and borne by the Company.

98. **Secrecy**

- a. No Member shall be entitled to visit or inspect the Company's work without the permission of the Directors or an officer authorized by the Board or Managing Director, or to require discovery of, or any information respecting, any detail of the Company's business or any matter which is or may be in the

nature of a business secret, mystery of trade or secret process, or which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Board it will be inexpedient in the interest of the Company to communicate to public.

- b. Every Director, Managing, Technical, Whole-time, Executive Director, Manager, Secretary, Auditor, Trustee, member of a Committee, Officer, Agent, Accountant, Employee or other person employed in the Business of the Company shall if so required by the Board before entering upon his duties, or at any time during his term of office, sign a declaration pledging himself to strict secrecy respecting all transactions of the Company; all technical information possessed by the Company, and the state of accounts and in matters relating thereto, and shall by such declaration pledge himself not to reveal any of the matter which may come to his knowledge in the discharge of his duties, except when required so to do by the Board or by any general meeting or by a Court of Law or by the persons to whom such matters relate and except so far as may be necessary in order to comply with any of the provisions contained in these Articles.

99 ²⁶ Secretary

- a. Subject to the provisions of the Act in this behalf, the Board of Directors may from time to time appoint any qualified individual, as the whole time Secretary of the Company to perform duties which may be performed by a Secretary under the Act and any other purely ministerial and administrative duties as the Board of Directors may from time to time assign to the Secretary including the duty to keep the register required to be kept under the Act.
- b. The Board of Directors may at any time appoint a temporary qualified substitute for whole time secretary who shall for the purpose of the Articles be deemed to be the Secretary.

²⁶ Inserted vide special resolution passed at the EGM dated January 13, 2006

We the several persons whose name, descriptions are hereunder subscribed are desirous of being formed into a Company in pursuance to this ARTICLES OF ASSOCIATION

Name, Address, Description and occupation of each Subscriber	Signature of Subscriber	Signature of Witness and his name, address, description & occupation
<p>HARIHARAN VAIDYALINGAM S/o. V. VAIDYALINGAM SHARMA A3-62, MAHINDRA GARDENS, Adj. to PATKAR COLLEGE, S. V. ROAD, GOREGAON (W) MUMBAI - 400 062.</p> <p>OCCUPATION - SERVICE</p>	Sd/-	<p>WITNESS TO SUBSCRIBER NO. 1 TO 2 Sd /-KETAN M. SHAH S/o MAHENDRAKUMAR H. SHAH 12, Damodar Niwas, 32/34, C.P. Tank Road, Mumbai - 400 004 Chartered Accountant</p>
<p>RINSY ANSALAM, S/o. ATHIPOZHYIL HENRY ANSY ATHIPOZHYIL HOUSE ARTHINKAL POST CEHRTALA, ALAPUZHA, KERALA - 688530</p> <p>OCCUPATION - SERVICE</p>	Sd/-	

Dated: 17th Day of April 2002

Place: Mumbai

For **Multi Commodity Exchange of India Limited**


Company Secretary and Chief Compliance Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
 एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012